



## ब्रीफ न्यूज

विधायक निर्मला सप्रें की सदस्यता पर फैसला जल्द

**भोपाल।** रामनिवास रावत के साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने वाली बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रें की सदस्यता पर निर्णय अगले सप्ताह होगा। विधानसभा सचिवालय ने उन्हें अपनी बात रखने का अंतिम अवसर दिया है। वहीं, सप्रें ने कहा है कि वे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगी। उधर, कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। इसलिए आवेदन का निराकरण शीघ्र करें।

## दुग्ध उत्पादन में प्रदेश अग्रणी किसानों को मिल रहा मुनाफा

**भोपाल।** दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल है। यहां दुग्ध उत्पादक किसान न केवल बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन कर रहे हैं, अपितु दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विक्रय से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। भारत का नौ फीसदी दुग्ध उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संकल्प है कि प्रदेश का दुग्ध उत्पादन, देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 20 फीसदी तक पहुंचे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल ने बताया कि भारत में दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश का तीसरा स्थान है। प्रदेश में 591 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता है।

## मुख्य सचिव आम लोगों से भी करेंगे मुलाकात

**भोपाल।** प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन जल्द आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। प्रदेश से मंत्रालय पहुंचने वाले लोगों को भी मुख्य सचिव से मिलकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसके लिए मुख्य सचिव हफ्ते में कोई दिन निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि आम लोगों से मिलना कब शुरू करेंगे, यह अभी तय नहीं है। मंत्रालय में सरकारी कामकाज में सुधार की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में अब मुख्य सचिव लोगो से सीधा सवाद प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। पूर्व में तत्कालीन मुख्य सचिव अंटोनी डिसा और केएस शर्मा भी आम लोगों से मुलाकात करते थे। इस दौरान वे लोगों की समस्याओं भी सुनते थे। आम लोगों से मुलाकात का सिलसिला बंद हो गया था, जिसे अनुराग जैन शुरू करने की तैयारी में है।

## भोपाल से हैदराबाद-बैंगलुरु के लिए हॉंगी फ्लाइट

**भोपाल।** राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल में एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस नई उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है। लंबे समय बाद भोपाल को गोवा से एक बार फिर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने वाली है। भोपाल एयरपोर्ट से 180 सीटर डायरेक्ट फ्लाइट गोवा के लिए उड़ान भरेगी। इसके अलावा एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस हैदराबाद और बैंगलुरु के लिए भी अतिरिक्त फ्लाइट सेवा शुरू करेगी। इससे पहले इंडिगो ने मई 2023 में पहली बार भोपाल से गोवा तक सीधी उड़ान शुरू की थी। भोपाल से गोवा तक का सफर एक घंटा 50 मिनट में पूरा होगा। प्रस्तावित उड़ान शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी छह दिन रहेंगी। इसका शेड्यूल भी पैसेंजर फ्रेंडली है।

## ऑनलाइन लैंगिक हिंसा के बारे में शिक्षित किया जाना समय की जरूरत: मंत्री भूरिया

सत्ता सुधार ■ भोपाल

महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सभी युवाओं को सोशल मीडिया साक्षरता, डिजिटल एक्सप्लोरेशन और ऑनलाइन लैंगिक हिंसा के बारे में शिक्षित किया जाना समय की जरूरत है। मंत्री सुश्री भूरिया सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 'हम होंगे कामयाब' पखवाड़े के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उपयुक्त महिला बाल विकास सफ़िया फारूकी वली सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का भी प्रसारण किया गया। उन्होंने



अपने संदेश में प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना जरूरी है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा व सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त

मनाया जा रहा है। इसमें पुरुष वर्ग की भूमिका ज्यादा अहम है। सीएम ने कहा था कि यह आवश्यक है कि माता-पिता अपने बच्चों को जागरूक करें। महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध करें। साथ ही समाज और परिवार में सभी समानता का माहौल बनाए। मंत्री सुश्री भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त

करते हुए कहा कि सीएम ने इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लिया और पूरे प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। हम होंगे कामयाब अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकथाम है। 25 नवंबर को हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस 16 दिवसीय सक्रियता अभियान से निश्चित ही हमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान जैसे इन गंभीर मुद्दों को गहराई से समझने और ठोस समाधान तलाशने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। सुश्री भूरिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चला रही है। इन्हें लागू करने के लिए कानूनों और नीतियों का निर्माण किया गया है जिससे महिलाएं अपनी सुरक्षा

और अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। कई राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष पुलिस स्टेशन खोले गए हैं जहां महिलाएं बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वे तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं। महिला हेल्पलाइन की जानकारी प्रदेश की प्रत्येक महिला तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने इस अभियान में महिला हेल्पलाइन नंबरों के व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वे संगठन महिलाओं की शिक्षा को शिक्षा स्वास्थ्य कानून सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करते हैं। भरेलू हिंसा के लिए पुलिस व न्यायिक

व्यवस्था में समन्वय होना चाहिए। महिला थानों में भी आने वाले प्रकरणों में उन्हें कानूनी सलाह प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

## पुरुषों की मानसिकता बदलने का भी प्रयास: शमी

प्रमुख सचिव महिला बाल विकास रश्मि अरूण शमी ने कहा कि वे पखवाड़ा बच्चों और महिलाओं पर केन्द्रित नहीं बल्कि पुरुषों की मानसिकता बदलने का भी प्रयास है। उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार में परिवर्तन ही नए समाज की नींव रखेगा पूरे पखवाड़े के दौरान जिलों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से समन्वय गतिविधियां निर्धारित की गई हैं। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने 'हम होंगे कामयाब' अभियान का अधिकारिक लोगो भी लॉन्च किया।

## औद्योगिक विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक

## सीएम ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के साथ निवेश और विकास पर की चर्चा

## अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को प्रदेश के विकास से जोड़ने का प्रयास

सत्ता सुधार ■ भोपाल

यूरोपीय देशों के दौर पर गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को लंदन पहुंचे। यहां होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से सीएम मोहन यादव का स्वागत किया। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम (यूके) और जर्मनी की छह दिवसीय यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री ने लंदन पहुंचने पर यूके में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम के. दोरईस्वामी के साथ ब्रीफिंग की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने यूके दौरे के पहले दिन भारतीय उच्चायोग, लंदन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास, तकनीकी सहयोग और वैश्विक निवेश को लेकर प्रदेश की योजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा ब्रिटेन से शुरू करने पर खुशी व्यक्त करते हुए भारतीय उच्चायोग के सहयोग की सराहना की। सीएम ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव का क्षण है। इस यात्रा की तैयारी में उच्चायोग टीम द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक



## भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से किया डॉ. मोहन यादव का स्वागत



भारतीय उच्चायोग से विशेष सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरा विशेष अग्रह है कि उच्चायोग की टीम मध्यप्रदेश को ब्रिटिश निवेशकों के लिए आदर्श स्थल के रूप में स्थापित करने में हमारा सहयोग करें। बैठक में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम के. दोरईस्वामी, उपायुक्त सुजीत घोष, मंत्री निधिनिधि निपाटी और प्रथम सचिव (व्यापार) जसप्रीत सिंह सुवर्चोका मौजूद रहे।

विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि उच्च, रीवा, न्वाँलियर, जबलपुर और सागर जैसे शहरों में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश में निवेश को लेकर

सीएम ने कृषि, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में साझेदारी की बात कही। डॉ. यादव ने फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट के लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम अब राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को प्रदेश के विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत लंदन से हो रही है।

## महात्मा गांधी को सीएम ने दी पुष्पांजलि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज यूके में प्रयास के दौरान ब्रिटिश संसद परिसर का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने संसद परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सीमा यादव भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वे सभी संभावनाएं हैं, जिसके बल पर वह पूरे देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर निवेशकों को आमंत्रित कर सकें। मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें सफलता भी मिल रही है।

## बाबा साहेब को करेंगे श्रद्धासुमन अर्पित

मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह यूके डॉ. बीआर अंबेडकर हाउस में डॉ. अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव यहां भारतीय संविधान की प्रति लेकर जाएंगे और संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी करेंगे। डॉ. यादव आमंत्रित अतिथि उद्योगपतियों के लिए दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव समानांतर सेक्टरल राउंडटेबल मीटिंग में उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे।

## सीएम ने दी संविधान दिवस की बधाई

सीएम डॉ. मोहन यादव ने 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संविधान के सभी अनुच्छेदों के महत्व के दृष्टिगत नागरिकों में जागरूकता लाने की पहल की है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, उसे जनता तक पहुंचाने के लिए संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

## 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' कार्यक्रम राज्यपाल की उपस्थिति में होगा

सत्ता सुधार ■ भोपाल

मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में संविधान दिवस आयोजन सम्बंधी बैठक हुई। बैठक में अगवत कराया गया कि राज्यपाल मंगुभाई पटेल की गरिमायथी उपस्थिति में 26 नवंबर को रवीन्द्र भवन भोपाल के हंसध्वनि सभागृह में प्रातः 11 बजे राज्य-स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रदेश की विविध विधितियों का स्मरण किया जाएगा। इसमें संविधान निर्माण सम्बंधी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और संविधान संबंधी लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य सचिव श्री जैन ने संबन्धित विभागों के साथ कार्यक्रम तैयारियों को लेकर समीक्षा की। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, संविधान को अंगीकृत करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के महत्व को देखते हुए वर्ष भर चलने वाले उत्सव को हमारा संविधान- हमारा स्वाभिमान अभियान के अन्तर्गत चलाया जाएगा। संविधान



दिवस को सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सवपूर्वक मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, स्वशासी संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों में 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। संविधान दिवस पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी होगा, इसमें अधिकाधिक संख्या में शासकीय सेवकों के साथ आम

## मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई संविधान दिवस आयोजन सम्बंधी बैठक

नागरिकों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सहभागी, सामूहिक वाचन की तस्वीर पेटलल [www.constitution/z.com/](http://www.constitution/z.com/) पर अपलोड कर सकते हैं। तस्वीर अपलोड करने के उपरांत वेबसाइट पर एक प्रमाण-पत्र तैयार हो जाएगा, इसे डाउनलोड कर सोशल मीडिया में साझा किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था।

## मध्यप्रदेश में कांग्रेस सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह से पीड़ित: सरोज

## कम्युनिस्ट नेता को पूर्व सीएम ने दिया जवाब-ये बात सही नहीं

सत्ता सुधार ■ भोपाल

समन्वय भवन में ऑल इंडिया बहुजन इटैलेक्ट समिट में कम्युनिस्ट नेता बादल सरोज ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर मजाकिया लहजे में कहा कि मेरे ख्याल से कांग्रेस सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह से पीड़ित है। मेरे दोस्त बताते हैं कि ये मरवाएंगे, आज ये बोल दिया अब ये मरवाएंगे। तो ये गलतफहमियां दूर कर लें कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। कम्युनिस्ट लीडर द्वारा मजाकिया लहजे में कही गई बात का दिग्विजय सिंह ने भी अपने भाषण में जवाब दिया। कम्युनिस्ट नेता द्वारा मजाकिया लहजे में बोली गई बात पर दिग्विजय ने पलटवार करते हुए



समिट में भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी को मुझसे आपत्ति हो लेकिन ये बात सही नहीं है। मैं सीपीआईएम नेता बादल सरोज से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आज तक मेरे किसी भी वक्तव्य पर नोटिस नहीं दिया। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने अक्षरशः जो नीति, विचार या विचारधारा

अपना बचाव किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने संविधान विहीन भारत विषय पर आ यो िज त सरोज ने अपने विरोधियों को दशाने और अपनी मंत्री राजा पटेरिया मौजूद थे। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिग्विजय सिंह की चोरी और सीनाजोरी। मिस्टर बंटाधार सीना ठेक कर कह रहे हैं कि मेरे किसी बयान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आजतक कोई नोटिस नहीं मिला नोटिस है।

## भारतीय संविधान की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता

संविधान हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी दस्तावेज है। यह हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारतीय संविधान की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि इसके निर्माण के समय थी। भारतीय संविधान ने हमारे देश को एक संघीय लोकतंत्र बनाया है, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाते हैं। संविधान ने हमारे देश की विविधता और सामाजिक बहुलता को बनाए रखने में मदद करता है। आज के समय में, जब दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता है, भारतीय संविधान की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। यह संविधान हमें यह याद दिलाता है कि हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ अपने

कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। इसलिए, हमें भारतीय संविधान के महत्व को समझना चाहिए और इसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकजुट होना चाहिए। एक रहकर ही हम लोग सुरक्षित, समृद्ध और संपन्न समाज के रूप में विश्व में अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मन वचन और क्रम से हमें संविधान के मूल्यों को अपनाना चाहिए। संविधान को क्षतिग्रस्त करने के जो प्रयास समय-समय पर निहित स्वार्थों द्वारा किए जाते हैं उन्हें भी बेनकाब करते रहना चाहिए। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें राष्ट्र की नवीनतम आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को बदलने और ढालने की क्षमता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव



रखा, जिसे संसद में पारित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। इसके पीछे अनेक कारणों में से एक यह था कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में व्यवस्था, विकास और प्रगति में बाधाएं आ रही थीं। इस अनुच्छेद के कारण जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, जिससे वहां के निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। हालांकि, इस निर्णय के विरोध में भी कई आवाजें उठाई गईं। निहित स्वार्थियों का मानना था यह निर्णय 9%जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता को कम करेगा और वहां के निवासियों के अधिकारों

को प्रभावित करेगा। इस निर्णय के बाद, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया - जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, जम्मू और कश्मीर में विकास और प्रगति के नए अवसर खुल गए हैं। सकारात्मक संशोधन का एक और अनुपम उदाहरण है। संविधान के 106वें संशोधन से महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। इस संशोधन के तहत, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह संशोधन महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि भारत के

विकास के लिए आवश्यक है। यह संशोधन 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपनी सहमति देने के बाद लागू हुआ। यह संशोधन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के उदाहरण मौजूद न हों। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने का निर्णय एक विवादास्पद घटना थी जिसे संवैधानिक इतिहास में एक बुरे उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है। यह निर्णय 25 जून 1975 को लिया गया था, जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फख्रुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करने का अनुरोध किया था। आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी ने विपक्षी दलों और नेताओं को कैद कर लिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा

दिया, और नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काली अवधि है। आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों को दशाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। आपातकाल की घोषणा के बाद, इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव कराने का फैसला किया। हालांकि, उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, और जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी। आपातकाल की घटना ने भारतीय राजनीति में इतिहास पर एक गहरा प्रभाव डाला। इसने जिस तहत भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संविधान के प्रति सम्मान की आवश्यकता को रेखांकित किया, इसका उदाहरण विश्व इतिहास में अन्यत्र मुश्किल से ही मिलता है।

# आपकी ड्यूटी क्या है, और कैसे हैंडल करते हैं : एनक्यूएस

जिला अस्पताल में एनक्यूएस की टीम ने किया भ्रमण

सत्ता सुधार ■ श्यापुर

जिला अस्पताल में क्वॉलिटी और स्टैंडर्ड के पैमानों को परखने के लिए सोमवार को दोपहर 12 बजे नेशनल क्वॉलिटी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी का दो सदस्यीय दल श्यापुर पहुंचा जिसने सबसे पहले जिला अस्पताल में प्रौद्योगिकी के माध्यम से जिला अस्पताल में दी जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की एवं चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ से परिचय प्राप्त किया। सिविल सर्जन डॉ आरबी गोयल ने बारी बारी से जिला अस्पताल में 19 डिपार्टमेंट की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया।

सोमवार को एनक्यूएस के दल में

शामिल डॉ राजवीर कुशवाह और डॉ प्रमोद मिश्रा ने निरीक्षण शुरू करने से पहले मीटिंग हॉल में अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ आरबी गोयल, आरएमओ डॉ गजेन्द्र धाकड़, डॉ प्रदीप शर्मा सहित अन्य डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। इसके बाद टीम ने दो भागों में बंटकर जिला अस्पताल के सभी विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं चकाचक नजर आईं। एनक्यूएस टीम में शामिल भिण्ड से आए डॉ राजवीर कुशवाह और मुरैना से आए डॉ प्रमोद मिश्रा ने दो भागों में बंटकर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक, ओपीडी,



इमरजेंसी, जांच कक्ष, दवा वितरण कक्ष, जनरल वार्ड, मेटरनिटी वार्ड, सोनोग्राफी जांच कक्ष, एसएमसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड, जनरल वार्ड सहित पूरे जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सभी 19 विभागों की व्यवस्थाएं देखीं। इस दौरान टीम ने उपस्थित कर्मचारियों से

व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी पूछे। टीम को निरीक्षण के दौरान अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ ड्रेस कोड में नजर आए। टीम के साथ आरएमओ डॉ गजेन्द्र धाकड़ और डॉ प्रदीप शर्मा पूरे समय साथ रहे। यह टीम दो दिवसीय दौर पर जिला अस्पताल में आई है जो

मंगलवार को भी जिला अस्पताल में डाटा सम्बंधित जानकारी एकत्रित करेगी, जिसके बाद पूरा प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को प्रेषित करेगी।

**यूनियफार्म में दिखे स्टॉफ :** एनक्यूएस के दो सदस्यीय दल ने रणनीति के तहत दो टीमों में अस्पताल का भ्रमण किया जिसमें पहली टीम डॉ राजवीर कुशवाह की और दूसरी टीम में डॉ प्रदीप मिश्रा शामिल रहे जिनके साथ आरएमओ डॉ गजेन्द्र धाकड़ एवं डॉ प्रदीप शर्मा साथ रहे। इस दौरान टीम ने मेडिकल वार्ड एवं ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया। इस दौरान टीम के सामने अस्पताल का स्टॉफ वेल्फेयर नजर आया और यूनियफार्म में जिला अस्पताल



प्राइवेट अस्पताल के तौर पर दिखाई दिया। इस दौरान लोग कहते नजर आए कि अगर हर दिन इस तरह व्यवस्थाएं रहे तो जिला अस्पताल टॉप रैंकिंग में आएगा।

**टीम ने स्टॉफ से पूछा क्या ड्यूटी है आपकी :** टीम के सदस्य जिला अस्पताल के विभिन्न इकाइयों में पहुंचे जहां उन्होंने एक्सरे रूम, ब्लड बैंक, आरसीटी, टीबी

वार्ड में पहुंचकर स्टॉफ से पूछा आपकी ड्यूटी क्या है, मरीजों को कैसे हैंडल करते हैं, इस दौरान कुछ कर्मचारी सकपका गये और टीम को जवाब देने में असहज महसूस करने लगे, तो वहीं कुछ कर्मचारियों ने जवाब भी दिया लेकिन टीम ने क्रॉस चेक कर उन्हें क्वॉलिटी और स्टैंडर्ड मॉटेन करने की सलाह दे डाली।

## ड्रीफ न्यूज

छात्रा ने भेंट की "डार्क स्कैच पेंटिंग"



श्यापुर। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को आज 11वीं बायलॉजी विषय की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सुशीला प्रार्थना बंसल द्वारा डार्क स्कैच पेंटिंग भेंट की गई। साई बाबा कॉलोनी निवासी श्यापुर प्रार्थना बंसल एक्सलेंस विद्यालय श्यापुर की छात्रा हैं। उन्होंने कलेक्टर श्री कन्याल को उनकी तस्वीर का पोर्ट्रेट भेंट किया। कलेक्टर श्री कन्याल ने छात्रा की इस प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें पेंटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।

**बाइक ना देने की बात को लेकर मारपीट, केस दर्ज**

श्यापुर। जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इकलोद में दो लोगों ने एक युवक के साथ रविवार की रात्रि 7 बजे मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी मोनु पुत्र कलुआ रावत उम्र 21 साल नि. इकलोद ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रविवार की रात्रि 7 बजे उसके घर के सामने आरोपीगण विकास पुत्र वीरेंद्र जादौन और सूरज पुत्र छोटईया जादौन ने बाइक ना देने की बात को लेकर गाली गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को शाम 6 बजे दी है।

**गंदा पानी निकालने की बात को लेकर मारपीट, केस दर्ज**

श्यापुर। जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहरावदा में रविवार की शाम 6 बजे एक महिला के पति के साथ एक युवक ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को शाम 6 बजे दी है।

## नवनिर्वाचित विधायक का कराहल में निकला विजय जुलूस, हजारों की संख्या में आई भीड़

मतदाताओं का जताया आभार, स्थान पर हुआ जबरदस्त स्वागत

सत्ता सुधार ■ श्यापुर

जिले की विजयपुर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा का विजय जुलूस सोमवार को दोपहर 2 बजे कराहल ब्लॉक में धूमधाम के साथ निकाला गया, इस मौके पर हजारों की संख्या में कराहल क्षेत्र के लोग जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक मल्होत्रा ने मतदाताओं का आभार जताया और जनसमूह को सम्बोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर भाजपा के गुंडे, बदमाशों ने आदिवासी समाज या किसी भी समाज के लोगों पर आंख उठाने की कोशिश की तो उसका हम लोग हाथ तोड़ देंगे। यह जुलूस कराहल ब्लॉक के विभिन्न इलाकों से होकर निकला जहां स्थान पर श्री मल्होत्रा का जोरदार स्वागत किया गया।

हालही में सम्पन्न विधानसभा विजयपुर उपचुनाव में विजयी हुए मुकेश मल्होत्रा का स्वागत लगातार जारी है, इसी क्रम में कराहल ब्लॉक में सोमवार को विशाल जुलूस निकाला गया जो मॉडल स्कूल गुरुद्वारा के सामने से शुरू हुआ जो पनवाड़ा तिराहा, हॉयर सेंकेडरी स्कूल, पालीवाल चैक से होते हुए करियादेह तिराहा पर पहुंचा, यहां उन्होंने जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह जीत मुकेश की जीत नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता की



जीत है, उनके विश्वास की और इमानदारी की जीत है, जिसने बता दिया कि क्षेत्र की जनता बिकने वाली नहीं है, स्वाभिमान के खातिर वे बेइमानी को सबक सिखाना जानती है, मुझ जैसे युवा को जनता ने इनाम प्यार और विश्वास जताया है जिसका मैं सिरमथा पर लेकर पूरे सम्पन्न भाव से जनता के हित में काम करूंगा और हमारे भाईयों पर किसी ने हाथ उठाने की

कोशिश की तो उसका हाथ तोड़ देंगे। इस मौके पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल, कैलाश कुशवाह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल चैहान, लोस प्रत्याशी नीटू सिकरवार, पूर्व नपाध्यक्ष दीलतराम गुप्ता, मका अध्यक्ष लक्ष्मी शिवहरे, शिवराम शिवहरे, संजीव कुशवाह, मो. चीनी कुंसी, सत्यप्रकाश शर्मा, दीपक त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं

क्षेत्र की जनता मौजूद रही।

**गुरुद्वारे पर हुआ जोरदार स्वागत**

कराहल में नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा का विजय जुलूस कराहल गुरुद्वारे से शुरू हुआ, जहां सबसे पहले सिख समुदाय ने श्री मल्होत्रा का जबरदस्त स्वागत किया गया, इस मौके पर गुरुद्वारे

10 हजार से ज्यादा लोग हुए जुलूस में शामिल

कराहल में नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा के जुलूस में अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली, कराहल जनपद की 50 पंचायतों के 150 गांव से करीब 10 हजार से ज्यादा लोग इस जुलूस में शामिल हुए और पारम्परिक रूप में पहनावे के साथ लोकनृत्य करते हुए खुशियां मनाई गईं। इस विजय जुलूस को देखकर कई लोगों ने मुकेश मल्होत्रा के कार्यों की सराहना करते हुए उनके जीतने पर कराहल में मिठाइयां बांटी गईं।

जीत के मसीह के रूप में नीटू का भी हुआ स्वागत : विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की विजय के अहम किरदार के रूप में देखे जा रहे लोस प्रत्याशी नीटू सिकरवार का भी जुलूस में जबरदस्त स्वागत सकार आदिवासी युवाओं ने किया, जिन्होंने मुकेश के साथ नीटू को भी फूल मालाओं से लाद दिया और नीटू सिकरवार जिवाबद के जमकर नारे लगाये गये। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने नीटू सिकरवार के चुनाव में किये गये कार्यों की सराहना करते हुए हमेशा साथ रहने का विश्वास दिलाया।

पर फूल माला पहनकर स्वागत करते हुए सिख समुदाय ने अपनी समस्याओं से नवनिर्वाचित विधायक को अवगत कराया और विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के विकास में सिख समुदाय उनके साथ है। इस मौके पर श्री मल्होत्रा ने सिख समुदाय का आभार जताया। इस मौके पर नीटू सिकरवार का भी जमकर स्वागत किया गया।

## वेतन सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर पुजारियों ने किया प्रदर्शन



जिला कलेक्टर पर सौंपा ज्ञापन

सत्ता सुधार ■ श्यापुर

जिला कलेक्टर पर सोमवार को दोपहर 2 बजे जिला देवस्थान पुजारियान समिति द्वारा वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम डिट्टी कलेक्टर वायएस तोमर को सौंपा है।

ज्ञापन सौंपते हुए समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश वैष्णव ने बताया कि सभी पुजारियों को वित्त 02 वर्ष से विभिन्न समस्याओं को लेकर चक्कर काट रहे हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पुजारी वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं लेकिन कई पुजारियों की 8वीं की मार्कशीट खो गई है, या मिल नहीं रही है, ऐसे में पुजारी नियुक्ति में बाधा सामने आ रही है, इसलिए 8वीं की मार्कशीट की अनिवार्यता समाप्त की जाये, ग्राम पंचायतों के मंदिरों में सन 2018 तक के पुजारियों की ग्राम

पंचायत से नियुक्ति होती थी, कई वर्षों से माफी भी लेते आ रहे हैं, लेकिन अब पंचायतों की नियुक्ति मान्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए ग्राम पंचायतों की नियुक्ति को भी मान्य किया जाये, जिन्हें 18 माह से वेतन नहीं मिलता है, उन्हें वेतन दिया जाये, एसडीएम कार्यालय में पुजारी नियुक्ति/ नामांतरण की कई फाइले लम्बित हैं, जिनका त्वरित निराकरण कियसा जाये, मंदिरों की भूमि को कब्जा मुक्त किया जाये, पुराने एवं प्राचीन मंदिरों के पुजारी विधिवत पूजा कर रहे हैं, उन्हें कोई साधन नहीं मिलते ऐसे मंदिरों का सर्वे कराकर शासकीय घोषित किया जाये। इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र वाले पुजारियों का वेतन लम्बित है, जिसे भी जल्द जारी किया जाये। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उक्त मांगों का निराकरण जल्द किया जाये अन्यथा आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में देवेन्द्र शर्मा, विनोद गौतम, श्याम गौड़, धर्मेन्द्र शर्मा सहित कई मंदिरों के पुजारी मौजूद रहे।

## अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

श्यापुर। जिले के श्यामपुर-गौरस रोड सिरोनी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने रविवार की रात्रि 3 बजे करीब एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें तीन युवकों की मौत पर ही मौत हो गई। मामले में बरगवा था ना पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घटना श्यामपुर गौरस हाईवे पर सिरोनी गांव के पास हुई जहां मानपुर थाना क्षेत्र के डबली का सहराना गांव निवासी 26 वर्षीय दीपक आदिवासी अपने पिता धनराज आदिवासी को देखने सिरोनी जा रहे थे। धनराज सिरोनी वन रेंज में डिप्टी रेंजर के पद पर कार्यरत हैं और रविवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। दीपक अपने दोस्तों बबलू आदिवासी (27) और गौतम आदिवासी (26) के साथ बाइक पर सवार होकर सिरोनी जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौत पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। बरगवा था ना पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को जिला अस्पताल भेजा, जहां सोमवार सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी है।

**इनका कहना है**  
अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन युवकों की मौत हो गई है। मामले में जांच की जा रही है और आरोपी वाहन की तलाश की जा रही है।

**प्रदीप शर्मा, थाना प्रभारी बरगवा**  
**मकान बनाने की बात को लेकर महिला से मारपीट**

श्यापुर। जिले के बड़ौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हिरनीखेडा में तीन लोगों ने मिलकर एक महिला के साथ रविवार की रात्रि 7 बजे मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

## पाराली जलाने के मामले में जुर्माने के खिलाफ कलेक्टर पर किसानों का प्रदर्शन



ज्ञापन सौंपकर जुर्माना की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग

सत्ता सुधार ■ श्यापुर

जिला कलेक्टर पर सोमवार को दोपहर 2 बजे किसान नेता राधेश्याम मीणा मंडला एवं अन्य किसानों पर पाराली जलाने के झूठे प्रकरण में जुर्माना की कार्रवाई को निरस्त करवाने के लिए कलेक्टर का घेराव करके प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम डिट्टी कलेक्टर वायएस तोमर को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में बताया गया कि किसान नेता राधेश्याम मीणा मंडला एवं अन्य किसानों पर एसडीएम, श्यापुर मनोज गडवाल के द्वारा धान की पाराली जलाने के आरोप में पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है जो की अवैध है क्योंकि राधेश्याम मीणा मंडला के द्वारा धान की पाराली नहीं जलाई गई है, राधेश्याम मीणा मंडला निरंतर किसानों के विषयों पर सक्रिय रहकर किसानों के हित में संघर्षरत हैं इसलिए प्रशासन ने जानबूझकर चिन्हित करके किसान नेता राधेश्याम मीणा मंडला पर जुर्माना की गलत कार्रवाई की है। पाराली जलाने के अवैध

प्रकरण से उनकी मानहानि हुई है इससे उनको मानसिक रूप से कष्ट पहुंचा है इसलिए किसान नेता राधेश्याम मीणा मंडला एवं अन्य किसानों पर की गई जुर्माना की कार्रवाई निरस्त किया जाए। धान की पाराली के निस्तारण के लिए शासन को व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे किसानों के द्वारा पाराली जलाने की जीत नहीं आए श्यापुर जिले में मुख्यप्रदेश के अन्त्या जिलों में किसानों पर पाराली जलाने के आरोप में की जा रही कार्रवाई को रोकने जाने की मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव से की गई है। पाराली जलाने के नाम पर बनाए जा रहे प्रकरण बनाने की कार्रवाई नहीं रोकने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर धर्मेन्द्र चंद्रपुरा, रामभरत रामगांवड़ी, विनोद मीणा अडवाड़, जसवंत बछैरी, सरपंच धारसिंह मीणा, सरपंच धर्मराज मीणा, राधेश्वर आसीदा, कैलाश आसीदा, ओपी मीणा धानोद, नाथूलाल सोई, डेनी गोहेड़, महेश ललितपुरा, बालमुकुंद धनखेड़ा, देवकी डोटी, महेश माताजी खेडली, रोशन हिरनीखेड़ा, लोकेन्द्र आदि किसान उपस्थित रहे।

## श्यापुर के कराते कोच ने दिल्ली में जीता कांस्य पदक

श्यापुर। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 19 नवंबर को विश्व कराते महासंघ द्वारा आयोजित यूथ लीग कराते चैंपियनशिप फेडरेशन कप में जिले के रघुनाथपुर गांव के निवासी उदय सिंह राजावत ने कांस्य पदक जीतकर अपने गांव सहित जिले का नाम रोशन कर दिया। कांस्य पदक विजेता उदय सिंह राजावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उनके द्वारा असम के प्रतिद्वंद्वी को हराकर कांस्य पदक जीता। राजावत श्यापुर में छात्र-छात्राओं को कराते की ट्रेनिंग देते हैं।



## बैठक निर्माण विभागों एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

# भू-अर्जन मामलो का निपटारा कर जल्द पूर्ण करें प्रक्रिया : कलेक्टर

सत्ता सुधार ■ श्यापुर

कलेक्टर उदय कुमार को दोपहर 12 बजे कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में भू-अर्जन मामलो की समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें कलेक्टर ने निर्देश दिये कि भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्रता के साथ की जाये तथा प्रक्रिया पूर्ण कर अर्वाइ पारित किये जायें, जिससे सभी प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण हों। बैठक में डीएफओ सामान्य सीएस चैहान, कुनों आर थिरुकुरान, अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी, अति.पुलिस अधीक्षक सतेन्द्र सिंह तोमर, एसडीएम मनोज गडवाल सहित रेलवे, एनएचआई,



जल संसाधन श्यापुर एवं सबलगाड, लोक निर्माण विभाग, अपर ककैटो से जुड़े अधिकारी आदि उपस्थित थे। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने

रेलवे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वीरपुर तालाब से सिंचित रकबे के किसानों के लिए ट्रेक के दूसरी ओर पानी निकास की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की

जायें। बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 250 हेक्टर सिंचित भूमि के किसानों के खेत ट्रेक के दूसरी ओर स्थित है, इस संबंध में उनके द्वारा पत्र लिखकर सिंचाई के लिए पानी की निकासी हेतु स्ट्रैक्टर बनाये जाने का अनुरोध किया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने मूझरी बांध परियोजना के संबंध में केन्द्रीय वन विभाग की ओर से मांगी गई स्ट्रेज वन की जानकारी को तत्काल भेजने के निर्देश कार्यपालन यंत्री आरएन शर्मा को दिये। जल संसाधन विभाग सबलगाड के अधिकारियों ने बताया कि चेटीखेडा बांध के लिए 1369 हेक्टर

भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से पिपरवास में 770 हेक्टर भूमि आरक्षित की गई है। 69 हेक्टर भूमि पूर्व में फॉरेस्ट को प्रदाय की जा चुकी है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा अपर ककैटो परियोजना में पूरक अर्वाइ के मामलों का निराकरण करने के निर्देश भी दिये। 5 ग्रामों में साढे 29 हेक्टर भूमि का भू-अर्जन की प्रक्रिया की जाना है। अटार-वजियपुर-मोहन वायपास निर्माण अंतर्गत विजयपुर एवं लाडपुरा में भू-अर्जन की कार्यवाही के लिए भी निर्देश प्रदान किये गये। लाडपुरा में 2.568 तथा विजयपुर में 3.703 हेक्टर भूमि का भू-अर्जन किया जाना है।

## ब्रीफ न्यूज

जीवन में धैर्य और सहनशक्ति देता है विश्वास: धनश्याम शास्त्री

ग्वालियर। बड़ोदपुर स्थित 24 वीया गालव नगर में आयोजित संगीतमय भागवत कथा के छठवें दिन सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पं. धनश्याम शास्त्री ने बताया कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका असली धर्म होता है। अच्छे कर्म से व्यक्ति न केवल आत्मिक शांति पाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य ही हमारी पहचान और वास्तविक संपत्ति होते हैं। महाराज श्री ने बताया कि आज का मानव आधुनिक जीवनशैली और भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भागते हुए भगवान की पूजा और आध्यात्मिकता से दूर होता जा रहा है। लोग आज पूजा-पाठ को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मानव को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास जीवन में धैर्य और सहनशक्ति देता है। भगवान में आस्था रखने से कठिनाइयों के समय में भी हिम्मत और साहस मिलता है। जब व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, तो वह जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से स्वीकार कर पाता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए न केवल कर्म महत्वपूर्ण है बल्कि ईश्वर में आस्था भी जीवन को संतुलित और सार्थक बनाती है। इस अवसर पर कथा परीक्षित वर्ष मनीष श्रीवास्तव ने आरती की।

## कलेक्टर एवं निगम आयुक्त ने कचरा प्रबंधन एवं वायु प्रदूषण रोकने से संबंधित कार्यों का लिया जायजा

## खुले में कचरा जलाने की प्रवृत्ति को सख्ती से रोके: कलेक्टर चौहान

मैरिज गार्डन के सामने कचरा जलता मिलने पर जताई नाराजगी, कार्रवाई के लिए निर्देश

ग्वालियर। खुले में कचरा जलाने की प्रवृत्ति को सख्ती से रोके। ऐसे मैरिज गार्डन व संस्थान जो बड़े पैमाने पर कचरा जलाकर प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने नगर निगम के अधिकारियों को दिए। चौहान सोमवार को नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव तथा अन्य अधिकारियों के साथ शहर के कचरा प्रबंधन और शहर में वायु प्रदूषण रोकने की दिशा में किए गए कार्यों के निरीक्षण के लिये निकली थीं। उन्होंने पिंटो पार्क मुख्य मार्ग पर स्थित एक मैरिज गार्डन के बाहर वहाँ के कर्मचारियों द्वारा जलाया जा रहा कचरा देखकर नाराजगी जताई और मैरिज गार्डन के खिलाफ कार्रवाई करने के



निर्देश दिए। कलेक्टर चौहान ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय व दीनदयाल नगर में हवा की गुणवत्ता मापने के लिये स्थापित सीएएक्यूएमएस (कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम) का जायजा लिया। उन्होंने दीनदयालनगर एक्ज्यूआई सेंटर के आसपास की साफ-सफाई को और बेहतर करने और सेंटर की

छत पर टेरिस गार्डन स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सेंटर के समीप स्थित पुलिस चौकी परिसर में भी सुव्यवस्थित ढंग से वृक्षारोपण कराएँ। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त विजय राज, मुनीश सिंह सिकरवार, उपायुक्त अमर सत्य गुप्ता, अधीक्षक यंत्री जेपी पारा, सिटी प्लानर पवन सिंघल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी सहित अन्य संबंधित

अधिकारी उपस्थित रहे। केदारपुर कचरा प्रबंधन सेंटर का भी लिया जायजा

शहर ध्रमण के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान एवं नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने केदारपुर स्थित कचरा निस्तारण केन्द्र का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर चौहान ने वैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे कचरा

निस्तारण की प्रक्रिया को बारीकी से समझा। साथ ही इस केन्द्र पर वर्षों से जमा हो रहे लिगसी वेस्ट (कचरा) को समाप्त करने की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कचरा निष्पादन के लिये टीम बढ़ाने के निर्देश भी दिए। अगले मार्च माह तक 6 मैट्रिक टन कचरे का निष्पादन यहां पर पूर्ण हो जायेगा। केदारपुर कचरा प्रबंधन केन्द्र पर वर्तमान में 6 मशीनों द्वारा वर्षों से जमा कचरे को खोदकर वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जा रहा है। इस कचरे से प्लास्टिक को अलग कर सीमेंट फैक्ट्रियों के लिये भेजा जा रहा है। साथ ही यहाँ की ऑर्गेनिक मिट्टी को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिये किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही भराव के लिये भी भेजी जा रही है। कलेक्टर चौहान ने निर्देश दिए कि यहाँ पर जमा कचरे के पहाड़ समाप्त करने के लिये मशीनों व टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

## जेयू का सांस्कृतिक दल सागर रवाना

इंटर यूनिवर्सिटी सेंट्रल जोन यूथ फेस्टीवल आज से



सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 38वें इंटर यूनिवर्सिटी सेंट्रल जोन यूथ फेस्टीवल का आगाज मंगलवार को होने जा रहा है। दो दिन तक चलते वाला यह युवा उत्सव डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में आयोजित किया जाएगा। इस जाने माने आयोजन में मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के लगभग 130 विश्वविद्यालयों को आमंत्रित किया गया है जिनके 1500 विद्यार्थी, 28 विधाओं में हिस्सा लेकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक दल सोमवार को दोपहर 11 बजे मध्य क्षेत्रीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए सागर रवाना हुआ। कार्यक्रम में जेयू की 57 सदस्यीय टीम भाग लेगी। कार्यक्रम 26 से 30 नवंबर तक डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की संगठन व्यवस्था में आयोजित होगा। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के दल को जेयू के छात्र अधिष्ठाता कल्याण प्रो. जेएन गौतम ने हरीझंडी दिखाकर रवाना किया।

वार्ड 24 में बनाई बैकलाइन पेंटिंग

ग्वालियर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी को लेकर शहर भर में विभिन्न मानकों के आधार पर लगातार कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत बैक लाइनों को साफ कर पेंटिंग बनाई जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का सर्वे देशभर में प्रारंभ होने जा रहा है। निगम आयुक्त अमन वैष्णव के निर्देशन में ग्वालियर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। इसी के तहत बैकलेन की साफ सफाई कर आकर्षित

पेंटिंग बनाई जा रही है। जिसके तहत वार्ड 24 में सफाई करवाकर बैकलाइन पेंटिंग बनाई गई है। उक्त कार्य क्षेत्र क्रमांक 11 के क्षेत्राधिकारी अनिल श्रीवास्तव द्वारा करवाया गया। वहाँ उक्त पेंटिंग कार्य का निरीक्षण सहायक यंत्री मनीष यादव द्वारा किया गया।

डॉ. गुप्त के नाम पर शोधपीठ स्थापित की जाए

ग्वालियर। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में गहोई वैश्य समाज ने सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि जीवाजी विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालय में राष्ट्रकवि डॉ. मैथिलीशरण गुप्त के नाम से शोध पीठ स्थापित की जाए। मंत्री ने शोध ही शोधपीठ स्थापित करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रामप्रकाश सोनी पूर्व अध्यक्ष गहोई वैश्य समाज ग्रेटर, प्रदीप पहरीया पूर्व महामंत्री मंत्री, राजू सेठ अध्यक्ष जीवाजी प्रत्यक्ष सहित अन्य गणमान्य बंधु उपस्थित रहे।

भाजपा प्रत्याशी अंजली पलैया ने नामांकन पत्र दाखिल किया



ग्वालियर। वार्ड क्रमांक 39 के उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी अंजली पलैया ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर रुचिका चौहान के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ता छेली बुआ पुल पर एकत्रित हुए। यहां भाजपा की पार्षद पद की प्रत्याशी श्रीमती अंजली राजू पलैया ने मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां से सभी विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, भाजपा संगठन चुनाव प्रभारी एवं पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी, सभापति मनोज तोमर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी जवाहर प्राजापति, जिला महामंत्री विनोद शर्मा, जिला महामंत्री राजू पलैया, जीडीए के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह राजपूत, एडवोकेट राजेंद्र जैन, धर्मद राणा, सुधर सिंह पलैया, विकास साहू, मंडल अध्यक्ष महेंद्र श्रीवास्तव, अनिल सांखला, पूर्व सभापति राकेश माहौर, कौशल बाजपेई, सत्यपाल सिंह जादौन, डालचंद वर्मा, महेंद्र बंसल, रमा जादौन, अंकित राजपूत, अंकित बंसल, सतीश साहू, अशोक साहू, कुलदीप निधार, रामदास मिश्रा सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल थे।

नामदेव जयंती 30 को

ग्वालियर। संत शिरमोणि नामदेव महाराज की 754वीं जयंती महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर को मानस भवन, गांधी पार्क, शिवपुरी में मनाया जाएगा। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम 10:00 बजे से मानस भवन से प्रारंभ होगा। शाम 4 बजे सम्मान समारोह के पश्चात भोजन प्रसादी होगी। यह जानकारी नामदेव समाज सेवा संघ महाआरती अभियान के शिवपुरी अध्यक्ष रविंद्र कुमार नामदेव एवं महिला अध्यक्ष गीता सूर्यवंशी ने दी।

## कारगिल युद्ध शौर्य स्मारक पर की सफाई

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

कारगिल शहीद सरमन सिंह खेल एवं शिक्षा प्रसार संस्था एवं 15 एमपी बटालियन एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में जेल रोड स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर सफाई की गई। कार्यक्रम के दौरान 15 एमपी बटालियन एनसीसी के मेजर सुनील पाठक ने स्मारक के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं से स्वच्छता और देशभक्ति के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुबेदार उपेंद्र सिंह तोमर, अंशुमान सिंह, सांवली शर्मा, सीनियर अंडर ऑफिसर विकास सेन, अंडर ऑफिसर वर्षा कुशवाहा, एवं शाक्य सहित 15 एमपी बटालियन के एनसीसी कैडेट ने अपना श्रमदान किया।



## दिव्य धाम आश्रम में हुआ मासिक आध्यात्मिक कार्यक्रम

## ध्यान ही सकारात्मक परिवर्तन का आधार

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

दिव्य गुरु आशुतोष महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में ब्रह्मज्ञानी साधकों को भक्ति पथ पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने हेतु दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान द्वारा दिल्ली स्थित दिव्य धाम आश्रम में आध्यात्मिक मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मज्ञानी वेदपाठियों ने वैदिक मंत्रों उच्चारण सहित सभा का शुभारंभ किया। संस्थान के प्रशिक्षित संगीतकार शिष्यों ने विभिन्न सुमधुर भक्ति रचनाओं के गायन द्वारा वातावरण में भक्ति की आभा को प्रसारित किया। संस्थान के प्रचारकों द्वारा आध्यात्मिक प्रवचनों में साधकों में उत्साह का संचार किया। गुरुदेव के प्रचारक शिष्यों ने

आध्यात्म एवं संसार दोनों ही क्षेत्रों में ध्यान द्वारा समग्र विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मानव में सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति उसके भीतर ही निहित है। इस अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने हेतु आशुतोष महाराज ने शिष्यों को ब्रह्मज्ञान की समातन विधि प्रदान की है। ध्यान के निरंतर अभ्यास द्वारा शिष्य अपने विकारों को नियंत्रित कर सकता है। साधकों को अपनी कमियों व विकारों के प्रति सचेत रहते हुए उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यही विकार उसकी शांति व उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं। दिव्य गुरु के मार्ग व आदर्शों पर दृढ़ता से बढ़ते हुए शिष्य अपने भीतर आध्यात्मिक

ओज को प्राप्त करता है। जिस प्रकार मानव अपने शरीर के लिए ऊर्जा हेतु भोजन को नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा के विकास हेतु नियमित ध्यान की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर शिष्य को सदैव अपनी कमियों को जान, उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने हेतु निरंतर ध्यान व गुरु के प्रति समर्पण और विश्वास ही साधक का संबल है। सत्यंग विचारों में यह स्पष्ट किया गया कि शिष्य नियमित ध्यान द्वारा अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन को प्राप्त करें। अंत में प्रसाद वितरण द्वारा सभा को विराम दिया गया।

## ओपन शतरंज टूर्नामेंट का समापन

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

गत दिनों फोर्थ राष्ट्रीय आर.के. मिश्रा मेमोरियल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का शानदार आयोजन किया गया। बेनशाला द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में देशभर के प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह टूर्नामेंट अपने रोमांचक मुकाबलों और खिलाड़ियों के अद्भुत कौशल प्रदर्शन के लिए यादगार रहा। पुरस्कार वितरण समारोह में टूर्नामेंट के निदेशक और बेनशाला के सह संस्थापक इंजीनियर मयंक मिश्रा ने देवांगी मिश्रा (आयोजन निदेशक) के साथ मिलकर विजेताओं को



सम्मानित किया। इस अवसर पर मिसेज गीता सिकारवार (आर्मी पब्लिक स्कूल), मिसेज मंजू मिश्रा (महिला एवं बाल विकास),



आलोक बाजपेई (केआरजी कॉलेज) और आयोजक गजेन्द्र स्वरूप व राजीव बाजपेई समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। टूर्नामेंट के मुख्य निर्णायक राजेश द्विवेदी ने बताया कि इस बार के मुकाबलों में कई रोचक पल देखने

को मिले, खासकर ओडिशा के आशीर्वाद स्वैन और ग्वालियर के आयुष मिश्रा के बीच। वहीं, जूनियर निर्णायक आकाश दीक्षित ने कहा कि यह चौथी बार है, जब आर.के. मिश्रा शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया।

## शहर में घूमी बौद्ध धम्म संदेश रथयात्रा, हुआ स्वागत

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में बौद्ध धम्म का संदेश देने के लिए बौद्ध धम्म संदेश रथयात्रा निकाली जा रही है। यह रथयात्रा गत दिवस बेहद से ग्वालियर की सीमा में प्रवेश हुई। बौद्ध धम्म संदेश रथयात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया। धम्म संदेश रथयात्रा का शुभारंभ 17 नवंबर को मऊ स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जन्मभूमि स्मारक से हुआ था। द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष पून लाल, जिला महासचिव ओपी कैन, जिला कोषाध्यक्ष मान सिंह बौद्ध के नेतृत्व में सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने बौद्ध धम्म संदेश रथयात्रा की



अगवानी की। यह रथ यात्रा बेहद से दमियापुरा, हरिनापुर, उटीला, मोहनपुर होते हुए हुगवली पहुंची। धम्म संदेश रथ यात्रा शाम को डॉ भीमराव अंबेडकर स्मारक हवाई पट्टी पहुंची। यहां डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित शोषित समाज विकास सेवा समिति द्वारा एवं क्षेत्र के सभी बुद्ध उपासकों ने रथयात्रा का स्वागत किया और बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया। समिति के अध्यक्ष

हाकिम सिंह, बौद्ध उपासक कोमल सिंह, महादेव सिंह, मनीष रिठौरिया, डॉ राम सुमन, उदयभान सिंह, अमिताभ, मलखान सिंह, रामेश्वर केन, नारायण सिंह, राहुल, आदि कई बुद्ध उपासक मौजूद थे। वहीं सोमवार को शहर के सभी बुद्ध विहारों में ध्रमण करते हुए बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया और दोपहर के बाद नयागामा पविहार के लिए रवाना हुईं।

सुधांशु त्रिवेदी का प्रबोधन 30 को

ग्वालियर। मध्यभारत शिक्षा समिति के तत्वावधान में इस वर्ष भी भारतीय शिक्षा दर्शन के अनुरूप उत्प्रेरक वातावरण एवं व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रबोधन कार्यक्रम 30 नवंबर को सायं 4:30 बजे जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित किया जाएगा। मध्य भारत शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रो. राजेंद्र बादिल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी होंगे।

## सत्ता न्यूज

कला वीथिका में हुआ तीन दिवसीय कल्पवृक्ष आर्ट गैलरी का कार्यशाला का समापन

## कलाप्रेमियों को रिझा गई चित्रों की मोहकता

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

कलानगरी ग्वालियर एवं पुणे महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने तानसेन कलावीथिका एवं जलबिहार में दो दिन तक जो कलाकर्म किया, उसे तीसरे दिन सोमवार को समापन दिवस डिस्प्ले किया गया। जलबिहार के सुंदर दृश्य चित्रण की पूर्णता लिए कृतियां हो अथवा कलाकारों की कल्पना की उड़ान से तैयार की गई विभिन्न चित्र कृतियां हो अथवा देवी-देवताओं के स्वरूप का ध्यान कर किया गया उनका अंकन हो। कलाप्रेमियों ने जब चित्रों की वृहद श्रृंखला को देखा तो कोई भी सराहे बगैर नहीं रह सका। अवसर था कल्पवृक्ष आर्ट गैलरी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय



कार्यशाला का। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. डीएन गोस्वामी ने घोषणा की कि जब भी कल्पवृक्ष इस तरह का प्रयास करेगी, वह अपनी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार देगी। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार केशव पांडे ने कहा कि

कल्पवृक्ष आर्ट गैलरी ने कलाकारों को प्रोत्साहित करने की जो पहल की है, वो सराहनीय है। कोशिश हो कि यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और निश्चित अंतराल के बाद ऐसा आयोजन होते रहें, ताकि कलाकारों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलता रहे।

इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक एवं कल्पवृक्ष आर्ट गैलरी के प्रमोद कुमार जोशी ने कहा कि इस आयोजन में हमें जिस प्रकार कलाप्रेमियों एवं कलाकारों का सहयोग मिला है, उससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ है, जिससे आगामी समय में हम दोगुने उत्साह के साथ काम करेंगे। इस मौके पर हरियोग शर्मा, भारतीय भदौरिया, सौम्या, भास्कर, भूषण नाचने, वैष्णवी गर्ग, एकता शर्मा, रुचि जादौन समेत ग्वालियर और पुणे से आए सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीए पुनीत जोशी, सुरशील भदौरिया, सुभाष अरोरा, भूषण नारले इत्यादि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

## शिवपुरी और ऋषि गालव अकादमी ने जीते मैच

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

तानसेन क्रिकेट अकादमी द्वारा कराये जा रहे प्रथम इंटरप्राइज अंडर-13 ऑल इंडिया क्रिकेट लीग में सोमवार को दो मैच खेले गये। इस दौरान रोहित शर्मा क्रिकेट अकादमी शिवपुरी ने एससी अकादमी ग्वालियर को पराजित किया। वहीं ऋषि गालव अकादमी ने तपोभूमि अकादमी को हराया। दिन के पहले मुकाबले में शिवपुरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 25 ओवर में 243 रन का विशाल लक्ष्य रखा। लकी 75 रन, नैतिक रावत ने आक्रमक नाबाद 68 रन पारी खेली। एससी अकादमी की ओर से अंकित कुशवाह 3 विकेट, नवेद 2 विकेट, नकुल-हिरीश ने 1-1 विकेट लिया। मजबूत लक्ष्य का



पीछ करने उतरी एसजी अकादमी अकादमी की टीम मात्र 62 रन पर आल आउट हो गयी। दर्शन ने 40 रन बनाये। शिवपुरी की ओर से गेंदबाजी करते हुए अर्जुन यादव ने

हैट्रिक लेते हुए 5 विकेट लिए। अर्जुन यादव को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। दोपहर दूसरे मैच में तपोभूमि अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी

की। कसान सक्षम श्रीवास्तव ने आक्रमक बल्लेबाजी से शुरुआत की। सक्षम ने 46 रन की पारी खेली। शिवा कुशवाह 19 रन, तेज तोमर 22 रन, वंश खैनवार ने 8 रन का योगदान दिया। ऋषि गालव अकादमी की ओर से अभी शर्मा 4 विकेट, नकुल 2 विकेट, पुष्कर दिवंबर ने 1-1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऋषि गालव अकादमी के नकुल व्यास ने नाबाद 55 रन अर्पण लोधी ने 52 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई। नकुल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। पुरस्कार वितरण मध्य प्रदेश टीम के क्रिकेट आर्यन कुशवाह, समाजसेवी सिद्धार्थ ने किया।

## ब्रीफ न्यूज

**पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान को रिहा कराने दुनियाभर से मिल रहा समर्थन इस्लामाबाद।** पाकिस्तान के पूर्व पीएम और महान क्रिकेटर इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों का काफिला इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है। 24 नवंबर को इमरान की अपील पर प्रदर्शन शुरू हुआ। इमरान ने इस प्रोटेस्ट को फाइनल कॉल नाम दिया है। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने चार हजार से ज्यादा इमरान समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पांच सांसद भी हैं। इस बीच पाकिस्तान में चल रहे प्रदर्शन को दुनियाभर से समर्थन मिल रहा है।

**हिंद महासागर में दो नौकाओं के पलटने से 24 लोगों की मौत: सोमालिया सरकार**

**मोगादीशू।** हिंद महासागर में मेडागास्कर तट के पास दो नौकाओं के पलटने से 24 लोगों की मौत हो गई। सोमालिया सरकार ने इसकी जानकारी दी। सोमालिया के विदेश मंत्री अहमद मोआलिम फिकी ने कहा कि 46 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश यात्री सोमालिया के युवा थे। इथियोपिया में सोमालिया के राजदूत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नौकाओं के पलट जाने घटना की जांच करने लिए सोमवार को मेडागास्कर जाएगा।

**बंदूकधारियों ने बरसाई गोलियों, 6 की मौत, 5 घायल**

**सैन जुआन।** दक्षिण-पूर्वी मेक्सिको में बंदूकधारियों की गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो गई और कम से कम पांच घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी की यह घटना तटीय प्रांत ताबास्को में हुई, जो हाल में हिंसा से जूझ रहा है। लोक सुरक्षा सचिव उमर गार्सिया हाफुंच ने 'एक्स पर कहा कि गोलीबारी की घटना को सुलझाने में अधिकारियों लगे हुए हैं।

मनीला में लगी आग की एक झोला से ली गयी तस्वीर।



## अमेरिका के बाद अब अडाणी के साथ हुए समझौते की जांच करेगा बांग्लादेश

शेख हसीना ने पीएम रहते अडाणी ग्रुप के साथ किया था पावर एग्रीमेंट

एजेंसी ■ टाक

अमेरिका में रिश्त देने के आरोप में घिरे अडाणी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बांग्लादेश ने भी शेख हसीना के पीएम रहते अडाणी ग्रुप के साथ हुए पावर एग्रीमेंट की जांच के लिए एक एजेंसी गठित करने की सिफारिश की गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की गठित समिति ने इस एजेंसी के गठन की सिफारिश की है। साथ ही शेख हसीना के पीएम रहते हुए छह अन्य बड़े एनर्जी और पावर एग्रीमेंट की जांच की भी मांग की है। मीडिया रिपोर्ट में एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पावर, एनर्जी और खनिज संसाधन मंत्रालय की समीक्षा समिति ने 2009 से 2024 तक पावर प्रोजेक्शन एग्रीमेंट को लेकर किए गए समझौते की जांच के लिए एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश



की है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि समीक्षा समिति सात प्रमुख एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रही है। इसमें अडाणी (गोड्डा) बीआईएफपीसीएल 1234.4 मेगावाट कोल फायर्ड प्लांट भी शामिल है। छह अन्य समझौतों में से

एक चीनी कंपनी के साथ हुआ है, जिसने 1320 मेगावाट का कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाया है। बयान में यह भी कहा गया है कि समिति ने कई सबूत जुटाए हैं, जिनके आधार पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं के मुताबिक समझौतों को रद्द या फिर पुनर्विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा कई अन्य कॉन्ट्रैक्ट की जांच के लिए अलग से वक्त मांगा गया है। अडाणी ग्रुप का गोड्डा पावर प्लांट ग्रुप का पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट है। इसमें झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया था। इससे ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड

में भारत और बांग्लादेश की समर्पित टीमों को सलाम करता हूँ

गोड्डा पावर प्लांट शुरू होने के बाद गौतम अडाणी ने सोशल मीडिया पर शेख हसीना के साथ तस्वीरें शेयर की थीं। तब उन्होंने लिखा था कि 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल गोड्डा पावर प्लांट के फुल लोड शुरुआत और हैडओवर पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं भारत और बांग्लादेश की समर्पित टीमों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने कोविड का सामना करने के बाद भी साढ़े तीन साल के रिकॉर्ड समय में प्लांट को चालू कर दिया है।

(बीपीडीबी) को बिजली की सप्लाई की जा रही है। 2016 में इसे लेकर शेख हसीना सरकार के साथ करार किया गया था।

कई चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने इमरान ने बढ़ाई एक और मुसीबत



एजेंसी ■ इस्लामाबाद

पाकिस्तान में एक के बाद एक नई नई चुनौतियां आ रही हैं। पहले आर्थिक फिर शिया सुन्नी झगड़ा और अब पूर्ण पीएम इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में रविवार से पीटीआई का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अलग-अलग इलाकों से पीटीआई के हजारों समर्थकों ने कूच करना शुरू कर दिया है। इस प्रदर्शन के शुरू होने से पहले ही 48 घंटे के लिए पूरे इस्लामाबाद में अघोषित लॉकडाउन कर दिया है। और शायद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है, जिसकी राजधानी इस वक्त कटेनर लॉकड

है। पाकिस्तान सरकार ने इस प्रदर्शन को दबाने और इस्लामाबाद तक प्रदर्शनकारियों को ना पहुंचने देने के लिए जितने भी रास्ते हैं, सबको बड़े बड़े शिपिंग कटेनर रखकर बंद कर दिया है। कुल 35 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो बाकी प्रांत से इस्लामाबाद को जोड़ती हैं, जो बंद हैं। जिन शिपिंग कटेनरों से सड़कें ब्लॉक की गई हैं, ये कोई मुफ्त की नहीं हैं। इसके लिए भी करोड़ों खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर ये प्रदर्शन लंबे समय तक चला तो इन कटेनरों के लिए शहबाज सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कटेनर के किराए की बात करें तो यह करोड़ों में है।

**INVEST MADHYA PRADESH**  
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट  
फरवरी 2025, भोपाल



**MPDC**  
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

वैश्विक निवेश का उभरता परिवेश  
मध्यप्रदेश

डॉ. मोहन यादव  
मुख्यमंत्री  
द्वारा  
यू.के.



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश की निवेश संभावनाओं पर  
इंटरैक्टिव सेशन

26 नवम्बर, 2024 | अपराह्न 4:00 बजे से (IST)  
होटल सेंट जेम्स कोर्ट (ताज), लंदन



द फ्यूचर रेडी स्टेट, मध्यप्रदेश

फोकस सेक्टर

नवकरणीय ऊर्जा

ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स

खाद्य प्रसंस्करण

शिक्षा

सीधा प्रसारण

@Cmmadhyapradesh  
@jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh  
@jansamparkMP

JansamparkMP

#InvestMP

Website : invest.mp.gov.in



## ध्यान ही सकारात्मक परिवर्तन का आधार : दिव्य धाम आश्रम में मासिक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन

दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में ब्रह्मज्ञानी साधकों को भक्ति पथ पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने हेतु दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान द्वारा दिल्ली स्थित दिव्य धाम आश्रम में प्रेरणादायक आध्यात्मिक मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मज्ञानी वेदपाठियों ने वैदिक मंत्रों उच्चारण सहित सभा का शुभारंभ किया। संस्थान के प्रशिक्षित संगीतकार शिष्यों ने विभिन्न सुमधुर भक्ति रचनाओं के गायन द्वारा वातावरण में भक्ति की आभा को प्रसारित किया। संस्थान के प्रचारकों द्वारा आध्यात्मिक प्रवचनों ने साधकों में उत्साह का संचार किया।



गुरुदेव के प्रचारक शिष्यों ने अध्यात्म एवं संसार दोनों ही क्षेत्रों में ध्यान द्वारा समग्र विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मानव में सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति उसके भीतर ही निहित है। इस

अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने हेतु श्री आशुतोष महाराज जी ने शिष्यों को ब्रह्मज्ञान की सनातन विधि प्रदान की है। ध्यान के निरंतर अभ्यास द्वारा शिष्य अपने विकारों को नियंत्रित कर सकता है। साधक को अपनी कमियों व विकारों के प्रति सचेत रहते हुए उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह विकार उसकी शांति व उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं। दिव्य गुरु के मार्ग व आदर्शों पर दृढ़ता से बढ़ते हुए शिष्य अपने भीतर आध्यात्मिक ओज को प्राप्त करता है।

जिस प्रकार मानव अपने शरीर के लिए ऊर्जा हेतु भोजन को नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा के विकास हेतु नियमित ध्यान की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर शिष्य को सदैव अपनी कमियों को जान, उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने हेतु निरंतर ध्यान व गुरु के प्रति समर्पण और विश्वास ही साधक का संबल है। सत्संग विचारों में यह स्पष्ट किया गया कि शिष्य नियमित ध्यान द्वारा अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन को प्राप्त करें। अंत में प्रसाद वितरण द्वारा सभा को विराम दिया गया।

## विश्व में भारत की साख बढ़ाने की मोदी प्रतिबद्धता

नियामें भारत एवं भारतीय लोकतंत्र का गौरव एवं सम्मान दिनांक बढ़ता जा रहा है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विश्व नेता बनकर उभरे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका रुतबा लगातार बढ़ रहा है। विदेशी धरती से मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों को एक लम्बी शृंखला इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि वैश्विक स्तर पर सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हुई है और उनकी सोच, नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। यह भारत के लिये गर्व की बात है। इसी शृंखला में अपनी तीन देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका और गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में ब्राजील में जी 20 सम्मिट की बैठक के लिए पहुंचे थे और इसके बाद 3 कैरेबियन देशों की यात्रा पर है। कोरोना काल में मानवीय दृष्टि से मदद का हाथ बढ़ाने के लिए डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को 'डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर' और गुयाना ने 'ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से नवाजा।





भारत के लिये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा महानायक प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। वैसे तो दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है लेकिन इसी सप्ताह उनकी डोमिनिका, गुयाना और नाइजीरिया यात्रा के दौरान उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, वह हर भारतीय को अभिभूत एवं गौरवान्वित कर देने वाले हैं। ये सम्मान उनके व्यापक सोच, मानवीय दृष्टिकोण, कुशल राजनीतिक नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिम्ब हैं जिसने वैश्विक मंच पर भारत के उदय एवं उसकी साख को मजबूत किया है। ये सम्मान दुनिया भर के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कुशलता, परिपक्वता एवं दूरदर्शिता से देश का समग्र विकास करते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर किया, इससे पूरा देश तो आत्मविश्वास से भर ही उठ बल्कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर सकारात्मकता, उम्मीदें और भरोसा बढ़ा है। अब तक विदेशों में कुल 19 बार प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें महाशक्ति कहे जाने वाले देश रूस और

अमेरिका के अलावा मालदीव, फिलीपीन्स, इजिप्ट, बहरीन और युएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा बार विदेशी संसद को संबोधित करने का रिकॉर्ड भी मोदी के नाम ही है। मोदी आश्रयों की वर्णमाला से गूँथित ऐसा व्यक्तित्व हैं जिसने अपने हर कर्तमान से भारत का मस्तक ऊंचा किया है। अस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर चुके हैं। मोदी ने 14 बार विदेशी संसद में वहां के सांसदों को संबोधित किया। अमेरिका में मोदी ने दो बार संसद को संबोधित किया है। इसके साथ ही अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिजी, मॉरिशस, युगांडा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मालदीव की संसद को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, जबकि मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव ने 1-1 बार विदेशी संसदों में संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो सारे शासकीय प्रोटोकाल को तोड़ कर उस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने न केवल मोदी का स्वागत किया साथ ही एयरपोर्ट पर सबके सामने मोदी के पांव भी छूए। यह अपने आप में अभूतपूर्व है कि विश्व के इतिहास में आज तक कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के पांव सार्वजनिक रूप से नहीं छूए। भारत की जनता ने महानायक मोदी को एक नए भारत के शिल्पकार के रूप में देखा। मोदी की हर देश की यात्रा ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय बनी है। भारत चाहे अमेरिका यात्रा की हो, भारत रूपांतरित जो बाइडेन मोदी गले तो मिले ही साथ ही बाइडेन का यह कहना अपने आप में अद्भुत है कि 'आप तो अद्भुत लोकप्रिय हो। मुझे तो आपके आटोग्राफ लेने चाहिए।' अस्ट्रेलिया के सिडनी में जिस तरह से पूरा स्टैंडियम वहां बसे भारतीयों ने ठसाठस भर दिया और पूरा स्टैंडियम मोदी-मोदी के नारों से गुंजायमान हो उठा। उसे देखकर तो अस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीस भी हैरान रह गए। दुनिया के बड़े नेता जहां मोदी को सर आंखों पर बैठा रहे हैं, वहीं भारत में मोदी की लगातार बढ़ती साख एवं सम्मान से समूचा विश्व बाँधलाया हुआ है। मोदी का जितना विरोध किया जा रहा है, उतनी ही उनकी प्रतिष्ठा एवं जनसौकर्यता बढ़ती जा रही है। एक तरह से विरोध उनके लिये वरदान बन रहा है। इस युगनायक पर कीचड़ उछलने की जिस तरह की हकतें की गईं, वर्तमान में वे पराकाष्ठा तक पहुंच गयी हैं। पर इससे मोदी का वर्चस्व धूमिल होने वाला नहीं है। क्योंकि उनकी राजनीति एवं नीति विशुद्ध है और वैज्ञानिक आधार पुष्ट है। आज भारत देश की वैश्विक साख और गरिमा में जो वृद्धि हुई है उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। विश्व शांति की स्थापना में भारत का योगदान हो या प्रौद्योगिकी के विशाल क्षितिज में लंबी उड़ान, यह सब प्रधानमंत्री की विशाल दृष्टि से संभव हो रहा है। हम सब बदलाव की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह सौभाग्य से कम नहीं है। मोदी का संपूर्ण व्यक्तित्व एक पाठशाला बन गया है। उनके व्यक्तित्व के कई अनूठे आयाम हम देख चुके हैं, जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी और असाधारण बात है उनके वक्तव्य और भाषण। जितनी स्पष्टता और प्रभावी तरीके से वे अपनी बात रखते हैं वह विलक्षण है।

अमेरिका के अलावा मालदीव, फिलीपीन्स, इजिप्ट, बहरीन और युएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा बार विदेशी संसद को संबोधित करने का रिकॉर्ड भी मोदी के नाम ही है। मोदी आश्रयों की वर्णमाला से गूँथित ऐसा व्यक्तित्व हैं जिसने अपने हर कर्तमान से भारत का मस्तक ऊंचा किया है। अस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर चुके हैं। मोदी ने 14 बार विदेशी संसद में वहां के सांसदों को संबोधित किया। अमेरिका में मोदी ने दो बार संसद को संबोधित किया है। इसके साथ ही अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिजी, मॉरिशस, युगांडा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मालदीव की संसद को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, जबकि मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव ने 1-1 बार विदेशी संसदों में संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो सारे शासकीय प्रोटोकाल को तोड़ कर उस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने न केवल मोदी का स्वागत किया साथ ही एयरपोर्ट पर सबके सामने मोदी के पांव भी छूए। यह अपने आप में अभूतपूर्व है कि विश्व के इतिहास में आज तक कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के पांव सार्वजनिक रूप से नहीं छूए। भारत की जनता ने महानायक मोदी को एक नए भारत के शिल्पकार के रूप में देखा। मोदी की हर देश की यात्रा ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय बनी है। भारत चाहे अमेरिका यात्रा की हो, भारत रूपांतरित जो बाइडेन मोदी गले तो मिले ही साथ ही बाइडेन का यह कहना अपने आप में अद्भुत है कि 'आप तो अद्भुत लोकप्रिय हो। मुझे तो आपके आटोग्राफ लेने चाहिए।' अस्ट्रेलिया के सिडनी में जिस तरह से पूरा स्टैंडियम वहां बसे भारतीयों ने ठसाठस भर दिया और पूरा स्टैंडियम मोदी-मोदी के नारों से गुंजायमान हो उठा। उसे देखकर तो अस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीस भी हैरान रह गए। दुनिया के बड़े नेता जहां मोदी को सर आंखों पर बैठा रहे हैं, वहीं भारत में मोदी की लगातार बढ़ती साख एवं सम्मान से समूचा विश्व बाँधलाया हुआ है। मोदी का जितना विरोध किया जा रहा है, उतनी ही उनकी प्रतिष्ठा एवं जनसौकर्यता बढ़ती जा रही है। एक तरह से विरोध उनके लिये वरदान बन रहा है। इस युगनायक पर कीचड़ उछलने की जिस तरह की हकतें की गईं, वर्तमान में वे पराकाष्ठा तक पहुंच गयी हैं। पर इससे मोदी का वर्चस्व धूमिल होने वाला नहीं है। क्योंकि उनकी राजनीति एवं नीति विशुद्ध है और वैज्ञानिक आधार पुष्ट है। आज भारत देश की वैश्विक साख और गरिमा में जो वृद्धि हुई है उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। विश्व शांति की स्थापना में भारत का योगदान हो या प्रौद्योगिकी के विशाल क्षितिज में लंबी उड़ान, यह सब प्रधानमंत्री की विशाल दृष्टि से संभव हो रहा है। हम सब बदलाव की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह सौभाग्य से कम नहीं है। मोदी का संपूर्ण व्यक्तित्व एक पाठशाला बन गया है। उनके व्यक्तित्व के कई अनूठे आयाम हम देख चुके हैं, जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी और असाधारण बात है उनके वक्तव्य और भाषण। जितनी स्पष्टता और प्रभावी तरीके से वे अपनी बात रखते हैं वह विलक्षण है।

## प्रेरणा भावना भी समझें

एक आदमी बस में रोजाना ही यात्रा करता था। वह बस में केले खाता और छिलके को खिड़की से फेंक देता। एक दिन एक भाई ने कहा, भाई! सड़क पर छिलके डालना उचित नहीं है। दूसरे फिसलकर गिर पड़ते हैं। छिलकों को एक ओर जलना चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। दूसरे दिन की बात है। पूर्व दिन वाले दोनों यात्री एक ही बस में बैठे हुए थे। एक ने केले छीले, खाए और छिलके डाल दिए। सड़क पर नहीं, अन्यत्र कहीं। साथी ने कहा, धन्यवाद! कल जो मैंने कहा, उसे तुमने मान लिया। आज छिलके सड़क पर नहीं फेंके। उसने कहा, सड़क पर तो नहीं फेंके, पर मेरे पास जो दूसरा यात्री बैठा था, उसकी जेब में चुपके से छिलके डाल दिए। सड़क पर उन्हें डालने की नौबत ही नहीं आई। हर आदमी? से ही समस्या को दूसरे की जेब में डालता जाता है और यह मान लेता है कि समस्या का समाधान हो गया। समस्या सुलझती नहीं। एक समस्या सुलझती है, तो दूसरी उलझ जाती है। समस्या के समाधान का सही मार्ग है- भावनाओं पर ध्यान देना। जो भी काम किया जाता है, उसको करने से पूर्व यह सोचना होगा कि मैं यह काम शरीर की सुविधा के लिए कर रहा हूँ, पर इससे कहीं मन की समस्या उलझ तो नहीं रही है? कहीं भावना की समस्या गहरी तो नहीं होती जा रही है? हम तीनों समस्याओं पर एक साथ ध्यान दें। जब तक शरीर की समस्या, मन की समस्या और भावना की समस्या पर समवेत रूप में ध्यान नहीं देंगे, तब तक समाधान नहीं मिलेगा।



■ सुरेश हिंदुस्तानी

## चुनाव परिणाम: सत्ता पक्ष को फिर मिला जनादेश


देश के दो राज्यों के साथ कुछ राज्यों के उपचुनाव के परिणाम ने सत्ता पक्ष के प्रति अपना जनादेश दिया है। हर चुनाव में सत्ता के प्रति जनता में किसी न किसी बात पर आक्रोश रहता है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जनता ने फिर से उन्हीं सरकारों को फिर से सत्ता संचालने की जिम्मेदारी दी है, जो सत्ता में थी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखण्ड में सत्ता धारी गठबंधन को पहले से ज्यादा सीटें मिली हैं।

यह जनादेश न तो किसी के उछलने का मार्ग तैयार करता है और न ही किसी को नकारने की स्थिति पैदा करता है। जहां तक खुशियाँ मनाने की बात है तो महाराष्ट्र में भाजपा नीत गठबंधन जीत की खुशी मना रहा है तो झारखण्ड में इंडी गठबंधन के गले में विजयी माला पहनाई गई है। वहीं उपचुनाव में सबको खुशी और सबक दोनों ही दिए हैं।

महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अपने हिसाब से राजनीतिक विश्लेषण किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के लिए इन चुनावों में प्रादेशिक रूप से जय और पराजय दोनों ही सन्देश प्रवाहित हो रहे हैं। किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम की स्थिति पैदा करने वाले परिणाम ने यह तो साबित कर दिया है कि देश में किसी एक राजनीतिक दल का न तो व्यापक प्रभाव है और न ही कम सीट प्राप्त करने वाले को कमतर आँका जा सकता है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह मानी जा सकती है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सकी, जिससे यह सन्देश निकल रहा है कि अब भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा गठबंधन के सहारे ही तय होगी। वर्तमान में राजनीति दो विचार धाराओं के बीच है, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बनाकर चलने वाले राजनीतिक दलों का विचार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विचारों से तालमेल रखने वाले दलों की बानगी है। इतना ही नहीं इन चुनावों एक दूसरे के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया, वह राजनीतिक हिस्सा से भले ही जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन आम नागरिकों के समक्ष भ्रम जैसी स्थिति को ही प्रादुर्भाव करती हैं।

महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम भाजपा के लिए निश्चित ही अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन झारखण्ड में सरकार बनाने का सपना लेकर मैदान में उतरी भाजपा को फिर से तैयारी करनी होगी।

झारखण्ड के परिणाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति उपजी सहानुभूति का आधार बताया जा रहा है। पिछले दिनों झारखण्ड में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से अलग होना पड़ा था। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने चुनाव में इसी को



अपना राजनीतिक हथियार बनाया था और चुनाव में अपने पक्ष में वातावरण बनाया। ऐसा लगता है कि झारखंड में भाजपा अपनी ताकत और कमजोरी को भाँपने में विफल हो गई। झारखण्ड में भाजपा इतनी अग्रभावी नहीं कही जा सकती, जैसा उसका इस चुनाव में प्रदर्शन रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा के प्रादेशिक नेताओं की तनातनी जगजाहिर थी, जिसका परिणाम भाजपा के लिए ठीक नहीं था। हालाँकि इस चुनाव में भाजपा ने पिछली गलती को सुधारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह सत्ता के सीढ़ी का निर्माण कर पाने में असफल रही। अब झारखण्ड में फिर से झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री होंगे, यह भी तय लगता है। परिणाम के बाद अब महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में जो राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में राजनीतिक हवा अलग अलग दिशा में बह रही थी। जिसने हवा का रुख भांप लिया, वह हवा के साथ ही चला और सत्ता प्राप्त करने में सफलता हासिल की।

महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के साथ रहने वाले शिव सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार कर शायद यही सन्देश दिया है कि यह सत्ता के लिए किया गया बेमेल गठबंधन ही था। महाराष्ट्र में ऐसे जनादेश का क्या अर्थ होना चाहिए कि एक गठबंधन जीत गया तो दूसरा गठबंधन हार गया। इसी प्रकार झारखण्ड में भी जनादेश की भी समीक्षा की जाने लगी है।

पिछले पांच साल में महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीतिक उठपटक हुई थी, उसके केंद्र में कौन था, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडी गठबंधन की मानें तो उसने इसका सारा ठीकरा भाजपा के मत्थे मढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इस राजनीतिक धमा चौकड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिव सेना ने अपने विभाजन के रूप में चुकाई। जो धड़े

अलग हुए वे भाजपा के साथ जाकर खड़े हो गए और महाराष्ट्र में सरकार बनाई। कहा जा रहा है कि जनादेश ने भाजपा के साथ वाली शिव सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को असली होने का प्रमाण पत्र दे दिया है। अब महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन की ही सरकार बनेगी, यह तय है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके कयास भी लगने लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा ने शानदार वापसी की है। ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि एकनाथ शिंदे ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पीछे राजनीतिक कारण यह भी माना जा रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहयोगी दलों की जरूरत है, इसलिए भाजपा अपने सहयोगी दलों को अब नाराज नहीं कर सकती। दूसरी बात यह भी है भाजपा ने एकनाथ शिंदे को जिस प्रकार से चौकाने वाले अंदाज में मुख्यमंत्री बनाया था, वह हर किसी के लिए आश्चर्य ही था। अब यह भी हो सकता है कि भाजपा ने जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया, वही प्रयोग शिंदे के साथ भी किया जा सकता है।

### राजकाज



महाराष्ट्र में भाजपा का एक छत्र राज महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भाजपा गठबंधन ने चमत्कार करके दिखाया है। 288 सीटों में से महायुति गठबंधन ने 230 सीट जीतकर रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीट जीत ली। भूतो ना भविष्यति की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का यह परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ हो गया। असली शिवसेना और असली राकपा विधानसभा चुनाव की आंधी में उड़ गईं। असली शिवसेना के रूप में सामने आ गईं। यह चमत्कार मोदी और अमित शाह ही कर सकते हैं। महा विकास अघाड़ी के नेता चुनाव आयोग को मोदी और अमित शाह की केंद्र में बता रहे हैं जैसा वह चाहते हैं, वैसा परिणाम ले लेते हैं। बेचारा चुनाव आयोग, उसे जो निर्देश मिलते हैं, वही करता है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनना तय हो गया है। जिसे नतीजा नहीं मानना है।

### महाराष्ट्र में असली और नकली शिवसेना-राकपा के बीच फैसला?

महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ हुईं। एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ समझौता करके सरकार बनाई। खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाला साहब ठाकरे के वारिस उद्धव ठाकरे अपने आप को असली वारिस बताते रह गए। जनता ने अथवा चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना मान लिया है। चुनाव परिणाम तो यही बता रहे हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति राकपा की हुई है। इस पार्टी का गठन शरद पवार ने किया था। उनके भतीजे पार्टी तोड़कर भाजपा के साथ मिल गए। वह उप

मुख्यमंत्री बन गए। जेल जाने से भी बच गए। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए। वह अपने चाचा को हराकर नकली से असली राकपा के मालिक बन गए हैं। समय की बलिहारी है, जिसने पैदा किया वह डुप्लीकेट हो गया। और डुप्लीकेट असली हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चमत्कार के रूप में जनता को यह देखने को मिल रहा है।

### महाराष्ट्र में भाजपा को किसी की जरूरत नहीं

महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में भाजपा ने 132 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली है। 14 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भाजपा को मिल गया है। वह स्पष्ट बहुमत में पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में अब भाजपा को सरकार बनाने के लिए न तो एकनाथ शिंदे की जरूरत है। नाही अजीत पवार की जरूरत है। भाजपा के कहने पर यह बिना किसी मोलतोल की समर्थन करेंगे, तो सरकार में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को हिस्सेदारी मिलेगी।

### भतीजे को हराकर 1 लाख वोटों से जीते अजीत पवार

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बरामती की विधानसभा सीट पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतकर, अपने भतीजे योगेंद्र पवार को हरा दिया है। कहा जा रहा है, कि भाजपा भाई-भाई को लड़ाती है। भाजपा जिस परिवार में चुस जाती है। उस परिवार का टूटना तय माना जाता है। यहां तो भतीजे की बात थी। पवार का पूरा परिवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है।



### फीतर

## पपीते का रस ठीक करता है कई गंभीर बीमारियां

ऐसे में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पपीते का सेवन करना शुरू कर दें। पपीता ही नहीं इसके पत्ते का रस भी बेहद स्वस्थस्वर्धक होता है। अगर आपने इसके पत्ते का रस पीया है तो ठीक और नहीं पीया तो पीना शुरू कर दीजिए क्योंकि पपीता खाने के साथ ही इसके पत्ते का रस पीने से कई तरह की बड़ी बीमारियों से बचाव होता है। वैसे तो ज्यादातर डेंगू और चिकनगुनिया के रोगियों को इसका रस पीने की सलाह दी जाती है लेकिन अगर आप ताउम्र स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसे आपने आहार में शामिल करें। कैंसर कोशिकाओं को रोकता है पपीते के पत्ते में कैसररोधी गुण होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्टम कैंसर जैसे कैंसर के सेल्स को बनने से रोकते हैं।

### संक्रमण से बचाव: शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ ही पपीते के पत्ते का जूस शरीर में

बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने में भी सहायक है। यह खून में सफेद रक्त कणों और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी सहायता करता है। डेंगू नहीं होगा: डेंगू और मलेरिया से लड़ने में पपीते की पत्तियों का रस काफी लाभकारी रहता है। यह बुखार की वजह से गिरती प्लेटलेट्स को बढ़ाने और शरीर में कमजोरी को बढ़ाने से रोकता है। पीरियड्स में लाभप्रद: पीरियड्स में होने वाला दर्द में अगर पपीते की पत्ती को इमली, नमक और 1 ग्लास पानी के साथ मिलाकर काढ़ा बनाया जाए और इसे ठंडा करके पिया जाए तो काफी आराम मिलता है। एनीमिया में लाभप्रद: पपीते का रस किसी भी आधे से कम नहीं है। अगर आपकी ब्लड प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो इसे पीने से ब्लेड प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं।

### अपनी बात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश औद्योगिक रूप से सक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में विभिन्न धरेतु और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

असतुदीन ओवैसी ने कहा कि संभल में शाही जामा मस्जिद 50-100 साल पुरानी नहीं है, यह 250 से 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कोर्ट ने मस्जिद के लोगों की बात बुना बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो गलत है। जब दूसरा सर्वेक्षण किया गया तो कोई जानकारी नहीं दी गई और टीम सर्वे करने पहुंच गई। सर्वेक्षण का वीडियो जो लोग दावा कर रहे हैं कि सार्वजनिक डोमेन में है, उसमें सर्वेक्षण के लिए आए लोगों द्वारा भड़काऊ नारे लगाए गए थे।



## ब्रीफ न्यूज

26 नवम्बर को मनाया जायेगा संविधान दिवस

गुना। शासन के निर्देशानुसार 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्व को देखते हुए, वर्ष भर चलने वाले उत्सव को हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान की टैंग लाइन के तहत चलाने का निर्णय लिया है। शासन के आदेशानुसार शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, स्वशासी संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को आयोजन के विस्तृत दिशा-निर्देश के आदेश जारी किये गये हैं। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेला 28 को

गुना। युवाओं को एक ही छत के नीचे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर प्रत्येक माह रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। जिला रोजगार अधिकारी बी.एस. मीना ने बताया कि इसी क्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सहित सभी विभागों के समन्वय से जिला स्तर पर 28 नवम्बर 2024 को सर्किट हाउस (विश्राम गृह), (एसबीआई बैंक कलेक्टरट शाखा) के पास जिला गुना में प्रातः 11 बजे से जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रदेश की विभिन्न कंपनियों द्वारा मेला स्थल पर साक्षात्कार के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे एवं विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी दी उपलब्ध करायी जावेगी, साथ ही ऐसे विभाग जिनमें स्वरोजगार एवं हितग्राही मूलक योजना संचालित होती है, उनके हितग्राही को भी हितलाभ वितरण किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विशाल सिंह को कार्यक्रम समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अपने छोए मोबाईल को लेने गए युवक के साथ मारपीट

गुना। शहर के कैंट थानांतर्गत सेमरा में अपने गिरे मोबाईल को लेने गए युवक के साथ दो लोगों ने मारपीट कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी टीकाराम कुशवाह पिता चरण सिंह कुशवाह निवासी दोपहर ने अपने चाचा रानू कुशवाह के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका कुछ दिन पहले मोबाइल गिर गया था। जिस पर ग्राम सेमरा का मोनु कुशवाह ने बोला था कि तेरा मोबाइल मेरे पास है आकर ले जा। जिस पर गत शाम ग्राम सेमरा में बनबारी अहिरवार की दुकान के पास पहुंचा। यहां उसे मानू कुशवाह व उसका साथी दौलत कुशवाह मिले। जब फरियादी ने उनसे अपना मोबाइल मांगा तो दोनों ने गाली गलौंच कर कहा कि तूने मेरी रिपोर्ट क्यों की थी तुझमें हम दो तो मोबाइल लेकर बता। इस दौरान दोनों ने उसकी डंडे से मारपीट कर दी। जिसमें वह घायल हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल-100 ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

## जनता के प्रति संवेदनशील रहें और उनकी समस्या को गंभीरता से करें निराकृत: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव द्वारा समाधान ऑनलाइन के दौरान कलेक्टर-कमिश्नर्स को दिये आवश्यक निर्देश

सत्ता सुधार ■ गुना

मुख्य सचिव द्वारा समाधान ऑनलाइन के दौरान कलेक्टर-कमिश्नर्स को दिये आवश्यक निर्देश दिये गये। जिला कलेक्टर के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा, वन मण्डलाधिकारी श्री अक्षय राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य सचिव द्वारा समाधान ऑनलाइन के दौरान चयनित जिलों के हितग्राहियों से वन-टू-वन चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन से संबंधित



उच्च, निम्न प्रदर्शन करने वाले ग्रैंडिंग के आधार पर संबंधित कलेक्टर से चर्चा की गयी और उनके द्वारा निराकरण के लिए की गयी बेस्ट प्रैक्टिस का फीडबैक प्राप्त किया। समीक्षा के दौरान समाधान

ऑनलाइन के चयनित विषयों की तुलनात्मक समीक्षा भी की गयी। मुख्य सचिव द्वारा व्हीसी के माध्यम से सभी कलेक्टर/कमिश्नर्स को निर्देशित किया गया कि जनता के प्रति संवेदनशील

रहें और उनकी समस्या को गंभीरता से निराकृत करें और शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करावें और निराकरण की सही रिपोर्ट दर्ज करावें। गलत रिपोर्ट दर्ज कराने वाले कर्मचारियों

की सेवाएं समाप्त की जावे। कोई भी शिकायत बिना संतुष्टिपूर्ण निराकरण के फोर्स क्लोज नहीं की जावे। सही शिकायतों का जवाब फीड करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों की कैपिसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण कराया जावे जिससे अच्छे परिणाम आने की संभावना रहती है और निराकरण के दौरान प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा भी की जावे। राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत फार्मर आईडी पंजीयन एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसे अच्छी तरह से संपन्न करावे। आगे से किसानों को इसी आधार पर सभी कार्यों का लाभ प्राप्त होगा। अंत में व्हीसी के माध्यम से समीक्षा के दौरान सभी को

निर्देशित किया गया कि कल 26 नवम्बर को हमारे संविधान दिवस को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया जावे, जिसके तहत संविधान प्रस्तावना का सामूहिक वाचन, आमजन एवं स्कूल तथा महाविद्यालयों के छात्रों को कार्यक्रम में भागीदारी के लिए प्रेरित करें। शासन स्तर पर प्राप्त होने वाली फिल्म को दिखाएं और देश एवं प्रदेश में अपना योगदान देने वाले महानुभावों की जानकारी शेयर की जावे। इस दौरान संविधान पर आधारित प्रदर्शनी लगायी जावे। संविधान दिवस के सभी कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित करावें।

## कलेक्टर द्वारा खेलो एमपी यूथ गेम्स के आयोजन के संबंध में हुई बैठक

सत्ता सुधार ■ गुना

कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में खेलो एमपी यूथ गेम्स-2024 के आयोजन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मान सिंह ठाकुर, प्राचार्य पी.ओ. कॉलेज श्री बीके तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री चन्द्रशेखर सिंसोदिया, श्रीमती शर्मिला डाबर संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी गुना सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान खेल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 का विकासखंड स्तरीय चयन स्पर्धा, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय आयोजन किया जाना है। विकासखंड स्तरीय चयन स्पर्धा 5 से 11



दिसम्बर 24 के मध्य, जिला स्तरीय आयोजन 13 से 15 दिसम्बर 2024 के मध्य, संभाग स्तरीय आयोजन 17 से 22 दिसम्बर के मध्य तथा राज्य स्तरीय आयोजन दिनांक 24 से 28 दिसम्बर 2024 तक किया जाना है।

बैठक में बताया गया कि खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 का विकासखंड चॉंचौड़ा में 07 दिसम्बर 24 को, विकासखंड गुना

में 8 दिसम्बर 2024 को, विकासखंड बमौरी में 9 दिसम्बर 2024 को, विकासखंड राघौगढ़ में 10 दिसम्बर 2024 को, विकासखंड आरोन में दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को चयन स्पर्धा आयोजित की जावेगी तथा 13 एवं 14 दिसम्बर 2024 को जिला स्तरीय आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 के अंतर्गत

बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, योगा, फुटबॉल, क्रिकेट, बेडमिंटन, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, बॉलीवॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शतरंज, तैराकी, मलखंब कुल 19 खेलों में विकासखंड एवं जिला स्तरीय आयोजन किया जावेगा तथा 06 खेलों ताईक्रांडो, फैसिंग, रोईंग, क्याकिंग-कैनोईंग, शूटिंग एवं आर्चरी का आयोजन सीधे राज्य स्तर पर किया जावेगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स में 19 वर्ष से कम आयु (31 दिसम्बर 2024 की स्थिति में) के बालक एवं बालिका खिलाड़ी प्रतिभागीता कर सकते हैं।

बैठक में कलेक्टर द्वारा खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 के सफल आयोजन किये जाने हेतु तैराकी प्रतियोगिता गेल तथा योगा स्वतंत्रता पार्क के शेड में सम्पन्न करने के निर्देश संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी को दिये गये।

## फर्जी तरीके से बदला जमीन का मालिक और रजिस्ट्रार कार्यालय खड़े होकर करा दी रजिस्ट्री

कैंट थाने में चार सौ बीसी सहित अन्य धाराओं में मृतक सहित चार पर मामला दर्ज

गुना। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में करीबन डेढ़ दशक से अधिक समय बाद कोर्ट के आदेश के बाद फर्जी विक्रेता, क्रेता और दो गवाहों पर चार सौ बीसी सहित अन्य धाराओं में कैंट थाने में मामला दर्ज हुआ है। जिसमें एक गवाह की तो मौत भी हो चुकी है। आरोपी द्वारा फर्जी तरीके से सब रजिस्ट्रार पहुंचकर असल मालिक के नाम पर खुद को प्रस्तुत कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवारी चंद्रप्रकाश पुत्र मथुरालाल ने अपने अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजकुमार तोरनिया की अदालत में परिवार दायक किया था। जिसमें कहा गया कि परिवारी चंद्रप्रकाश पुत्र मथुरालाल के स्वामित्व तथा आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 16 रकबा 4.181 है स्थित ग्राम डोबरा तहसील बमौरी जिला गुना मप्र है। जिसे परिवारी ने जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16 जून 1984 के माध्यम से राजेंद्रसिंह पुत्र सागरसिंह सिंसोदिया से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया था। चूंकि सर्वे क्रमांक 16 का रकबा 56.362 है था इसलिए नामांतरण में कागजात राजस्व में आवेदक के द्वारा क्रय किये गये रकबा 4.181 है को सर्वे नंबर 16/मिन 9 पर अंकित कर दिया। परिवारी अधियुक्त

कमांक 1 योगेन्द्र सिंह पुत्र मामराज सिंह राजपूत आयु 44 वर्ष, निवासी ग्राम खेडला तहसील सोहना जिला गुडगांव हरियाणा को जानता तक नहीं है। और न ही उसे कभी नहीं देखा। जबकि अधियुक्त चंद्रप्रकाश किरार और हरिप्रसाद किरार परिवारी से परिचित थे, एक ही समाज होने से पीड़ित उन्हें जानता था। इसके बावजूद भी अधियुक्त योगेन्द्र के साथ मिलकर चंद्रप्रकाश तथा हरिप्रसाद ने षडयंत्र किया और चंद्रकाश पुत्र भैरूलाल किरार, परिवारी चंद्रप्रकाश पुत्र मथुरालाल के स्थान पर कार्यालय सब रजिस्ट्रार में खड़े होकर योगेन्द्र सिंह कोक 27 अक्टूबर 2007 को उसकी स्वामित्व की भूमि को फर्जी एवं कूटचित्त तरीके से बेच डाला। इस दौरान आरोपी ने स्वयं का फोटो लगाकर तथा स्वयं के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ चिन्ह लगाकर जमीन को बेचन की कार्यवाही की। वहीं पीड़ित का कहना है कि जिस दिन जमीन की फर्जी खरीद फरोख्त हुई उस दिन तो वह गुना में किसी स्थान पर आया ही नहीं। विक्रय पत्र पर गवाह के रूप में अधियुक्त हरिप्रसाद पुत्र भमरलाल किरार ने अपने हस्ताक्षर किए थे, जबकि अन्य साक्षी रंगलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह अधियुक्त योगेन्द्र सिंह ने अधियुक्त नाथूलाल अग्रवाल से मिलकर आवेदक की उल्लेखित भूमि का विक्रय पत्र संपादित करा दिया। फिलहाल मामले में कोर्ट के आदेश पर कैंट थाना पुलिस द्वारा धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है।



आधार लिंकिंग, फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य का किया निरीक्षण

गुना। शासन के निर्देशानुसार राजस्व महा-अभियान 3.0 का सफल संचालन जिले में कलेक्टर सतेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में 15 दिसम्बर तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजस्व विभाग के लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख जट्टियों को राजस्व महा-अभियान में ठीक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज अनुविभागीय अधिकारी गुना श्रीमति शिवानी पाण्डेय द्वारा ग्राम गेहूँखड़ा गिरद एवं बरखेड़ा गिरद में ई-केवायसी एवं फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसीलदार कमल सिंह मण्डेलिया उपस्थित रहे। हसीलदार चंचौड़ा अमित जैन द्वारा तहसील चंचौड़ा के ग्राम कोन्याकला एवं लहरसा में आधार खसरा लिंकिंग तथा फार्मर रजिस्ट्री कार्य का निरीक्षण किया गया।

## राघौगढ़ में एसबीआई शाखा में कामकाज टप्प, लटका रहा ताला, ग्राहक हुए परेशान

सत्ता सुधार ■ गुना

जिले के राघौगढ़ कस्बे की स्थानीय एसबीआई शाखा में तकनीकी समस्या के कारण बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गईं। जिससे ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और शाखा में ताला लटका रहा। शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक की विद्युत प्रणाली में खराबी आई, जिससे बैंक की एटीएम मशीनें जल गईं और कंप्यूटर प्रणाली भी ठप हो गईं। इस घटना के चलते बैंक की शाखा का संचालन रुक गया है, और ग्राहकों को समय पर सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। घटना के संबंध में शाखा प्रबंधक ने बताया कि इस तकनीकी खराबी के कारण बैंकिंग कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई है। फिलहाल, बैंक मुख्यालय



को इस समस्या की सूचना दी गई है, और तकनीकी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार, दो दिन के अवकाश के बाद शाखा सोमवार सुबह नियमित रूप से खुली, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण लेनदेन संबंधी सभी कार्य रुक गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक के सर्वर और अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बैंक को लगभग 8 से 10 लाख रुपये के ट्रान्ज़ेक्शन फंस हुए हैं। बैंक प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी खराबी के चलते उन्हें बेहद परेशान होना पड़ा। बैंक

परिसर में लंबी कतारें लगी रहीं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो सका। ग्राहकों को लेन-देन के लिए बार-बार इंतजार करना पड़ा, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हुई। शाखा प्रबंधक ने बताया कि इस समस्या का समाधान करने के लिए तकनीकी टीम कार्यरत है। इस घटना से बैंक के ग्राहकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई ग्राहकों ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर उचित प्रबंधन होता तो इस प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता था। फिलहाल, बैंक ने ग्राहकों को हो रही असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।

कलेक्टर द्वारा लंबित पत्रों की बिंदुवार समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

## कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा बैठक सम्पन्न

सत्ता सुधार ■ गुना

कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रीमति जिजा फातिमा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विशाल सिंह सहित समस्त जिला अधिकारियों उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर द्वारा लंबित पत्रों की बिंदुवार समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 'डी' रैंकिंग वाले विभागों को अपनी रैंक में सुधार के निर्देश दिये गये। विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास, दयबल, पिछड़ा वर्ग विभाग को सीएम हेल्पलाइन में संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिये। जिला पंचायत एवं राजस्व



विभाग द्वारा किये गये अच्छे कार्य की प्रशंसा की गई। जनसुनवाई, मुख्यमंत्री निवास, सीएस मॉनिटर और विभिन्न आयोग से प्राप्त पत्रों के माध्यम से शिकायतों का निराकरण

तत्परा से किया जाये। बैठक में धरती आबा की गई। जनसुनवाई, मुख्यमंत्री निवास, सीएस मॉनिटर और विभिन्न आयोग से प्राप्त पत्रों के माध्यम से शिकायतों का निराकरण

चौपाल लगाएं और विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर द्वारा कैंट गौशाला गुना को आदर्श गौशाला बनाए जाने के लिए जेसीबी मशीनों की सहायता से समतलीकरण कार्य के लिये निर्देशित किया। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खनिज विभाग द्वारा दो एवं नगर पालिका विभाग द्वारा एक जेसीबी मशीनों से इस कार्य को कराया जाये। इसके अलावा नगरपालिका के राजस्व वसूली पर जोर देते हुए सीएमओ को निर्देशित किया कि जो बड़े बकायादार हैं उनके नाम होर्डिंग एवं बैनर पर लगाकर प्रदर्शित किये जाएं। बैठक में अतिरिक्त

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया गया कि पीएम ग्राम सड़क योजना के कार्य में प्रगति लाएं। बैठक में अमित सोनी (परिवीक्षाधीन) डिप्टी कलेक्टर गुना को तहसील कुंभराज में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने निर्देशित किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान 'हम होंगे कामयाब' 25 नवम्बर से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि पखवाड़ा अंतर्गत जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने के लिये अभियान चलाया जाए।

## अपहत किशोरी के दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल

गुना। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अपहत एक नाबालिक किशोरी को दस्तयाव कर उसके अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत माह 23 अक्टूबर 24 को गुना कोतवाली अंतर्गत 17 वर्षीय एक नाबालिक बालिका जो घर से स्कूल के लिए निकली थी। जिसके देश शमक भी वापस घर नहीं लौटने पर बालिका के पिता की ओर से गुना कोतवाली में उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिस पर से कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 898/24 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर गुना कोतवाली पुलिस द्वारा अपहत बालिका की निरंतर तलाश की गई। जिसकी तलाश के क्रम में विगत दिवस को अपहत बालिका को नागपुर (महाराष्ट्र) से दस्तयाव कर लिया गया। दस्तयाबी पर पीड़ित बालिका के कथनों के आधार पर प्रकरण में आरोपी कहु लोधा निवासी कुशमोदा गुना के विरुद्ध धारा 64(2)(ए) बीएनएस एवं 5(एल)/6 पीकेओ एक्ट इजाफा की कर पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्यवाही में टीआई बृजमोहन सिंह भदौरिया, उपनिरीक्षक अंजलि गुता, सडिन अमर सिंह भदौरिया, आरक्षक सितेंद्र नन्द, आरक्षक आदित्य कोरवा, महिला आरक्षक प्रगति राजपूत, महिला आरक्षक धनकुंवर जाटव, महिला आरक्षक ज्योति राजपूत, महिला आरक्षक कल्पना शर्मा एवं सायबर सेल से आरक्षक कुलदीप भदौरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

रोजाना जिंदगी में हम सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द से लेकर बॉडी में दर्द तक ना जाने कितनी तरह के दर्द को शिकार होते हैं। ज्यादातर मामलों में हम पेन किलर से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर दर्द ज्यादा और लगातार हो रहा है, तो लापरवाही बरतना खतरनाक हो सकता है। क्या आप बहुत दिनों अपनी कमर में होने वाले दर्द को इग्नोर कर रहे हैं? हो सकता है कि आप कुछ गोलियां लेकर काम चला रहे हों (ज्यादातर मामलों में इन गोलियों से थोड़ी राहत मिल जाती है।), लेकिन लंबे समय तक इस तरह के दर्द को इग्नोर करना आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। मले ही आप इस बात से सहमत हों या ना हों, लेकिन शरीर के किसी हिस्से में दर्द होने का मतलब यही है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अगर आप अपनी बॉडी की पुकार पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आपके साथ कुछ गलत होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कुछ ऐसे कॉमन बॉडी पेन के बारे में, जो किसी बड़ी प्रॉब्लम की निशानी हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी तरह का दर्द होता है, तो उसे सीरियसली लिए जाने की जरूरत है।

# न करें छोटे से दर्द को भी इग्नोर



## गर्दन दर्द

हम लोग अक्सर अंगुलियों में होने वाली सिहरन और वीकनैस को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब यह दर्द काफी बढ़ जाता है, तो यह सरवाइकल में तब्दील हो जाता है। बेहतर होगा कि आप शुरुआती लक्षणों को पहचान कर सावधान हो जाएं। मसलन अगर आप कभी चाय पी रहे हैं और अचानक कमजोरी की वजह से आप चाय का कप नहीं पकड़ पाते, तो यह आपके लिए अलर्ट होने का समय है। यही दर्द धीरे-धीरे बढ़ता हुआ आपकी गर्दन में पहुंच जाएगा और सरवाइकल की वजह बन जाएगा।



सीने में दर्द की बहुत सी वजहें हो सकती हैं। सीने में जलन और गैस जैसी कॉमन परेशानियों के अलावा सीने में दर्द की कुछ सीरियस वजहें भी हो सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या फिर आपका वजन काफी बढ़ गया है, तो आपको सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन अगर आप फिट हैं, बावजूद इसके आपको सीने में थोड़ा-थोड़ा दर्द होता है, तो आपको निश्चित तौर पर चिंतित होने की जरूरत है। बेशक, सीने में होने वाला हार्ट अटैक की निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतते हुए आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। इसी तरह, अगर आप थोड़ा चलने या सीढ़ियां चढ़ने में हांफने लगते हैं, तो भी आपको डॉक्टर से डिस्कस करने की जरूरत है। ध्यान रहे कि हार्ट डिजीज का दर्द छाती के ऊपरी हिस्से, गले, बांये कंधे या हाथ में होता है। साथ ही, इस दौरान आपको पसीना भी आने लगता है।

## चेस्ट पेन

## हलका सिर दर्द

सिरदर्द एक ऐसी बीमारी है, जिसे लोग अक्सर सीरियसली नहीं लेते। हममें से ज्यादातर पेन किलर्स लेकर सिरदर्द को भुला देते हैं। बावजूद इसके आपको इस चीज का खयाल रखना चाहिए कि अगर आपके सिरदर्द का पैटर्न चेंज होता रहता है या फिर यह अभी कुछ दिनों से ही होना शुरू हुआ है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, आपके कहीं गिरने या फिर सिर में चोट लगने से होने वाले सिरदर्द को भी सीरियसली लेना चाहिए। और अगर लगातार हो रहे सिरदर्द से आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको उसे वाकई सीरियसली लेने की जरूरत है। कई बार सिरदर्द के साथ उलटी की शिकायत होती है। जबकि कई बार सिरदर्द में काफी कमजोरी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि हाथों-पैरों में मानो सुइयां चुभ रही हों। इस तरह का दर्द स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है, इसलिए ऐसी कंडिशन में सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर किसी इंसान को सिरदर्द के साथ कोलड भी हो गया है, तो फिर उसे साइडस सिरदर्द का इलाज कराना चाहिए।




## पेट दर्द

सबसे ज्यादा महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान पेट दर्द की शिकार होती हैं। दूसरे लोग भी पेट दर्द की शिकायत होने पर कोई पेन किलर लेकर राहत पा लेते हैं। लेकिन अगर आपको अक्सर पेट दर्द की शिकायत रहती है और आप लगातार पेन किलर का सहारा ले रहे हैं, तो सावधान इससे आपकी किडनियों को नुकसान हो सकता है। और महिलाओं को इस तरह की शिकायत है, तो उन्हें शॉर्टकट अपनाने की बजाय गायकन-लॉजिस्ट से डिस्कस करके पूरा चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा, लगातार पेट दर्द की वजह हाई बर्न, ब्लॉकेज, अल्सर और गॉलब्लेडर में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है।



# दवाएं भी होती हैं जानलेवा

दवाएँ उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितनी चिकित्सक ने लिखी हो। इससे कम या अधिक नुकसानदायक हो सकती है। अब तक ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स न हों। अतः अपने मन से खाई गई कोई दवा जहर भी हो सकती है। जीवन की रक्षा करने वाली दवाइयाँ हमेशा सुरक्षित नहीं होती हैं। यदि आप चिकित्सक की सलाह के बिना इन्हें मनमाने तरीके से ले रहे हों तो ये खतरनाक भी हो सकती हैं। खुराक एवं मात्रा में से किसी भी एक का ध्यान न रखा जाए तो ये दवाइयाँ कभी-कभी खतरनाक हो सकती हैं। दमा के तेज अटैक से तुरंत राहत के लिए चिकित्सक ओरल स्टीरॉयड्स मरीज को देते हैं, लेकिन देखा गया कि करीब 5 से 10 प्रतिशत मरीज उन पचों को संभालकर रख लेते हैं ताकि जब दोबारा अटैक आए तो वही दवा फिर से खा लें। कई मरीज तो चिकित्सक को बिना बताए हफ्तों और यहाँ तक कि महीनों भी अपने मन से स्टीरॉयड्स खाते रहते हैं। इसके गंभीर परिणाम होते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाइयों की खुराक बिना रक्तचाप नापे ज्यादा या कम नहीं करना चाहिए।



कई मरीजों के परिजन अस्पताल के आईसीयू में यह कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि हमारे मरीज को रक्तचाप की शिकायत असें से है और वे नियमित दवा खाते हैं। अब सिरदर्द की शिकायत होने पर भी उन्हें लगा कि रक्तचाप बढ़ गया है इसलिए एक गोली और खा लीं। इससे रक्तचाप तेजी से गिर गया तो आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। कई लोग सिरदर्द, बदन दर्द के लिए एस्प्रीन, आइबुफेन व अन्य दर्द निवारक दवाएँ बिना निदान के अपने आप कई वर्षों तक लगातार लेते रहते हैं। ये दवाइयाँ कुछ समय के लिए सिर्फ दर्द को दबाती हैं। कारण को ठीक नहीं करती। इन दवाइयों से पेट में अल्सर, एनिमिया, गुर्दे खराब होना इत्यादि परेशानियाँ आ सकती हैं। कई लोग कमजोरी के लिए विभिन्न प्रकार के टॉनिक व विटामिन्स खाते रहते हैं। बी-कॉम्प्लेक्स व विटामिन-सी यदि ज्यादा ले भी लिए तो मूत्र के साथ निकल जाते हैं। लेकिन कुछ घुलनशील विटामिन्स जैसे विटामिन ए व विटामिन डी ज्यादा खुराक के कारण शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया में व्यवधान भी उत्पन्न कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स अपने मन से न लें। कई बार उनकी जरूरत नहीं होती। कई मरीज इस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि पिछली बार जैसे लक्षण थे, इसलिए हमने आपका %पिछला पर्चे दिखाकर दवा ले ली, लेकिन इस बार फायदा नहीं हुआ। एक ही एंटीबायोटिक को बार-बार लेने से उससे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में हल्की एंटीबायोटिक असर नहीं करती। अब केवल ताकतवर एंटीबायोटिक देने पर भी फायदा होता है। अधिक समय तक एंटीबायोटिक खाने से बीमारी बढ़ती रहती है और कई बार उसके साइड इफेक्ट्स- जैसा- दस्त होना, पेट खराब हो जाना, मुँह में छाले इत्यादि हो सकते हैं। इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक दवाई चिकित्सक के परामर्श के बिना न लें। खासकर वे लोग जो पहले ही से दवाइयाँ लेते रहते हैं उन्हें विशेष खयाल रखना चाहिए क्योंकि उनकी पहले की दवाइयाँ इन नई दवाइयों से मिल कर उनके लिए नई परेशानियाँ खड़ी कर सकती हैं।

उम्र के हिसाब से अगर दांतों की केयर की जाए, तो दांतों में दर्द या किसी और दिक्कत का सामना ही न करना पड़े-हर रोज दो बार दूध ब्रश करना और अपने डेंटिस्ट से रेग्युलर चेकअप करना, यही करते हैं न हम अपने दांतों की केयर के लिए। दरअसल, जब दांतों में दर्द होता है, तब हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। इंडियन डेंटल असोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉ. अशोक घोबले ओरल केयर के बारे में बता रहे हैं कुछ खास बातें

### बेबी की ओरल केयर

कुछ लोग सोचते हैं कि बेबी के दूध के दांत हैं, तो

अभी से क्या केयर करनी है। जबकि हम आपको बता दें कि बेबी के दांतों की केयर करना भी उतना ही जरूरी है, जितने बड़ों की। दरअसल, इनके सहारे वह अच्छी डाइट तो ही ले ही पाता है, जो कि ग्रोथ भी सही होती है। यही नहीं, टीथ लाइन चेहरे को सही फॉर्म और अपीयरेंस देने में भी मददगार है। इनसे बच्चे को साफ-साफ बोलने में मदद मिलती है और ये एडवेंस टूथ के लिए स्पेस सेवर्स के तौर पर भी अच्छा काम करते हैं। हम आपको बता दें कि अगर बेबी टीथ डैमेज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो परमानेंट टीथ भी सही जगह पर नहीं आते। आगे चलकर वह भी एक-दूसरे पर चढ़े या स्टे-स्टे से आते हैं।

# डेंटल केयर



# व्यायाम के लिए नई गाइडलाइंस

अनियमित दिनचर्या से जुड़ी बीमारियों का ग्राफ बढ़ने के साथ ही देश में एरोबिक, योगा व व्यायाम का भी रूझान बढ़ा। इसके बावजूद, बीमारियाँ नियंत्रित नहीं हो रही हैं, जिसका सीधा असर अप्रशिक्षित योगाभ्यास या व्यायाम का माना गया है। भारतीयों को व्यायाम व एरोबिक की सही दिशा देने के लिए नेशनल डायबिटिक ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कर्टिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर व्यायाम की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके बाद हर उम्र के व्यक्ति के लिए व्यायाम की अलग पाठशाला होगी। यही नहीं, पहली बार मधुमेह व दिल की बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए भी व्यायाम की सलाह दी गई है।

### किसके लिए जरूरी व्यायाम

अब तक बच्चों के लिए व्यायाम की जरूरत को सही नहीं बताया गया था, लेकिन ताजा अध्ययन कहते हैं कि बढ़ने की उम्र में अधिक से अधिक शारीरिक श्रम बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यहां तक निर्धारित वजन के वेट लिफ्टिंग को भी बच्चों के लिए सही बताया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार हर वह व्यक्ति



जो 4 से 5 घंटे एक जगह बैठकर काम कर रहा है, साथ ही जंक फूड, अधिक तेल व वसा का सेवन कर रहा है, परिवार में मोटापे व दिल की बीमारी का इतिहास रहा है, तो उसे कम से कम 60 मिनट रोजाना व्यायाम करना जरूरी है। यह व्यायाम कई तरह का हो सकता है, जिसमें मॉडरेट एक्सरसाइज भी शामिल है। पहली बार मधुमेह व दिल की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए भी व्यायाम की जरूरत को महत्व दिया गया है, जिसे कार्डिओ रीहैबिलिटेशन की संज्ञा दी गई है।

### तयों जरूरत पड़ी

भारतीयों की बीमारी के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के बाद ही व्यायाम की गाइडलाइन जारी करने की जरूरत समझी गई, जिसके अनुसार पिछले दस साल में देश में मधुमेह के मरीजों और दिल की बीमारी का खतरा अन्य देशों की अपेक्षा दस गुना अधिक है। संगठन के अनुसार अकेले वर्ष 2010 में भारतीयों पर 43 प्रतिशत नॉन कम्प्लिकेबल डिजीज (सीएचडी, मधुमेह, वाल्व खराब होना) व 60 प्रतिशत ब्रेज़ हाइपरटेंशन का है। राष्ट्रीय रोग संचारी विभाग के अनुसार वर्ष 1990 में संचारी रोगों से मरने वालों का आंकड़ा जहां 40.4 प्रतिशत तक रहा था, वर्ष 2020 तक 66 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। बीमारियों के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल को माना गया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए देश में विशेष गाइडलाइन की जरूरत महसूस की गई। शरीर के साधारण विकास के लिए शारीरिक श्रम जरूरी है। कंप्यूटर का अधिक प्रयोग और स्कूल की अधिक पढ़ाई का बोझ बच्चों को बाहर खेलने का मौका कम कर रहा है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बच्चों में शारीरिक श्रम व व्यायाम की जरूरत को बताया गया है। अब तक वेट लिफ्टिंग के व्यायाम से बच्चों को दूर रहने की सलाह दी जाती थी, लेकिन हालिया अध्ययन कहते हैं कि निर्धारित वजन का व्यायाम बच्चों के लिए सही है। जिसे प्रशिक्षण ट्रेनर की सलाह पर किया जा सकता है। व्यायाम को सही दिशा देने के लिए स्कूलों को भी एंगेज किया गया है, जिसमें खेल के मैदान के साथ ही पीटी व शारीरिक श्रम के घंटे अधिक किए जाने की बात कही गई है।

## इंडस्ट्री में 6 साल के अनुभवों का सांझा किया मौनी रॉय ने

अभिनेत्री मौनी रॉय के मनोरंजन इंडस्ट्री में 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। वे अपनी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का सेलिब्रेट कर रही हैं। मौनी ने इन वर्षों में इंडस्ट्री में हासिल किए अपने अनुभवों का सांझा किया है। मौनी ने इस दौरान न केवल स्क्रीन पर एक मजबूत उपस्थिति बनाई है, बल्कि टेलीविजन और फिल्मों के बीच सहजता से आगे बढ़ते हुए, अपनी एक अनूठी छवि भी स्थापित की है।

अपनी यात्रा पर विचार करते हुए, मौनी ने इंडस्ट्री के साथ आने वाली चुनौतियों और विकास को अपनाने के अपने अनुभव को सांझा किया। इंडस्ट्री ने मुझे धैर्य रखना सिखाया, उन्होंने स्वीकार किया कि सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन आत्म-विश्वास उनके विकास की कुंजी रही है। हालांकि मौनी ने अपने पूरे करियर में उतार-चढ़ाव दोनों देखे हैं, लेकिन वह एक अभिनेत्री के रूप में विकसित होने के लिए समर्पित हैं। उनका मानना है कि इस प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्री में सीखने और बढ़ने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने बताया, हर उद्योग में उतार-चढ़ाव आते हैं। जो मायने रखता है वह यह है कि हम अभिनेता के रूप में विकसित होते रहें और ऐसी कहानियां पेश करें जो दर्शकों से जुड़ें। यह उनके संकल्प दर्शाता है कि वह हमेशा सुधार और विकास की दिशा में काम करती रहेंगी, चाहे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों न हो।

छह साल पूरे करने पर, मौनी ने सिर्फ एक माध्यम या प्रारूप से परे देखने और भूमिकाओं और कहानियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर काम करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरा ध्यान हमेशा ऐसी भूमिकाएं चुनने पर रहता है जो सच में मुझसे जुड़ते हैं, चाहे वह किसी भी शैली में हो।

## थलपति 69 में नजर आएंगी पूजा हेगड़े

अपकमिंग फिल्म थलपति 69 में अभिनेत्री पूजा हेगड़े नजर आएंगी। हाल ही में पूजा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर चेन्नई में शूटिंग का एक दृश्य शेयर किया। उन्होंने अपने इस पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा, चेन्नई मॉर्निंग्स डे 16...। उन्होंने बताया कि उनके दिन की शुरुआत सुबह 6.30 बजे हुई।

इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल चेन्नई में चल रही है। अभिनेत्री इसमें थलपति विजय के साथ अभिनय करती नजर आएंगी। तमिल, तेलुगु और हिंदी सहित कई भाषाओं में अक्टूबर 2025 में रिलीज होने वाली फिल्म थलपति 69 विजय की विरासत को समर्पित होगी। फिल्म का निर्देशन एच. विनोद करेंगे और केवीएन प्रोडक्शंस के तहत वेंकट के. नारायण इसे प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर को पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। निर्माताओं ने कलाकारों और क्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। इस कार्यक्रम में कास्ट और क्रा की टीम शामिल हुई, जिसमें थलपति विजय, बांबी देओल और पूजा हेगड़े शामिल थे। थलपति 69 में फिल्म निर्माता-अभिनेता गौतम वासुदेव मेनन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि, अनुभवो अभिनेता प्रकाश राज और प्रेमलु की प्रसिद्ध अभिनेत्री ममिता बैजू भी हैं। इस बीच पूजा हेगड़े इसके अलावा अपकमिंग फिल्म देवा और सूर्या 44 में भी नजर आएंगी। रोशन एंड्रयूज द्वारा निर्देशित देवा में अभिनेत्री शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।



## मलाई मक्खन के बिना लखनऊ नहीं छोड़ सकती: तमन्ना भाटिया

आगामी प्रोजेक्ट सिकंदर का मुकद्दर को लेकर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया चर्चा में हैं। इतना ही नहीं, अभिनेत्री अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी सुर्खियों में हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में लखनऊ में मलाई मक्खन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। तमन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें वह कार की पिछली सीट पर बैठी नजर आ रही हैं। उनके पास एक प्लेट में मलाई मक्खन रखा हुआ है और वह इसे देखकर बेहद खुश नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, मलाई मक्खन के बिना लखनऊ नहीं छोड़ सकती। यह

पोस्ट लखनऊ के मशहूर और स्वादिष्ट व्यंजन के प्रति उनके प्यार को जाहिर करता है। बता दें कि मलाई मक्खन उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विशेष रूप से लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में खाया जाता है, जबकि दिल्ली में इसे दौलत की चाट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद, अभिनेत्री ने अपने आगामी प्रोजेक्ट सिकंदर का मुकद्दर के प्रचार के दौरान अपनी सुनहरी और सफेद रंग की पोशाक में कुछ तस्वीरें भी साझा की। इन तस्वीरों में तमन्ना बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आ रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, देखो हीरे नहीं हैं मेरे पास, मैं एक गोल्डन गर्ल हूँ। उनकी इस पोस्ट पर अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने उनकी तारीफ करते हुए कमेंट किया, अरे यहां तो आप हो। सिकंदर का मुकद्दर में तमन्ना भाटिया के साथ जिमी शेरगिल, अविनाश तिवारी, और राजीव मेहता भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाली है। फिल्म एक थ्रिलर है, जिसमें अपराध, जुनून और न्याय की खोज को दर्शाया गया है। यह जिमी शेरगिल और तमन्ना भाटिया की पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी है। इसके अलावा, तमन्ना के पास ओडेला 2 भी है, जो अशोक तेजा द्वारा निर्देशित एक आगामी प्रोजेक्ट है।



## पति की जैकेट में प्रियंका चोपड़ा ने ली सेल्फी

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती हैं, जहां वह अपने फैंस से जुड़े रहने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। हाल ही में, 'देसी गर्ल' ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपने पति निक जोनास की जैकेट पहने नजर आ रही हैं। प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, पति जैसी जैकेट वाली सुबह। इस तस्वीर में प्रियंका ब्लैक जैकेट में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं, और उनका ऑल ब्लैक लुक, जिसमें ब्लैक शूज और ट्राउजर भी शामिल हैं, बेहद आकर्षक था। प्रियंका ने अपनी लुक को पूरा करने के लिए एक टाइट पोनी बनाई और स्टाइलिश सेल्फी ली। इससे पहले, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह हेयर स्टाइल करवाती हुई नजर आ रही थीं। इसके साथ ही, प्रियंका ने एक और पोस्ट में कैप्शन लिखा, सूरज के साथ खेल रही हूँ, जिसमें उन्होंने अपने आगामी प्रोजेक्ट्स की झलक भी दी।

## नागार्जुन ने किया खुलासा

अभिनेता नागार्जुन ने हाल ही में अपने पिता अकिनेनी नागेश्वर राव (एनआर) की विरासत और उनके दृष्टिकोण पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि एनआर का सपना था कि तेलुगु सिनेमा को एक ऐसी ताकत बनाया जाए, जिसे हर कोई पहचाने। एनआर ने अन्नपूर्णा स्टूडियो की स्थापना की, जो आज भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद के रूप में काम करता है। नागार्जुन ने अपने पिता की दूरदर्शिता की सराहना की, जो मानते थे कि भाषा कभी भी सिनेमा के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। यह सोच उस समय के लिए काफी आगे की थी, नागार्जुन ने कहा। नागार्जुन ने यह भी साझा किया कि एनआर का सपना था कि तेलुगु सिनेमा को अखिल भारतीय पहचान मिले। जब खुशबू सुंदर ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पर सवाल किया, तो नागार्जुन ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के समर्थन से इस दृष्टिकोण को बचाए रखा है।

## ये काली काली आंखें का दूसरा सीजन

नेटफ्लिक्स की मोस्टअवेटेड वेब सीरीज ये काली काली आंखें का दूसरा सीजन अब दर्शकों के बीच आ चुका है, और इसने पहले सीजन की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है। सिद्धार्थ सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित इस सीजन में बेहतरीन कहानी, दमदार अभिनय और शानदार निर्देशन का समावेश है। हर एपिसोड में रोमांस, थ्रिल और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है, जो दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब होता है। सीरीज का दूसरा सीजन पहले सीजन की कहानी से ही आगे बढ़ता है।

## मानुषी ने आईएफएफआई में किया लाइव प्रदर्शन

हाल ही में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर मानुषी ने अपनी खुशी साझा की क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें मंच पर लाइव प्रदर्शन करते हुए देख रहे थे। अपने माता-पिता के साथ एक तस्वीर सहित कार्यक्रम के पलों को साझा करते हुए, उन्होंने लिखा, आईएफएफआई गोवा में भाग लेना और सभी फिल्मों का जश्न मनाना हमेशा खुशी की बात है। इस वर्ष मॉम एंड डैड के शामिल होने और मुझे मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई! मुझे वापस उन दिनों में ले गया, जब वे काम में व्यस्त होने के बावजूद मेरे स्कूल के सभी प्रदर्शनों में भाग लेते थे, मैं हमेशा उनके लिए छोटी लडकी रहूंगी। उन्होंने कुर्ची मदाथपट्टी, गुलाबी

साडी, आई नाइ और अन्य हिट गानों पर प्रस्तुति दी और अपने सिग्नेचर डांस मूव्स और आकर्षक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन टैक्स पर उनका प्रदर्शन किसी शानदार से कम नहीं था। हाल ही में, मानुषी ने सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाली क्लिप साझा करके अपने मिस वर्ल्ड ताजपोशी की 7वीं वर्षगांठ भी मनाई। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद से मानुषी ने न सिर्फ व्यूटी क्वीन बल्कि एक्ट्रेस के तौर पर भी भारत को गौरवान्वित किया है। जैसा कि वह जान अंब्राहम के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म तेहथान की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, मानुषी अपनी प्रतिभा और अनुग्रह से प्रेरित करना जारी रखती हैं।

## सान्या मल्होत्रा ने फिर साबित की अपनी योग्यता

फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर सान्या मल्होत्रा ने अपनी योग्यता साबित की है। इस फिल्म का प्रीमियर गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में हुआ था। मिसेज के प्रीमियर पर, सान्या को इस सामाजिक ड्रामा में उनके शक्तिशाली किरदार के लिए भारी तालियाँ से सराहना मिली।

समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मलयालम हिट द ग्रेट इंडियन किचन के रूपांतरण वाली इस फिल्म को दर्शकों से खूब सराहना मिली, जिसने सान्या को इंडस्ट्री की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। प्रतिक्रिया से अभिभूत होकर उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। उनके विचारोत्तेजक प्रदर्शन ने सामाजिक मानदंडों और लैंगिक भूमिकाओं पर विचार किया। पगलेट और कटहल में अपनी भूमिकाओं के लिए पहले ही प्रशंसा हासिल कर चुकी सान्या, प्रभावशाली कहानियों के साथ हमेशा खबर में रहती हैं। इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उनकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत और मिसेज की वैश्विक सफलता ने भारतीय सिनेमा में अग्रणी कलाकारों में से एक के रूप में उनका प्रतिष्ठ और मजबूत कर दिया है। मिसेज के अलावा, सान्या की आगामी परियोजनाओं में धर्मा प्रोडक्शंस की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, सह-कलाकार वरुण धवन, जान्हवी कपूर और रोहित सराफ साथ हैं, साथ ही अनुराग कश्यप के साथ एक बेनाम फिल्म शामिल है, जहां वह बाँबी देवल के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करती दिखेंगी।

## दर्शकों का 'द साबरमती रिपोर्ट' को मिल रहा बेहद प्यार

बालीवुड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को दर्शकों का बेहद प्यार मिल रहा है। साल 2002 में हुए गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित इस फिल्म को गुजरात और उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मैसी अभिनीत इस फिल्म में गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सच्चाई और तथ्यों को उजागर करने का दावा किया गया है। इसे दर्शकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म को प्रशासकों ने नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत राजनीतिक नेताओं का भी समर्थन मिला है। इससे पहले इसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में टैक्स-फ्री किया गया था। हाल ही में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी गुजरात में फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित किया और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में भी फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित किया, ताकि इस फिल्म को व्यापक दर्शक मिल सकें। 'साबरमती रिपोर्ट' साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। फिल्म में अभिनेता ने एक हिंदी पत्रकार की भूमिका निभाई है, जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है क्योंकि वह चाहता है कि रिपोर्ट में सच्चाई को शामिल किया जाए। इससे पहले फिल्म के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के सीएम के आधिकारिक हैंडल ने इंस्टाग्राम पर उनकी मुलाकात की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। गुजरात को मुख्यमंत्री योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग देखी और फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच को देख सकें और जान सकें।

इसलिए, इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री किया जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हर भारतीय को यह फिल्म देखना चाहिए और देश व समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं द साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वास्तविक सत्य को देश की जनता को फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखना चाहिए और सत्य के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन चेहरों को पहचानने के साथ-साथ उनका पर्दाफाश करने की भी आवश्यकता है। योगी ने कहा कि सभी को पता है कि साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से वापस जा रहे कारसेवकों के साथ गोधरा स्टेशन के बाद जो कुछ भी हुआ था, उस सच्चाई को झुठलाने का प्रयास हो रहा था। वह सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई को बहुत से लोग आज भी झुठलाते हैं। उन्हें एक्सपोज करने की आवश्यकता है।

## ब्रीफ न्यूज

सीहोर जिले के चकल्दी में तीन आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

सीहोर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सीहोर वृत्त के अंतर्गत रेहटी वितरण केन्द्र के चकल्दी मुख्यालय में शासकीय कार्य के दौरान बिजली कंपनी के कर्मचारी से अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने के आरोप में तीन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि राजकुमार जगते कंपनी के सीहोर वृत्त के अंतर्गत रेहटी वितरण केन्द्र के चकल्दी मुख्यालय में लाइन हेल्पर आउटसोर्स के पद पर पदस्थ हैं। यहां पर बिजलेंस की टीम द्वारा बिजली चेंकिंग का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान 66 हजार 982 रुपये बकाया राशि जमा नहीं करने के चलते छोटे-छोटे साहू के घर की लाइन काटी गई। इसके बाद छोटे लाल की दुकान की लाइन काटने गए थे। इस दौरान छोटे लाल, शुभम तथा रमेश साहू ने लाठी तथा डंडों से लाइन हेल्पर आउटसोर्स राजकुमार जगते पर हमला किया तथा गंदी गंदी गालियां देते हुए जातिसूचक शब्दों के साथ झुमाझुटा कर रहे लगे। इस घटना की जानकारी जब बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने घटना की एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

जिले के सभी जनपदों में रोजगार मेले का होगा आयोजन

सीहोर। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के सभी जनपदों में सिक्योरिटी गार्ड एवं सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक श्री दिनेश बरफा ने जानकारी दी कि एसएससीआई सिक्योरिटी स्किल काउंसिलिंग इंडिया लिमिटेड टीम द्वारा युवाओं की सिक्योरिटी गार्ड एवं सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि आठ जनपद पंचायत परिसर में 26 नवंबर को, आठ के ग्राम खामखेड़ा में 27 नवंबर को, ग्राम खड़ी हाट में 28 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार बुधनी जनपद पंचायत परिसर में 29 नवंबर, बुधनी के ग्राम मालीमाया प्रयाग केंद्र में 02 दिसंबर, बुधनी के शाहज शक्ति सीएलएफ में 03 दिसंबर, इछवर जनपद पंचायत परिसर में 04 दिसंबर, इछवर के ग्राम दीवाडिया में 05 दिसंबर, इछवर के ग्राम ब्रिजशानगर में 06 दिसंबर, भैरूदा जनपद पंचायत परिसर में 09 दिसंबर, ग्राम लाडकूड़ के शक्ति सीएलएफ 10 दिसंबर, ग्राम गोपालपुर प्रगति सीएलएफ में 11 दिसंबर, सीहोर जनपद पंचायत परिसर में 12 दिसंबर, दोगाहा वीर शिवाजी सीएलएफ में 13 तथा श्यामपुर के रानी लक्ष्मबाई सीएलएफ में 17 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को डिजिटल पेमेंट सुविधा से जोड़ा गया

हरदा। जिले की चारो नगरीय निकाय नगर पालिका हरदा, नगर परिषद टिमरनी, रिबरकिया एवं सिराली में स्वनिधि भी, स्वाभिमान भी पखवाडा अभियान के तहत 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन शिविरों में पी.एम. स्वनिधि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को डिजिटल पेमेंट सुविधा से जोड़ा जा रहा है।

## निर्देश

सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये

## बड़े भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर निरीक्षण करें

सत्ता सुधार ■ हरदा

सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण रूप से निरीक्षण करें। इसके साथ ही दूरस्थ ग्रामों में भ्रमण के दौरान अधिकारी अपने विभाग के कार्यालयों के साथ-साथ गांव के आंगनवाड़ी, छात्रावास, स्कूल, अस्पताल का जरूर निरीक्षण करें और वहां जो भी समस्या सामने आये, उसे जिला प्रशासन के ध्यान में लाएं ताकि निराकरण किया जा सके। यह निर्देश कलेक्टर आदित्य सिंह ने सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर सुशी रजनी वर्मा, डिप्टी



कलेक्टर संजीव नागू, एसडीएम हरदा कुमार शानु देवडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर सिंह ने बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये कि शहरी क्षेत्र में स्थित बड़े भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट पूर्ण कराएं। उन्होंने जिले के सभी सीएम राइज स्कूल, पीएम स्कूल भवनों का भी फायर सेफ्टी

ऑडिट कराने के निर्देश बैठक में दिये। बैठक में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से पिछले दिनों स्वीकृत सीएम राइज स्कूलों के लिये भूमि आवंटन के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने जिला संयोजक अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग को निर्देश दिये कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आयोजित हो रहे जनसमस्या

निवारण शिविरों में जनजातीय वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार संबंधी प्रकरण बिरसा मुण्ड स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत बनवाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड पंजीयन के वितरण के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि विभिन्न विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने उप संचालक कृषि को निर्देश दिये कि कृषि अधोसंरचना निधि योजना के तहत किसानों के कोल्ड स्टोरेज के प्रकरण बनवायें।

ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिये 27 को कायरी में लगेगा शिविर

हरदा। जिले के वनग्रामों में निवासरत ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा योजनाओं की जानकारी उन्हें देने के उद्देश्य से कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण तो किया ही जा रहा है साथ ही ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये आगे आएं। इसी क्रम में अगला शिविर 27 नवंबर को टिमरनी विकासखण्ड के वनग्राम कायरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कायरी के आसपास के ग्राम कायरी, डोंग, आम्बा, मन्नासा, बोधी व जवारवा के ग्रामीणजनों की समस्याएं सुनी जायेंगी।

प्रशिक्षु बालिकाओं का किया उत्साहवर्धन



सीहोर। बैंक ऑफ इंडिया स्टार श्यापुर प्रशिक्षण संस्थान सीहोर द्वारा ज्वेलरी उद्यमी का 13 दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम कुनस खुर्द में विगत 7 दिनों से संचालित हो रहा है। यह प्रशिक्षण ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार उन्मुख बनाने का उद्देश्य है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, जिला अग्रणी बैंक बैंक ऑफ इंडिया एवं जिला प्रशासन की ओर से यह प्रशिक्षण छात्राओं को निशुल्क दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह सदस्य परिवारों को प्रमुखता में यह प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया गया था

जिसके अंतर्गत 28 हितग्राहियों को आधुनिक निर्माण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के सातवें दिन रिविजनों का ग्राम पंचायत कुनस खुर्द के सरपंच प्रतिनिधि मनोज वर्मा और युवा समाजसेवी पंकज शर्मा प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे और प्रशिक्षण तालिकाओं का उत्साहवर्धन किया और ज्वेलरी प्रशिक्षण रचना चोहान, सलमा कुशरी, व्यापारिक प्रशिक्षक दिवक दिलवारिया एवं संस्था के निदेशक ओमप्रकाश प्रजापति का सम्मान किया और इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार एवं धन्यवाद भी व्यक्त किया।

जिले के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए

## 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का बनाएं आयुष्मान कार्ड: कलेक्टर



कलेक्टर श्री सिंह ने नेशनल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की समीक्षा के दौरान शेष भूस्वामियों को शीघ्र मुआवजा वितरण की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन तथा वनाधिकार पट्टों के डिजिटलाइजेशन, फौती नामांतरण, तथा धरती आभा अभियान के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में

एसपी दीपक कुमार शुक्ला वीसी के माध्यम से जुड़े। इसके साथ ही बैठक में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, जिला पंचायत प्रभारी सीईओ एवं संयुक्त कलेक्टर नितिन डाले, एसडीएम जमील खान, स्वाति मिश्रा, तन्मय वर्मा, डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुशवाह सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे। जिले के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी

वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। राजस्व महाभियान 3.0 के संबंध में निर्देश प्रदेश के साथ ही जिले में 15 नवंबर से 15 दिसम्बर तक राजस्व महाभियान 3.0 चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने टीएल बैठक के दौरान राजस्व महा-अभियान 3.0 में राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को राजस्व न्यायालयों में दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैच्युरेशन, आधार का आरओआर से लिंकिंग, फामर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। समय-समया पर कर चुके नामांतरण प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए नवीन दर्ज प्रकरणों का भी समय-समया में निराकरण

करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तराधिकार नामांतरण के अंतगत्त ग्राम के पटवारी द्वारा बी-1 का वाचन कराया जाकर ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके अनुसार प्रकरण दर्ज कर फौती नामांतरण की कार्रवाई जाए। इसी प्रकार बंटवारा प्रकरणों के लंबित प्रकरणों का निराकरण और नवीन दर्ज प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व महा-अभियान 3.0 में 6 माह की अवधि से लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण भी सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व महा-अभियान 3.0 में आरसीएमएस पर दर्ज लंबित सीमांकन प्रकरणों का त्वरित निराकरण और नवीन प्रकरणों को दर्ज कर निराकृत करें।

विश्व हिन्दू परिषद मध्य भारत प्रांत

सामाजिक समरसता संत यात्रा

पहुँची इछावर जात-पात की करो

विदाई हिंदू-हिंदू भाई-भाई

सीहोर। विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत सामाजिक समरसता संत यात्रा सिहोर जिले के आज इछावर प्रखंड में सभा में संत श्री महंत विष्णु दास महाराज सनिध्य में समाज के लोगो का मार्गदर्शन किया विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत सहमंत्री गोपाल सोनी कपिल शर्मा राजगड विभाग मंत्री, की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तावना मधुकर राव देवहारे जी द्वारा रखी गई। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता प्रांत प्रमुख माननीय सुनील जी यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे व सभी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व नगर के संत राजेंद्र शर्मा, प्रशांत शर्मा, आनंद शुक्ला, रघु से विष्णु प्रसाद गुप्ता, ब्रज किशोर व्यास, सोनू वर्मा सभी सानतनीय प्रेमीयों ने धर्म सभा में अपनी उपस्थिति दी।

विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर

## उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरिया के नवीन भवन का हुआ लोकार्पण



सत्ता सुधार ■ दमोह  
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरिया के नवीन भवन का लोकार्पण विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान दिल्ली के महामंत्री अवनीश जी भट्टनागर एवं महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री अमित दवे तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल तथा नगर परिषद पथरिया के अध्यक्ष श्री सुंदरलाल विश्वकर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस पूरे

कार्यक्रम में पुराने विद्यालय भवन से नवीन विद्यालय भवन तक एक कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें विद्यालय की सभी दीदीया एवं बहिन सिर पर कलश रखकर पीत वस्त्र धारण किए हुए राम दरवार की झंकी को बगगी में बैठल कर नगर भ्रमण करते हुए नवीन विद्यालय भवन में पहुंचकर मुख्य अतिथि अवनीश द्वारा नवीन विद्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर दीप प्रज्वलित कर विधिवत स्वस्ति वाचन मंत्र के उच्चारण के साथ उद्घाटन संपन्न किया।

स्कूल एक्सपोजे बंगलुरु के लिए चयनित विद्यार्थी

सिराली। सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के 9वीं के विद्यार्थी जिज्ञान अमजद खान का बनाया माडल भोपालस्तर की स्कूल एक्सपोजे में तृतीय स्थान पर रहा। जिज्ञान ने वर्षों होने से पहले संकेत देने वाला माडल बनाया जिसका उसने बेहतर प्रस्तुतिकरण किया इसके बाद माडल को बंगलोर में होने वाले स्कूल एक्सपोजे में प्रदर्शित किया जायेगा। इसके पहले जिलास्तर पर हुए स्कूल एक्सपोजे में जिज्ञान द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया और माडल का चयन बंगलोर के लिए होने पर टिमरनी-सिराली विधायक युवराज अभिजीत शाह एवं ग्राम पंचायत खुदिया सरपंच युवराज राहुल शाह द्वारा सिराली पहुंचकर जिज्ञान को पुष्पमाला पहनाकर विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य हेतु कामना की गई। इस मौके पर नगर कांग्रेसध्यक्ष रमेश मालवीय, पत्रकार गोलू मसूरी, शेख असलम, सचिव बरैटा, दिनेश नामदेव, पालकों सहित अनेक स्थानीय नागरीक मौजूद रहे।

अभा कोरी कोली समाज जिला शाखा सीहोर की बैठक

## वीरांगना झलकारी बाई कोरी की जन्म जयंती उत्साह के साथ मनाई जावेगी

सत्ता सुधार ■ सीहोर  
अखिल भारतीय कोरी कोली समाज की जिला इकाई सीहोर की बैठक आयोजित हुई। जिसमें स्वाजातीय बन्धु उपस्थित रहे। बैठक में वीरांगना झलकारी बाई कोरी की जन्म जयंती दिनांक 30 नवंबर 2024, दिन शनिवार को सुबह 9-30 बजे से प्रारंभ स्थानीय कोली मोहल्ला गंज जिला मुख्यालय सीहोर पर वीरांगना झलकारी बाई कोरी की जन्म जयंती एक उत्सव के रूप में मनाये जाने हेतु अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये। बैठक में सर्व सहमति से कार्यक्रम प्रमुख संयोजक आर.आर.शाक्य, प्रदेश



सचिव रिटायर्ड इंजीनियर, कार्यक्रम सहसंयोजक संतोष शाक्य पार्षद सीहोर, कार्यक्रम अध्यक्ष बालकिशन शाक्य जिला अध्यक्ष सीहोर, कार्यक्रम महिला अध्यक्ष सीमा धनवंती शाक्य, कार्यक्रम प्रभारी नंदकिशोर महावर जिला महामंत्री सीहोर, कार्यक्रम

## राज्य के सरपंचों ने बिना नाराजगी जताये उस निर्णय के साथ अपनी सहभागिता की है, उनके संयम के कारण 2 लाख 48 हजार अधूरे काम पूरे हुये: पटेल

सत्ता सुधार ■ दमोह  
चार महीने मनरेगा के काम पूरे राज्य में रोके थे, राज्य के सरपंचों ने बिना नाराजगी जताये, उस निर्णय के साथ अपनी सहभागिता की है, इसके लिए मैं सभी सरपंचों को धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके संयम के कारण 2 लाख 48 हजार अधूरे काम पूरे हुए हैं, अभी भी कुछ काम बाकी है लेकिन अभी ठीक 20 दिन पहले खेत सड़क, खेत तालाब और ग्रैवल रोड के काम खोले हैं, जिनका रेश्यो जिले में तय होता था, वह ब्लॉक में होगा, यदि कोई ब्लॉक अच्छा काम कर रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे, जिनका रेश्यो ठीक है, उनको 3 करोड़ रुपये और जिनका रेश्यो ठीक नहीं भी होगा, एक करोड़ रुपये उनके खते में जाएगा। मेरा आग्रह यही है कि पैसे का सदुपयोग हो और हम ऐसी परिस्थितियां बनाएं। इस आशय के विचार पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने आज दमोह भ्रमण के दौरान सर्किट हाऊस पर मीडियजनों से चर्चा करते हुये



जो पंचायत भवन बनेगा उसके ऊपर दो मंजिल और जा सकती है, यदि 25 साल 30 साल बाद जरूरत पड़ती है, तो उसके ऊपर बना सकते हैं, वह डिजाइन का हिस्सा है, अभी निर्णय करना बाकी है। मेरी इच्छा है कि अटल जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर को है, हम उस दिन उन सभी का एक साथ भूमि पूजन करें और जो अगला 2025 का 25 दिसंबर आएगा, उसमें हम पहली

व्यक्त किये। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा दूसरा बड़ा फैसला है लगभग 1250 नये पंचायत भवन बनाना है, उसकी हमने डिजाइन भी बतली है, अब

ग्राम सभा वहां पर आहूत करें और साथ में उन भवनों का नाम भी रखने का सोच रहे हैं, तो यह भी एक नया प्रयोग है। उन्होंने कहा ढाई साल बाद पंचायत के चुनाव होंगे, ऐसी कोई पंचायत नहीं होनी चाहिए जहां पंचायत भवन न हो, यदि जर्जर है तो आगामी 4 महीने में डिस्मंटल करने की सूची जारी करेंगे, सरपंच उन्हें मिटाएं उनकी जगह पर नया भवन बनाएं। अभी जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष तक की कॉन्फ्रेंस की है, अब संभाग के अंदर आधे दिन सरपंचों का और आधे दिन जनपद सदस्यों का, यह मुझे संभावना करना है, इसी ठंड के बीच में इन कार्यक्रमों को करूंगा, क्योंकि संवाद से लाभ हुआ है, बातचीत में हम एक दूसरे की सुनते हैं, जो मेदान पर काम करने वाला है वह सरपंच है, उसको बहुत सारी छोटी-छोटी बातों का सामना करना पड़ता है, उनके जो सुझाव आएंगे वह सरकार मानेगी।

## बीफ न्यूज

रुपया छह पैसे की बढ़त के साथ 84.35 डॉलर पर नई दिल्ली।

घरेलू शेयर बाजारों के मजबूत रुख के बीच रुपया

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शुरूआती कारोबार में

छह पैसे मजबूत होकर 84.35 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा

कारोबारियों ने बताया कि डॉलर सूचकांक के ऊंचे स्तर तथा

रूस-यूक्रेन संघर्ष के बढ़ने से पिछले सप्ताह कच्चे तेल की

कीमतों में करीब पांच प्रतिशत की वृद्धि जैसे कारक अमेरिकी

डॉलर, भारतीय मुद्रा की जोड़ी के लिए बड़ी बाधाएं हैं। अंतरबैंक

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 84.38 प्रति डॉलर पर

खुला और फिर 84.35 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद

भाव के मुकाबले छह पैसे की बढ़त दर्शाता है। इस बीच छह

प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को

दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ

106.93 पर रहा। सोलरवर्ल्ड एनर्जी ने

आईपीओ से पहले जुटाए 110 करोड़

नई दिल्ली। सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस ने वैल्यूक्रेट

इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स सहित कई निवेशकों से आईपीओ से पहले

करीब 110 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसके साथ ही कंपनी के

निर्धारित आईपीओ के नए निर्गम घटक को पहले अनुमानित 550

करोड़ रुपये से घटकर 440 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सौर

ऊर्जा समाधान प्रदाता ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक घोषणा में कहा

कि उसने हाल ही में निवेशकों को 352.05 रुपये प्रति शेयर के भाव

पर 31.24 लाख शेयर आवंटित किए हैं, जिससे लेनदेन का कुल

आकार 109.99 करोड़ रुपये हो गया। सोलरवर्ल्ड एनर्जी

सॉल्यूशंस सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए

इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है।

अदाणी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों में से नौ के शेयरों में तेजी

नई दिल्ली। अदाणी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों में से नौ के शेयरों में सोमवार को

शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के

शेयर में करीब सात प्रतिशत की तेजी आई। बीएसई पर अदाणी

एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में 6.89 प्रतिशत, अदाणी ग्रीन

एनर्जी में 6.42 प्रतिशत, अदाणी टोटल गैस में 5.33 प्रतिशत, अदाणी पोर्ट्स में 4.64 प्रतिशत

और अदाणी पावर में 4.17 प्रतिशत की तेजी आई। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर चार

प्रतिशत, अदाणी विल्मर के 3.23 प्रतिशत, एसीसी के तीन प्रतिशत और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर

2.71 प्रतिशत चढ़े। गौरतलब है कि समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर सहित

सात अन्य लोगों के खिलाफ अमेरिका में 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कथित रिश्वतखोरी की साजिश रचने का

हिस्सा होने के आरोप में अभियोग लगाए जाने के बाद विदेशों से धन जुटाने की इसकी क्षमता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। कुछ वैश्विक बैंक और

वित्तीय संस्थान कथित तौर पर समूह को नए ऋण देने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं।

एचडीएफसी बैंक को सबसे अधिक फायदा, नुकसान में रही मुकेश अंबानी की रिलायंस

# आठ शीर्ष कंपनियों की बाजार पूंजी 1,55,603.45 करोड़ रुपये बढ़ी

एजेंसी ■ नई दिल्ली

बीते सप्ताह बीएसई का सेंसेक्स 1,536.8 अंक या 1.98 प्रतिशत के

लाभ में रहा। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 374.55 अंक या 1.59 प्रतिशत चढ़

गया। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स की 10 शीर्ष कंपनियों में से आठ के मार्केट कैप में

1,55,603.45 करोड़ रुपये का उछाल आया। एचडीएफसी बैंक और टाटा

कंसल्टेंसी सर्विसेज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय जीवन बीमा निगम की

बाजार पूंजी घटी। समीक्षाधीन सप्ताह में एचडीएफसी बैंक की बाजार पूंजी 40,392.91 करोड़ रुपये बढ़कर

13,34,418.14 करोड़ रुपये हो गई। टीसीएस की बाजार हैसियत



36,036.15 करोड़ रुपये बढ़कर 15,36,149.51 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 16,266.54 करोड़ रुपये बढ़कर

9,01,866.22 करोड़ रुपये पर और इन्फोसिस का 16,189.33 करोड़ रुपये बढ़कर 7,90,151.83 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हिंदुस्तान यूनिटीवर के बाजार

पूंजीकरण में 13,239.95 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 5,74,569.05 करोड़ रुपये रहा। आईटीसी की बाजार हैसियत 11,508.91 करोड़ रुपये बढ़कर

5,94,272.93 करोड़ रुपये हो गई। भारती एयरटेल का मूल्यांकन 11,260.11 करोड़ रुपये बढ़कर

8,94,068.84 करोड़ रुपये पर और भारतीय स्टेट बैंक की बाजार पूंजी 10,709.55 करोड़ रुपये बढ़कर

7,28,293.62 करोड़ रुपये रही। वहीं एलआईसी का मूल्यांकन 11,954.24 करोड़ रुपये घटकर

5,62,545.30 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 2,368.16 करोड़ रुपये घटकर

17,13,130.75 करोड़ रुपये रही। टॉप 10 कंपनियों की सूची में

# मशहूर उद्योगपति एलन मस्क इतिहास में अब तक के सबसे अमीर शख्स हुए

334.3 अरब डॉलर की संपत्ति के हो गए हैं मालिक

एजेंसी ■ नई दिल्ली

राजा-महाराजाओं को पीछे छोड़ते हुए मशहूर उद्योगपति एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हो गए हैं। अमेरिका की टेस्ला के

सीईओ एलन मस्क ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। एलन मस्क इतिहास में अब तक के सबसे अमीर शख्स हो गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार, वह अब 334.3 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हो गए हैं। एलन मस्क की नेटवर्थ में तेजी का कारण टेस्ला के शेयरों में आया

तगड़ उछल रहा है। माना जा रहा है कि यूएस के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई ऐसी नीतियां लागू करेंगे जो व्यवसायियों को समर्थन देंगी। यह बात जगजाहिर है कि ट्रंप और मस्क के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। इसलिए बाजार को उम्मीद है कि उन नीतियों का सीधा प्रभाव टेस्ला पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। इसी उम्मीद में टेस्ला के शेयरों में रैली देखी जा रही है। टेस्ला के शेयर यूएस में राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत से अब तक 40



फीसदी तक चढ़ चुके हैं। इसमें शुक्रवार को शेयरों में आया 3.8 फीसदी का उछाल भी शामिल है। शुक्रवार को टेस्ला के शेयर 352.56 डॉलर पर पहुंच गए। यह टेस्ला के स्टॉक्स की 3 साल की सर्वाधिक वैल्यू है। नतीजतन, मस्क की वैल्यू में 7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और उनकी नेटवर्थ 320.3 अरब डॉलर से आगे निकल गई। नवंबर 2021 में उनकी नेटवर्थ 320 अरब डॉलर

हुई थी जो इससे पहले तक उनकी सर्वाधिक नेटवर्थ थी। मस्क की नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला में उनकी 13 फीसदी हिस्सेदारी और 9 फीसदी इकट्टी अर्बोर्ड की वजह से आता है। मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर ट्रंप का समर्थन किया। ट्रंप के कैम्प में 10 करोड़ डॉलर का योगदान भी दिया। ट्रंप से मस्क की दोस्ती के कारण उनमें निवेशकों का विश्वास और बढ़ गया। मस्क को नए बने विभाग

डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का चेयरमैन बनाया गया है। इस पद को बायोटेक उद्योगी विवेक रामास्वामी के साथ साझा करेंगे। मस्क की संपत्ति में उनकी अन्य कंपनियों का भी बड़ा योगदान है। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्स एआई में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 50 डॉलर अरब है और इससे उनकी नेटवर्थ में 13 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।

अमेरिकी चुनाव के परिणाम ने बढ़ाई बिटकॉइन की चमक

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद दुनिया भर में क्रिप्टोकॉरेंसी बिटकॉइन की चर्चा में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से ही बिटकॉइन की कीमत में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। साल 2011 को जब बिटकॉइन की कीमत केवल 1 डॉलर थी, यह क्रिप्टोकॉरेंसी से जुड़ने वाले एक निवेशक ने सिर्फ 100 रुपये निवेश किए थे, जिसका वर्तमान मूल्य लगभग 1.65 करोड़ रुपये है 7 बिटकॉइन का सफर साल 2009 में शुरू हुआ था और आज साल 2024 में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। 24 नवंबर को बिटकॉइन की कीमत 97,654.9 डॉलर थी। इस चौकाने वाली बढ़ोतरी के साथ बिटकॉइन ने महामारी के समय में भी दिखाया कि यह एक सुरक्षित निवेश हो सकता है।

# देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई

ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़त के साथ 75.14 डॉलर प्रति बैरल

एजेंसी ■ नई दिल्ली

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से सोमवार को देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को सुबह जारी रेट में बदलाव किया है और दिल्ली के आसपास के शहरों में भी भाव बदल गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जहां तेल के दाम बढ़े हैं तो पास के गाजियाबाद और गुरुग्राम जिले में तेल सस्ता हो गया है। हालांकि, दिल्ली सहित देश के चारों महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के गौतमबुद्ध नगर में पेट्रोल 11 पैसे महंगा होकर 94.98 रुपये लीटर बिक रहा है। डीजल भी 12 पैसे चढ़ा और 88.13 रुपये लीटर पहुंच गया है। गाजियाबाद में पेट्रोल 12 पैसे गिरकर 94.53 रुपये



लीटर हो गया तो डीजल 14 पैसे टूटकर 87.61 रुपये लीटर बिक रहा है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 15 पैसे सस्ता हो गया और 95.02 रुपये लीटर बिक रहा, जबकि डीजल 14 पैसे फिसलकर 87.88 रुपये लीटर हो गया है। कच्चे तेल की बात करें तो बीते 24 घंटे में इसकी कीमतों में भी मामूली बदलाव हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़त के साथ 75.14 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है।

डब्ल्यूटीआई भी थोड़ा चढ़कर 71.23 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 96.65 रुपये और डीजल 89.82 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है।

नेपाल का व्यापार घाटा 460 अरब के पार


काठमांडू। नेपाल का व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह में 460 अरब रुपये से अधिक हो गया है। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार नेपाल ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान 513.38 अरब रुपये के सामान का आयात किया, जबकि निर्यात केवल 52.67 अरब रुपये तक ही रहा। विभाग के अनुसार नेपाल ने चार महीनों में कुल 566.5 अरब रुपये के विदेशी व्यापार में 460.71 अरब रुपये का व्यापार घाटा देखा। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में आयात 0.17 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निर्यात में 4.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में नेपाल का भारत के साथ व्यापार घाटा 281 अरब रुपये को पार कर गया है। इस अवधि के दौरान नेपाल ने भारत से करीब 317 अरब रुपये का सामान आयात किया, जबकि उसने भारत को सिर्फ 36 अरब रुपये का सामान निर्यात किया।

# अदाणी समूह ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के वित्तीय और ऋण विवरण जारी किए

अदाणी समूह की कंपनियों ने बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा तक के कारोबार में निवेश को बढ़ावा दिया

एजेंसी ■ नई दिल्ली

गौतम अदाणी के समूह ने निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के वित्तीय और ऋण विवरण जारी किए। इस घोषणा के माध्यम से कंपनी ने अपने मजबूत मुनाफे और नकदी प्रवाह की बढ़त को दर्शाया। अदाणी समूह के कंपनियों ने बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा तक के कारोबार में निवेश को बढ़ावा दिया है। कंपनी के अनुसार वे अब अपनी विकास की गति को बनाए रख सकते हैं बिना ऋण पर निर्भर होने की दृष्टिकोण। हाल ही में गौतम अदाणी और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अदालत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। समूह की कुल संपत्ति में इकट्टी का योगदान करीब दो तिहाई है, जो पांच साल



पहले की तुलना में काफी अलग है। समूह ने पिछले 12 महीनों में करीब 75,227 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि कुल कर्ज में सिर्फ 16,882 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। अदाणी समूह ने अपने निवेशकों के साथ एक नोट भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि वे कम से कम 12 महीनों के लिए सभी ऋण सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता रखते हैं।

अदाणी समूह की लिक्विडिटी से जुड़े एक नोट में कहा गया है कि उनके पास 53,024 करोड़ रुपये की नकदी है, जो इसके कुल सकल बकाया ऋण का 21 प्रतिशत है। समूह ने अगले 10 वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की योजना बनाई है और उनकी लाभदायकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए धारिता की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

## आदेश

# धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति के खाते से गायब हुए 2.6 लाख वापस करे बैंक: हाईकोर्ट



एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया है कि वह साइबर धोखाधड़ी के शिकार 55 वर्षीय व्यक्ति के खाते से गायब हुए 2.6 लाख रुपये वापस करे। यह मामला 2021 में सामने आया था, जब याचिकाकर्ता एक फिशिंग और विशिंग हमले का शिकार हुआ। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि बैंक उक्त राशि पर 9 फीसदी वार्षिक ब्याज और हर्जाने के रूप में याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का भुगतान करे। न्यायमूर्ति धर्मेरा शर्मा ने अपने फैसले में भारतीय स्टेट बैंक को स्पष्ट सेवा कमी का दोषी ठहराया।

उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी की सूचना मिलने के बावजूद बैंक की प्रतिक्रिया धीली, दोषपूर्ण और समय पर नहीं थी। अदालत ने कहा कि बैंक को ग्राहक के साथ एजेंट की तरह व्यवहार करते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और धोखाधड़ी का पता लगते ही तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने अपराधियों के साथ कोई ओटीपी साझा नहीं किया था, फिर भी उसके खाते से राशि निकाल ली गई। न्यायमूर्ति ने कहा कि बैंक ने संदिग्ध खातों को चांजबैंक, पुनर्प्राप्ति या फ्रीज करने जैसे कदम उठाने में

लापरवाही बरती। अदालत ने विशेष रूप से एसबीआई का आलोचना करते हुए कहा कि उसने आईडीएफसी बैंक और वन97 कम्युनिकेशन में रखे गए खातों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने कहा कि ग्राहक सेवा किसी भी बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर धोखाधड़ी के मामलों में। इस मामले में बैंक का रवैया गंभीर रूप से असंतोषजनक और गंभीर सेवा कमी का उदाहरण था। अदालत के इस आदेश से साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों को न्याय पाने की उम्मीद जगी है।

लापरवाही बरती। अदालत ने विशेष रूप से एसबीआई का आलोचना करते हुए कहा कि उसने आईडीएफसी बैंक और वन97 कम्युनिकेशन में रखे गए खातों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने कहा कि ग्राहक सेवा किसी भी बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर धोखाधड़ी के मामलों में। इस मामले में बैंक का रवैया गंभीर रूप से असंतोषजनक और गंभीर सेवा कमी का उदाहरण था। अदालत के इस आदेश से साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों को न्याय पाने की उम्मीद जगी है।

लापरवाही बरती। अदालत ने विशेष रूप से एसबीआई का आलोचना करते हुए कहा कि उसने आईडीएफसी बैंक और वन97 कम्युनिकेशन में रखे गए खातों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने कहा कि ग्राहक सेवा किसी भी बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर धोखाधड़ी के मामलों में। इस मामले में बैंक का रवैया गंभीर रूप से असंतोषजनक और गंभीर सेवा कमी का उदाहरण था। अदालत के इस आदेश से साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों को न्याय पाने की उम्मीद जगी है।

# रिलायंस के रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार

एजेंसी ■ नई दिल्ली

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मजोर रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार दिखने लगा है। बता दें कि आरआईएल के खराब प्रदर्शन की एक वजह कमजोर रिफाइनिंग मार्जिन को माना जा रहा था। यह बात ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि खुदरा कारोबार की कमजोर आय वृद्धि के बारे में अनुमान आगामी मुश्किल है। रिलायंस का शेयर आठ जुलाई के अपने उच्चतम स्तर से 22 प्रतिशत नीचे है। ऐसे बाजार में जहां ज्यादातर शेयर ऐतिहासिक

मूल्यांकन से काफी ऊपर कारोबार कर रहे हैं, रिलायंस का शेयर काफी नुकसान में लग रहा है। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी के तीन मुख्य कारोबार तेल शोधन और पेट्रोरसायन, खुदरा और दूरसंचार हैं। इसमें खुदरा कारोबार और दूरसंचार कारोबार की कुल आय में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में लगभग सभी ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पूर्व की शुद्ध कमाई (एबीटा) में वृद्धि इन दोनों कारोबार से ही आएगी।

# कृषि उपसंचालक का बयान, पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध तो फिर 2 महीने से किसान क्यों परेशान ?

सोमवार को फिर एक बार धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बीच पूरी रात लाइन में खड़े रहे किसान

सत्ता सुधार ■ मुरैना

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग पिछले दो महीने में जिले के किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराने में पूरी तरह फेल साबित हुआ है और अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने लोगों को टोकन देकर उपलब्ध करने में लगे रहे तथा अभी भी यह खेल चल रहा है। कृषि विभाग के उपसंचालक एक बार फिर डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके इस दावे की पोल वितरण केंद्र पर लगी किसानों की भीड़ खोल रही है। कृषि विभाग के उपसंचालक पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने की बात कर रहे हैं तो फिर पिछले दो महीने से लगातार यह स्थिति क्यों बन रही है, इसकी पड़ताल कौन करेगा। कृषि मंत्री के गृह जिले में पिछले दो माह से यह हालात बने हुए हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन व्यवस्था को



बनाने में नाकामयाब साबित हुआ है।

इस समय गेहूं की बोबनी को लेकर जिले भर का किसान चिंतित है। डीएपी खाद की

कमी के कारण किसान परेशान है और पूरा परिवार डीएपी के लिए दिन-रात लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन कृषि मंत्री जिला प्रशासन एवं

कृषि विभाग के अधिकारियों को कोई चिंता किसानों की नहीं है। पिछले दो महीने से देखने में आ रहा है कि किसान रात्रि 2:00 बजे से

लेकर देर दोपहर तक लाइन में टोकन के लिए खड़ा है और फिर उसके बाद डीएपी खाद प्राप्त करने के लिए मशकत कर रहा है। किसान तो किसान उनकी बीबी बच्चे भी लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। सोमवार को भी खाद वितरण केंद्र पर भारी संख्या में किसानों की लाइन लगी हुई थी और जमकर धक्का मुक्की और अफरा-तफरी मच रही थी, लेकिन अधिकारी एवं पुलिस बल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसान वितरण केंद्र पर हंगामा मचाते रहे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी किसानों की सुनवाई करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा।

सूत्र बताते हैं कि कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी नेताओं एवं अपने परिचितों को टोकन देकर डीएपी खाद उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि आम किसान टोकन और खाद के लिए मारा-

कृषि विभाग के उपसंचालक का कहना है कि

जिले में वर्ष 2024-25 की स्थिति में रबी फसल के लिये खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2024-25 के लिये 54 हजार 239 मैट्रिक टन खाद प्राप्त हुआ, जिसमें 22 नवंबर 2024 की स्थिति में अभी तक 43 हजार 101 मैट्रिक टन खाद का वितरण हो चुका है। अभी भी जिले के स्टॉक में 11 हजार 138 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है।

मारा फिर रहा है। जिले भर में अधिकारी एवं कर्मचारी किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो वहीं डीएपी खाद की कालाबाजारी भी चरम सीमा पर चल रही है। मुरैना का जिला प्रशासन पिछले दो महीने में डीएपी खाद की व्यवस्था बनाने में पूरी तरह फेल साबित हुआ है।

## डीएपी न्यूज

सड़क दुर्घटना में मृतक के

वारिसान को 15 हजार

रूपये की आर्थिक सहायता

मुरैना। मुरैना गांव का पुरा तहसील

मुरैना निवासी कायब पुत्र बनिा

की विगत 18 अप्रैल, 2024 को

सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

तहसीलदार मुरैना के प्रतिवेदन के

आधार पर कलेक्टर ने मृतक के

वारिसान बनिा पुत्र मनफूल को

15 हजार रूपये की आर्थिक

सहायता स्वीकृत कर बैंक ऑफ

इंडिया में ट्रांसफर कर दी गई है।

75 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान

दिवस 26 नवम्बर को

मुरैना। मुख्य कार्यपालन

अधिकारी जिला पंचायत डॉ.

इच्छित गढ़पाले ने बैठक के दौरान

समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये

है कि संविधान को अपनाये जाने

के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान

दिवस 26 नवम्बर को मनाया

जाये। जिसमें शपथ का आयोजन

सभी कार्यालयों, जनपद, पंचायत,

विद्यालय, महाविद्यालय, स्वशासी

संस्थाओं में शपथ का आयोजन

किया जाये। शपथ के दौरान फोटो

भी अपलोड किये जायें।

आबकारी एक्ट में जप्त 15

वाहनों को राजसात करने

के लिए नोटिस जारी

मुरैना। जिले के थानों में आबकारी

एक्ट में जप्त किए गए वाहनों के

निराकरण हेतु उन्हें राजसात करने

के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा

कलेक्टर को प्रस्ताव दिया गया,

जिस पर से कार्यवाही आरंभ कर

दी गई है और 15 वाहन मालिकों

को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला

मुरैना के विभिन्न पुलिस थानों में

जसशुदा वाहनों के निराकरण के

लिए विशेष अभियान संचालित

किया जा रहा है। उक्त अभियान के

तारतम्य में जिला मुरैना में धारा

34(2) आबकारी एक्ट के तहत

जसशुदा वाहनों को शासन हित में

राजसात कराए जाने संबंधी

प्रस्ताव प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक

समीर सौरभ द्वारा कलेक्टर एवं

जिला दंडाधिकारी मुरैना की ओर

प्रेषित किए गए। उक्त प्रस्तावों पर

कलेक्टर मुरैना द्वारा कार्यवाही

प्रारंभ करते हुए 34(2)

आबकारी एक्ट में जसशुदा वाहनों

12 चार पहिया, 02 दो पहिया एवं

01 ऑटो को शासन हित में

राजसात किये जाने हेतु संबंधित

वाहन स्वामियों के विरुद्ध कारण

दिनाओ नोटिस जारी कर नियत

दिनांक तक उत्तर प्रेषित किये जाने

हेतु निर्देशित किया गया।

कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष

ने ब्लॉक अध्यक्ष व कार्यकारी

अध्यक्ष किट्टे नियुक्त

मुरैना। मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल

के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव के

निर्देशानुसार मुरैना जिला अध्यक्ष

कांग्रेस सेवादल प्रदीप रजक ने

संगठन और पार्टी को और अधिक

सशक्त व मजबूत बनाने के लिए

कांग्रेस सेवादल के ब्लॉक अध्यक्ष

व कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए

हैं। जिला अध्यक्ष प्रदीप रजक ने

जानकारी देते हुए बताया है कि

मोहब्बत हुसैन को सुमावली

ब्लॉक, गोपाल कुशवाह को

सरायछौला ब्लॉक, महेश शर्मा

बागचीनी ब्लॉक, पवन पाराशर को

जौरा ब्लॉक, राजवीर यादव को

जिगनी ब्लॉक एवं राहुल कुमार

बंसल को जौगनी कार्यकारी ब्लॉक

अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है।

प्रदीप ने कहा कि कार्यकारिणी का

गठन करने से संगठन को एक नई

ऊर्जा और मजबूती मिलेगी तथा

कांग्रेस पार्टी की विचारधारा

जनदुजन तक पहुंचेगी।

# बरवासिन घाट बंद होने के बाद रेत माफिया का चंबल राजघाट पर लगा रेला

सत्ता सुधार ■ मुरैना

चंबल नदी के राजघाट से खुलेआम रेत माफिया सोमवार की सुबह से ही रेत का उत्खनन करने ऐतिहासिक संख्या में पहुंच गया, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। चंबल राजघाट पर लगभग 1000 ट्रेक्टर-ट्रॉली के माध्यम से रेत माफिया रेत का उत्खनन कर रहे थे, जिसके वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और प्रशासन, पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को चिढ़ा रहे हैं। अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी रेत माफियाओं की ऊंची पहुंच के कारण कोई भी उन पर हाथ डालने में कतरा रहा है।

सूत्र बताते हैं कि इस समय बरवासिन घाट बंद होने के बाद सोमवार की सुबह पहली बार चंबल राजघाट पुल के पास चंबल नदी के किनारे रेत माफिया का रेला देखने को मिला। वहां देखने पर लाइन से ट्रेक्टर-ट्रॉली लगे हुए थे और नदी से रेत का उत्खनन चल रहा था। यह दृश्य जब जागरूक लोगों ने देखा तो फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। हालांकि कुछ लोगों ने चंबल राजघाट से रेत के अवैध उत्खनन



1000 ट्रेक्टर-ट्रॉली से हो रहा उत्खनन, जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस ठंड में कंबल ओढ़कर सोया

की सूचना प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को भी दी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बताया जाता है कि वन विभाग की गश्ती टीम भी पर्याप्त संसाधन और पुलिस बल न होने के कारण कार्रवाई करने में अक्षम महसूस कर रही है। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन का सिलसिला पिछले दो दशक से भी अधिक समय से चल रहा है, जिसे रोका नहीं गया है। बरसों पूर्व कुछ

बहादुर अधिकारियों द्वारा रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन रेत माफियाओं ने बुलंद हौसलों के साथ प्रशासन एवं पुलिस का सामना किया। रेत व पत्थर माफिया के कारण कई पुलिस कर्मचारी एवं एक आईपीएस अधिकारी की मौत हो चुकी है। एक बार तो तत्कालीन कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पर माफिया द्वारा जमकर फायरिंग की गई थी।

वर्तमान में जिला प्रशासन एवं पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है और रेत माफिया पर कार्यवाही के लिए कोई योजना उनके द्वारा नहीं बनाई गई है। ऐसा लगता है कि सदी के कारण अधिकारी कर्मचारियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वह ठंड के चलते कंबल ओढ़कर आराम कर रहे हैं। उधर रेत माफिया चंबल का सीना चीरकर चंबल नदी का स्वरूप बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सर्दियों के

प्रभारी कलेक्टर ने नहीं रिसीव किया मोबाइल फोन, सरकारी नंबर पर भी नहीं मिला रिस्यांस

चंबल नदी राजघाट पुल के पास सोमवार की सुबह भारी संख्या में रेत माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन को लेकर प्रभारी कलेक्टर विवेक कुमार को उनके मोबाइल नंबर 8770391970 पर संपर्क साधकर जानकारी लेनी चाही गई, लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किए गए। वहीं कलेक्टर के सरकारी नंबर 6263806243 पर भी कॉल लगाया गया, लेकिन वह भी रिसीव नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन रेत माफिया को संरक्षण दे रहा है व अधिकारियों में मीडिया कर्मियों के फोन ना उठने की प्रतिस्पर्धा चल रही है।

इस मौसम में विदेशी पक्षियों का चंबल नदी में आना जाना रहता है, ऐसे में जलीय जीवों एवं विदेशी पक्षियों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है।

## ताज एक्सप्रेस के इंजन में फंसकर मोर की मौत, तिरंगे में लपेटकर फॉरेस्ट को सौंपा

सत्ता सुधार ■ मुरैना

गत दिवस राष्ट्रीय पक्षी मोर रेलगाड़ी के इंजन में फंस गया और उसकी मौत हो गई। मुरैना स्टेशन पर चालक को जब पता चला तो उसके द्वारा स्थानीय जीआरपी थाना पुलिस को सूचना दी गई। बताया जाता है कि गत दिवस 12279



ताज एक्सप्रेस के इंजन में अचानक राष्ट्रीय पक्षी मोर फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मुरैना रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के चालक द्वारा मोर को निकाल कर राष्ट्रीय ध्वज में सम्मान से उतार कर फॉरेस्ट के अधिकारियों को सुपुर्द किया गया।

## दीपेंद्र यादव शहर कोतवाल बने परिहार हुए रिलीव



सत्ता सुधार ■ मुरैना  
मुख्यालय का महत्वपूर्ण थाना सिटी कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी आलोक परिहार का ग्वालियर स्थानांतरण हुए

लगभग एक महीना हो गया। इसके पश्चात सोमवार को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा श्री परिहार के रिलीव होने के पश्चात दिमनी थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव को मुरैना सिटी कोतवाली निरीक्षक तैनात किया है। श्री यादव सोमवार की रात या मंगलवार को पदभार संभाल सकते हैं। श्री यादव के समक्ष शहर में बढ़ रहे अपराध एक बड़ी चुनौती होंगे।

## जन समस्याओं को लेकर मिलकर संघर्ष करेंगे : उपनेता प्रतिपक्ष



मुरैना। नगर पालिक निगम में उपनेता प्रतिपक्ष सोनू जोनवार द्वारा रविवार को सिंगल बस्ती स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिक निगम मुरैना में नेता प्रतिपक्ष विनोद कंधाना सहित रमेश अर्गल पाण्डे, हरिराम पंचौरिया, कांग्रेस नेता राकेश गर्ग पाण्डे, विनोद जोनवार, बलवीर दोनेरिया, गजेन्द्र सिंघी, आशीष नागोरिया, राजवीर पिंपल, प्रशांत, लखन आदि मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष सोनू जोनवार ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसका भलीभांति निर्वहन करूंगा। मुरैना क्षेत्र में जो भी समस्याएँ हैं, उनको निराकृत कराने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस अपनी भूमिका का अच्छे तह निर्वहन करेगी। हम जन समस्याओं को लेकर संघर्ष भी करेंगे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी नेताओं का आभार जताया।

## विश्व एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिये जनजागरूकता हेतु मनाया जागरूकता सप्ताह

सत्ता सुधार ■ मुरैना

गुना। मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देश पर विश्व एंटीबायोटिक जन जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय गुना में स्थानीय लोगों में एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिये जागरूक करने के लिए जिला चिकित्सालय गुना की बिल्डिंग को गो ब्लू कैम्पेन के तहत ब्लू लाइटिंग से रोशन कर एंटीबायोटिक जन

जागरूकता सप्ताह मनाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार ऋषिेश्वर एवं सिल्विल सनजॉन डॉ. आर. एस. भाटी द्वारा शरीर में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होने के दुष्परिणामों के विषय में जागरूक किया जो कि इस प्रकार है - कोई भी बायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा। एंटीमाइक्रोबियल

दवाइयों का अधिक लंबे समय तक सेवन करना पड़ेगा। ज्यादा दवाइयों के सेवन से दवाइयों के साइड इफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। विषम परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी दवा बैक्टीरिया पर असर न करे। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। दवा के बेअसर होने के कारण ही WHO इसे बड़े खतरे के रूप में देख रहा है।

## कलेक्टर का प्रभार जिला सीईओ ग्वालियर विवेक कुमार ने संभाला

सत्ता सुधार ■ मुरैना

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार 30 नवम्बर तक मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना का प्रभार सीईओ जिला पंचायत ग्वालियर विवेक कुमार संभालेंगे। विदित है कि 19 नवम्बर को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार मुरैना कलेक्टर 30 नवम्बर तक अर्जित अवकाश पर है, उनके अर्जित अवकाश तक मुरैना कलेक्टर का प्रभार सीईओ जिला पंचायत ग्वालियर विवेक कुमार देखेंगे।



## जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति ने खाद्य वितरण गोदाम प्रभारी की जूते से की मारपीट, मामला थाने में पहुंचा

सत्ता सुधार ■ मुरैना

जिले में डीएपी खाद वितरण अब नए-नए रंग ले रहा है जिले की कैलारस तहसील में सोमवार की दोपहर जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति तथा उसके साथियों ने गोदाम प्रभारी की जूते एवं लात घुसा से जमकर मारपीट कर डाली, जिससे वितरण केंद्र पर हंगामा मच गया और जमकर गाली-गलौज हुआ। गोदाम प्रभारी ने अपने साथ हुई मारपीट एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करने हेतु कैलारस थाना पुलिस को आवेदन दिया है।



की दोपहर 2:00 बजे धीरवल सिंह पुत्र रामदयाल राठौर गोदाम प्रभारी मध्य

अनुसार खाद का वितरण करूंगा। इसी बात पर अमरसिंह धाकड़ ने शासकीय

कार्य में बाधा डाली एवं जूता उतारकर मेरे सिर में मारा एवं उसके साथ 03-04 अज्ञात लोगों ने मेरी लात घूंसा से मारपीट की और मुझे पकड़कर खींच लिया, जिससे मेरा खाद विक्रय करने का केश वही पर जमीन पर बिखर गया। मौके पर कई किसान, चौकीदार पुष्पेन्द्र पाण्डे एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास शुक्ला द्वारा मुझे बचाया गया। जिला पंचायत सदस्य एवं उसके साथियों ने गोदाम प्रभारी को धमकी दी कि अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से खत्म कर दोगे, इसके बाद गोदाम प्रभारी दहशत में हैं।

## मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का सदस्यता अभियान जारी

सत्ता सुधार ■ मुरैना

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की सदस्यता अभियान प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्ष, जिला सचिव की देखरेख में चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर जाकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं। जिस संगठन में सदस्यता नहीं है, तो उस संगठन का अस्तित्व नहीं माना जाता है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के सदस्य प्रत्येक संकूल एवं प्रत्येक शिक्षक तक पहुंच रहे हैं, जिससे संगठन में मजबूती आई है। इसी प्रकार भविष्य में भी काम करते रहेंगे और शिक्षकों को जोड़ने का काम करेंगे स सदस्यता में मुख्य रूप से प्रांतीय



उपाध्यक्ष रामवरन सिंह सिकरवार, जिलाध्यक्ष पवनसिंह परिहार, जिलासचिव रामअवतार सिंह सिकरवार, प्राचार्य मधुमंगल शुक्ला, रामसहाय शर्मा, देवेन्द्र सिकरवार यजुवेद सिंह तोमर, राज शुक्ला, लोकेन्द्र यादव, आलोकेंद्र सिंह तोमर, अजय कुमार, रामेंद्र सिंह गुर्जर, रामशंकर गौड़, किरण सिकरवार, रजनी भदौरिया, बीनू तोमर, निशी राजपूत, रूची शर्मा, गोरेटिया इका आदि उपस्थित रहे।

## ब्रीफ न्यूज

पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा थाना सिंहपुर, अमलाई, धनपुरी एवं बुढार का किया औचक निरीक्षण



**शहडोल।** पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री रामजी श्रीवास्तव द्वारा थाना सिंहपुर, अमलाई, धनपुरी एवं बुढार का औचक निरीक्षण किया गया। थानों के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थानों के रिकॉर्ड रजिस्टर, गुंडा, हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर इत्यादि चकर करते कमी पूर्ति हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। थानों के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। सीसीटीवीएस एवं आईसीटीएस पोर्टल के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये। थानों के निरीक्षण के दौरान पेंडिंग अपराधों के जल्द निकाल करवाने, इनामी एवं फरारी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। थानों में लंबित शिकायतों के निकाल हेतु थाना प्रभारियों को समुचित निर्देश दिये गये। औचक निरीक्षण के दौरान एसडीओपी धनपुरी अभिनव मिश्रा, थाना प्रभारी सिंहपुर, अमलाई, बुढार एवं उनका थाना स्टाफ उपस्थित रहे।

**खरगोन सांसद गजेंद्रसिंह पटेल भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त**



**खरगोन।** भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व 2024 अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व खरगोन सांसद गजेंद्रसिंह पटेल को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी पूर्व प्रदेश इकाई के समन्वयक के रूप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार ने बताया सांसद श्री पटेल को संगठन चुनाव में महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाने पर खरगोन भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्रसिंह राठौर, जिला निर्वाचन अधिकारी देवीलाल धाकड़, जिला सह निर्वाचन अधिकारी द्वय रणजीतसिंह डंडीर, कल्याण अग्रवाल, खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, महेश्वर विधायक राजकुमार मेव, बड़वाह विधायक सचिन बिरला, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य परसराम चौहान, धुलसिंह डावर, आत्माराम पटेल, दिनेश शर्मा, जितेंद्र पाटीदार, राजेंद्र यादव आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। इस उपलब्धि पर श्री पटेल ने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा यह अवसर मुझे पार्टी के सिद्धांतों और आदर्शों के साथ और अधिक तत्परता से कार्य करने की प्रेरणा देता है।

# पानी की किल्लत दूर! तेंदूखेड़ा में अब हर घर पहुंच रहा नर्मदा जल

**वार्ड में प्रतिदिन 1.5 एमएलडी के करीब की जा रही पानी सप्लाई**

**सत्ता सुधार ■ तेंदूखेड़ा**  
मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक में पानी की किल्लत दूर हो गई है। अब यहां नर्मदा जल पहुंच गया है। जबलपुर के लमेटा घाट से नर्मदा पेयजल योजना के तहत पानी पहुंचाया गया है। नर्मदा परियोजना के कारण अब लगभग हर घर नर्मदा जल पहुंच रहा है। गौरतलब है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से संचालित नर्मदा पेयजल योजना को भेड़ाघाट के नाम से जाना जाता है। नर्मदा पेयजल योजना का भेड़ाघाट, पाटन, कंटगी, मझौली, पनागर, सिहोरा और दमोह जिले का तेंदूखेड़ा ब्लॉक के हर घर को लाभ मिलेगा। सातों निकायों में अगले कई वर्षों की जरूरत के अनुसार सप्लाई लाइन तैयार की गई



है। क्षेत्रवार योजना का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल, नगर परिषद तेंदूखेड़ा में इस समय नर्मदा जल योजना के तहत लगभग 95 फीसदी घरों में पानी पहुंचने लगा है। इससे वार्डवासियों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिल गया है। अब पानी के लिए कुआं, बोर या अन्य जगह रहवासियों को कतार में नहीं लगना पड़ता है।

**टैंकों की सप्लाई बंद**

लमेटा घाट पर बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (31 एमएलडी) से पानी को फिल्टर करके जबलपुर के छह टाउन और दमोह जिले के तेंदूखेड़ा

**योजना के सही संचालन से ब्लॉक में पानी के टैंकों की सप्लाई बंद**

**इनका कहना है**

तेंदूखेड़ा नगर परिषद के सभी वार्डों में निरंतर पानी की सप्लाई की जा रही है, जो थोड़े बहुत कार्य बचे हैं, उन्हें तेजी से पूरा कराया जा रहा है। जल्द ही शेष कार्य करा लिया जाएगा। काम में गुणवत्ता पर विशेष फोकस है। प्रोजेक्ट से जुड़े हर कर्मचारी इमानदार के साथ दिन-रात लगे हुए हैं।

**अधिके गौतम, प्रोजेक्ट इंचार्ज**

में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। योजना के संचालन से लोगों को इतना लाभ हुआ कि नगर में पानी के टैंकों की सप्लाई बंद कर दी गई है।

**दो टैंकियां भी बन गईं**

उल्लेखनीय है कि मप्र सरकार का लक्ष्य है कि हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा। यहां उक्त योजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

**कॉमल कान्वेंट अमलाई स्कूल के बच्चों ने अंतरिक्ष से लेकर यातायात तक बच्चों ने बनाया प्रोजेक्ट**



**सत्ता सुधार ■ शहडोल/ अमलाई**

कॉमल कान्वेंट स्कूल अमलाई की वाइस प्रिंसिपल सिस्टर एलिस एवं पी.आर.ओ विभा राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार हर स्कूलों के लिए बच्चों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है! तो वही आज भी नन्हे मुन्हे बच्चों का दिमाग जमीनी स्तर से लेकर अंतरिक्ष यान तक पहुंच चुका है! ऐसा ही शहडोल जिले को कॉमल कान्वेंट स्कूल अमलाई के बच्चों ने कर दिखाया जो गांव से लेकर शहर तक के विकास को अपने हाथों की कला से बनाया और दिखाया भी जिसने भी यह देखा वह दंग रह गए!

व द्वितीय ने स्नो वर्ल्ड को दिखाया है। तीसरी से पांचवी तक कक्षा के बच्चों ने प्लैनेटेरियम हिंदी साहित्य साइंस कॉर्नर एवं आर्ट का भी प्रदर्शन किया! 06 से 12 तक के बच्चों ने विषय को चुनकर अपनी बेहतरीन बुद्धिमता का परिचय दिया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नवीनता लिए हुए हमारे जूनियर वैज्ञानिक सामने आए हैं! समाज विज्ञान से हिटलर का गैस चैंबर वाटर सिस्टम इकोनॉमिक्स में तथा मुद्रा का डेवलपमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने दिखलाया! मनमोह लेने वाला योगा कॉर्नर और हिंदी साहित्य का इतिहास जहां मिडिल क्षेत्र के बच्चों ने एवं हाई स्कूल के बच्चों ने अपने प्रतिभा का परिचय दिया! भारत कॉर्नर में विभिन्न खेलों का परिचय एवं म्यूजिक कॉर्नर में अपने प्रतिभा का परिचय देते हुए बच्चों ने गाने का आयोजन किया और जिन्होंने गाने में रुचि है उन्होंने भी वहां गाना गाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हिंदी मीडियम जो विद्यालय द्वारा संचालित है उसमें भी मिडिल स्कूल के बच्चों ने अपने प्रतिभा का परिचय दिया है, कि वे आने वाले भविष्य के निर्माता हैं जो भारत का भविष्य निश्चित करेंगे! विद्यालय की मैनेजर सिस्टर जैस्मीन, प्रिंसिपल सिस्टर एन्सी एवं समस्त स्टाफ ने बच्चों की सफलता पर उन्हें बधाईयां दी और बच्चों के माता पिता की सराहना की!

## पोरवाड़ सामाजिक मंच का पोरवाड़ी आनंदोत्सव 15 दिसंबर को मंडलेश्वर में होगा आयोजित

**सत्ता सुधार ■ खंडवा**

समाज के प्रत्येक वर्ग उत्थान के लिए सदैव अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय पोरवाड़ सामाजिक जैन मंच खंडवा जोन के सचिव मनीष जैन ने बताया की प्रतिवर्ष अनुसार आयोजित होने वाले मंच के पोरवाड़ी आनंदोत्सव 2024 का आयोजन मंडलेश्वर में 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा जिसको सफल बनाने के लिये खंडवा जोन कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा \*लकी ड्रॉ कूपन\* का वितरण किया गया और साथ ही सभी से कार्यक्रम में साथ चलने का निवेदन किया गया। समाज के प्रचारमंत्री सुनील जैन ने बताया कि सम्मेलन में बचपन से लेकर हर वर्ग के लिए



अलग-अलग गतिविधियों के साथ विशेष के लिए म्यूजिकल तंबोला एवं रात्रि में सभी अतिथियों एवं समाज के रत्नों का सम्मान, साथ ही स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, व्यवसायिक स्टॉल लगाए जायेंगे। मनोरंजन के लिए म्यूजिकल तंबोला एवं रात्रि में सभी जोनों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। साथ ही लक्की ड्रॉ भी निकाले जाएंगे।

**स्कंदमाता का पूजा पाठ घर में करने से होगा नन्हे मेहमान का आगमन: पं. श्रीहरि**

दमोह। स्थानीय शिव शनि हनुमान मंदिर एस.पी.एम. नगर में 20 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक नव दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण एवं गौतम परिवार द्वारा आयोजित इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कथा वाचक श्री हरि जी महाराज के मुखारविंद से कथा की जा रही है। नव दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा के पंचम दिवस कि कथा में स्कंदमाता की पूजा पाठ, करने से घर में नन्हे मेहमान का आगमन होता है। नव देवी की अलग-अलग दिन मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। पांचवें दिन स्कंदमाता की पूजा-अर्चना करना चाहिए, स्कंदमाता की चार भुजाएं हैं, इनकी दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपरी भुजा वरमुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल हैं। स्कंदमाता की पूजा अर्चना जो नहीं करता है, उस साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, स्कंदमाता संतान सुख देने वाली है।

**कार्यवाही लंबित जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है खंडवा की बटालियन को: जैन**

**खंडवा।** जिला खण्डवा की अति संवेदनशीलता सर्वोचिंतित है, खण्डवा शहर की साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि के कारण प्रायः कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती रहती है, जिला खण्डवा में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक -ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग- की वृद्ध धार्मिक मान्यता एवं पावन नर्मदा के तट पर स्थित होने से अनेक अवसरों पर कानून-व्यवस्था संबंधी इयूटी एवं व्ही.आई.पी. इयूटियां प्रत्येक वर्ष के लगभग एक-चौथाई कार्य दिवसों में

न्यूनतम रूप से जारी रहती है, जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आकर स्नान, दर्शन करती है, महाकाल लोक बनने के पश्चात ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि कहीं ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर जिला मुख्यालय खंडवा में एस ए एफ वाहिनी बटालियन की अति आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त ओंकारेश्वर में अभ्यारण प्रस्तावित है।

## मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दिया पौष्टिक आहार

**सत्ता सुधार ■ खरगोन**

जिले के सनावद सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत पोस्टिक आहार माह में दो दिवस दिया जाता है। आज भी सिविल अस्पताल में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुनीता बिरला ने डॉक्टर हंसा पाटीदार के साथ गर्भवती महिलाओं को पोहे परोसे। डा हंसा पाटीदार ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की बहुत जरूरत होती है वह खानपान में कोटा ही करती हैं इसलिए प्रधानमंत्री मातृ तो सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को



सिविल अस्पताल में पौष्टिक आहार परोसा जाता है इस आहार को देखकर महिलाएं

अपनी डाइटिंग में आहार को शामिल करें जिससे कि महिला और होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे एवं प्रसूति के समय कमजोरी के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। पौष्टिक आहार के कारण शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है वही महिलाओं को ब्लड प्रेशर और पानी की कमी की समस्या भी दूर हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार परोसने का बड़ा सुखद अनुभव हुआ है लगभग 25 से 30 महिलाएं सिविल अस्पताल आई थीं मैं 10 महिलाओं को पौष्टिक आहार परोसा है।

## बेटियों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर बेटियों को दी जानकारी

**सत्ता सुधार ■ खरगोन**

हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था खरगोन की महिलाओं ने दिनांक 23 नवंबर 2024 रविवार को शाम 5-00 बजे खरगोन शहर के पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं शासकीय आदिवासी कन्या अश्रमी आश्रम की बेटियों को लव जिहाद, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रिल्स नहीं बनाना, सोशल मीडिया पर फोटो नहीं डालने जैसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा व्यक्त किया है। इस उपलब्धि पर श्री पटेल ने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा यह अवसर मुझे पार्टी के सिद्धांतों और आदर्शों के साथ और अधिक तत्परता से कार्य करने की प्रेरणा देता है।



की महिला प्रमुख लवीना शर्मा ने बालिकाओं को कहां की आप छात्रावास में माता-पिता और परिवार से अलग रहती हो इसलिए आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। हर परिस्थितियों से निपटने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। अपने मोबाइल पर 112 नंबर पुलिस अधीक्षक का नंबर थाना प्रभारी का नंबर सभी नंबर सेव करके रखना होगा और विषय परिस्थितियों में उसका उपयोग

करना होगा यदि कोई व्यक्ति आपको पीछा करता है या मोबाइल पर परेशान करता है तो उसकी जानकारी आपको पुलिस को देना चाहिए या अपने माता-पिता से शेष्य करना चाहिए हम लोग लड़ाई झगड़े के डर से घरवालों को यह बात बताते नहीं हैं और फिर बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। संस्था की साक्षी पाराशर एवं कीर्ति जैन ने भी बच्चियों को समझाते हुए कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने फोटो शेष्य नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर रिल्स वगैरह बनाना भी गलत है। इस अवसर पर हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था की दीपिका गुप्ता, पूजा जैन कविता गुप्ता, पूजा चौहान, प्रिया गुप्ता शाहिद बहुत सारी महिलाएं उपस्थित थीं।

**बजरंग दल जिला खंडवा द्वारा आयोजित किया गया त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम**



**खण्डवा।** विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल जिला इकाई द्वारा खालवा प्रखंड और पंधाना प्रखंड में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें विभाग संगठन मंत्री श्री वासुदेव जी पांडेय द्वारा बजरंगियों का मार्गदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे देवी, देवताओं के पास भी शास्त्र, और शस्त्र हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा भी धर्म, देश, और समाज की रक्षा के लिए, शस्त्र के माध्यम से ही रक्षा की, भगवान श्रीराम, और भगवान श्री कृष्ण भी यही संदेश दिया है, कि धर्म की रक्षा के लिए, शस्त्र का होना आवश्यक है।

## भूमिपूजन पार्षद एवं क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में लाखों रुपए के विकास कार्यों का महापौर ने किया भूमिपूजन प्रत्येक वार्ड में लाखों रुपए के किया जा रहे हैं विकास कार्य: महापौर

**सत्ता सुधार ■ खंडवा**

नगर निगम की भाजपा परिषद द्वारा शहर के प्रत्येक वार्डों में करोड़ रुपए की लागत से विकास एवं निर्माण कार्य पार्षदों की अनुशंसा एवं महापौर अमृता अमर यादव के निर्देश पर किये जा रहे हैं, बिना भेदभाव के समस्त वार्डों में पार्षदों की अनुशंसा पर प्रत्येक वार्ड में लाखों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और कई कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है।



समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि रविवार को महापौर अमृता अमर यादव एवं परिषद अध्यक्ष अनिल विषयकर्मा के साथ ही वार्ड पार्षद के द्वारा पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ कई विकास कार्यों के भूमि पूजन किए गए, रजौत वार्ड में पार्षद वेद प्रकाश मालाकार की अनुशंसा पर 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन किया गया वहीं सुरजकुंड वार्ड के टैगोर पार्क में पार्षद संतोष सारवान के अनुशंसा पर शहर के सुंदर शहर

लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन महापौर अमृता अमर यादव द्वारा किया गया, कार्यक्रमों में भूमि पूजन के अवसर पर महापौर अमृता अमर यादव ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमारा प्रयास है कि हमारा शहर विकसित हो इस हेतु पार्षदों की अनुशंसा पर वार्डों में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को विकास के माध्यम से विकसित कर रहे हैं, वहीं जिला मुख्यालय खंडवा को हम पार्षदों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं, झूठे वादे हम नहीं करते जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, महापौर

अमृता यादव ने कहा कि महिला पुरुष में समानता लाने के लिए लगातार हमारी सरकार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, 50th आरक्षण की भागीदारी से महिलाओं को भी कार्य करने का मौका मिल रहा है, बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सभी बेटियों को निशुल्क शिक्षा के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है, गरीब कन्याओं के विवाह में प्रदेश की सरकार सहयोग प्रदान कर रही है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आवास योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को मकान बनवा कर दिए जा रहे हैं, शहर में पेयजल के संकट को दूर करने के लिए अमृत योजना अंतर्गत नई पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, नई टैंकियां का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है।

**वैवाहिक कार्यक्रम में खंडवा पहुंचे मंत्री राकेश सिंह का भाजपा जनों ने किया स्वागत**

**सत्ता सुधार ■ खंडवा**



भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जबलपुर से लगातार चार बार सांसद, वर्तमान में जबलपुर पश्चिम से विधायक बनकर डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह खंडवा पहुंचे, प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि रविवार को प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने खंडवा पहुंचे, मंत्री राकेश सिंह का खंडवा आगमन पर पार्टी के जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनव, महापौर अमृता अमर

यादव, जिला महामंत्री अरुण सिंह मुन्ना, राजेश तिवारी, हरीश कोटवाल, धर्मद बजाज, दिनेश पालीवाल, सुनील जैन, संदेश गुप्ता, महेश चौधरी, श्रृंगी उपाध्याय, सचिन तायडे, हरदीप सिंह छाबड़ा, विशाल छाबड़ा व अन्य कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर स्वागत अभिनंदन किया।

## बीफ न्यूज

मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मिलावटखोरों पर कठोर कार्रवाई

सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मिलावट खोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग आपस में समन्वय बनाते हुए मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहना चाहिए। मेडिकल स्टोर्स की भी करें जांच कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मेडिकल स्टोर की भी जांच करें। जहां पर पेशे वाली दवाइयां बेची जा रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर सील किए जाएं। इसी प्रकार संपूर्ण जिले में और दूरस्थ ग्रामों में झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। ऐसे डॉक्टरों द्वारा आमजन की सेहत और स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है। जानकारी के अभाव में सामान्य व्यक्ति सही उपचार मिलने से वंचित रह जाते हैं। अतः ऐसे सभी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

कलेक्टर ने सर्टिफाइड डॉक्टरों को सख्त कार्रवाई का निरीक्षण किया

छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल द्वारा सोमवार को छतरपुर शहर के सर्टिफाइड डॉक्टरों के डबल लॉक खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने मौके पर व्यवस्थित रूप से टोकन अनुसार खाद बांटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलदार एवं कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि निर्दिष्ट किया कि किसानों को खाद प्राप्त करने में समस्या नहीं हो। शांति पूर्ण रूप से खाद वितरण सुनिश्चित कराए। कलेक्टर ने कुचकों से अपील करते हुए कहा कि जिले में लगातार खाद की आपूर्ति हो रही है। डीपी खाद सीधे समिति स्तर पर वितरण के लिए भेजा गया है।

## खाद, उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों पर करें कठोर कार्रवाई

एसडीएम लगातार करें खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण: कलेक्टर

सत्ता सुधार ■ सागर

खाद, उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। समस्त एसडीएम खाद, उर्वरक वितरण केंद्रों का निरीक्षण करें एवं किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। वितरण केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर संदीप जी आर ने समस्त एसडीएम को दिए। कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा कि किसान भाइयों को सुगम एवं सुलभ तरीके से समय पर खाद उर्वरक उपलब्ध हो। सभी एसडीएम सुनिश्चित करें कि उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को आपूर्ति हो सके इसके लिए निजी खाद विक्रेताओं की गोदाम, दुकानों का निरीक्षण करें एवं खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों से मौके पर जाकर चर्चा भी करें और उनकी समस्याओं का निराकरण कराए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी खाद वितरण केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो इसका भी परीक्षण



करें। सभी खाद वितरण केंद्रों पर धूप से बचने के लिए पांडाल लगाए एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर काउंटर की संख्या भी बढ़ाए जिससे कि किसान भाइयों को शीघ्रता से खाद और उर्वरक प्राप्त हो सके। तोल काटों की भी जांच करें।

सीमांकन के बाद तत्काल मुनारे बनाकर उन्हें रंगीन बनाएं

जिले के सभी छोटे-बड़े तालाबों का सीमांकन कर

राजस्व के सभी खसरा अपडेट करें एवं सीमांकन के बाद तत्काल मुनारे बनाकर उन्हें रंगीन बनाएं। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक के बी, नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय समस्त एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा कि शासन के निर्देश अनुसार सागर जिले के सभी छोटे-बड़े तालाबों का सीमांकन करें एवं प्रतिवेदन

प्रस्तुत करें साथ में सीमांकन करने के तत्काल बाद उनका खसरा अपडेट करें और सीमांकन के बाद तालाब की चारों तरफ मुनारे बनाए जाएं, जिससे कि कभी भी किसी भी स्थिति में तालाब पर अतिक्रमण न हो, और तालाब की वास्तविक स्थिति हमेशा दूर से चिह्नित की जा सके। उन्होंने कहा कि तालाब के चारों तरफ मुनारे बड़े आकार में बनाए जिससे कि वह दूर से ही दिखाई दें। तालाबों को सूखने के बाद की सभी डिसेसिलिंग भी कराए।

राजस्व महाअभियान 3.0 में राजस्व के समस्त प्रकरणों का निराकरण शत प्रतिशत करें- कलेक्टर

राजस्व महाअभियान 3.0 में राजस्व के समस्त प्रकरणों का निराकरण शत प्रतिशत करें। उक्त निर्देश कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया कि राजस्व महा-अभियान प्रथम चरण (जनवरी मार्च 2024) एवं द्वितीय चरण (18 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024) की सफलता को देखते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख नुस्तियों को ठीक करने हेतु राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन दिनांक 15/11/2024 से 15/12/2024 तक किए जाने का निर्णय लिया गया है इस अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों (नामांतरण, बैटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन) का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को रजिस्टर पर दर्ज कराना, नकशे पर तस्वीर, क्लिकेडरूह का सैरुपेशन, आधार का रजिस्ट्रेशन, एरररगारगत रास्तों का दिहांकन, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन है।

## दो भाइयों के जब एक साथ उठे दो जनाजे गमनीन माहौल में कब्रिस्तान में किया गया अंतिम संस्कार

नहाते समय नदी में डूबने से दो भाइयों की मौत

बीना से शादी समारोह में शामिल होने केसली गए थे, पैर फिसलने से हुआ हादसा

सत्ता सुधार ■ बीना (सागर)

जैसे ही बीना में यह खबर आई कि पाटक वार्ड निवासी अब्दुल सईद के दोनों पुत्रों की नहाते वक्त डूब जाने से मौत हो गई यह खबर जैसे ही सुनी गई पूरे क्षेत्र में माहौल एकदम गमनीन हो गया। सोमवार को दोपहर की नमाज की पश्चात दोनों की जनाजे एक साथ उठे और नई बस्ती स्थित कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल सागर के केसली थाना क्षेत्र में स्थित सुनार नदी पर बने राजघाट बांध के घाट पर रविवार नहाते समय डूबने से दो भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। सर्चिंग कर दोनों को बाहर निकाला। लेकिन तब तक दोनों



भाइयों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। (मिली जानकारी के अनुसार, तैयब पिता अब्दुल सैयद (22) निवासी बीना अपने छोटे भाई अल्लाफ के साथ केसली में रिश्तेदार गुड्डू खान के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। दोनों भाई नहाने के लिए सुनार नदी पर बने राजघाट बांध पर पहुंचे। इसी दौरान वे गहरे पानी में डूब गए

और पैर फिसलने से एक भाई डूबने लगा। दूसरे ने बचने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों भाई पानी में डूब गए। केसली पुलिस से मिली जानकारी अनुसार जब आसपास के लोगों ने घटना देखी तो मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने पानी में उतरकर दोनों भाइयों को पानी से बाहर निकाला। लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

परीक्षा के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा: कोटा-ग्वालियर परीक्षा विशेष ट्रेन का संचालन शुरू, बीना के विद्यार्थियों को होगा लाभ

बीना (सागर)। रेलवे ने परीक्षा के दौरान अतिरिक्त यात्री भार को कम करने और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा-ग्वालियर-कोटा परीक्षा विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेनें बीना रेलवे जंक्शन पर रुकेगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा।

इन ट्रेनों का होगा संचालन

- ✓ ट्रेन नंबर 0801- कोटा-ग्वालियर परीक्षा विशेष ट्रेन 25 नवंबर को रात 9:25 बजे कोटा स्टेशन से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन रात 3:40 बजे बीना पहुंचेगी और सुबह 9:25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।
- ✓ वापसी में ट्रेन नंबर 0802-ग्वालियर-कोटा परीक्षा विशेष ट्रेन 26 नवंबर को सुबह 10:25 बजे ग्वालियर स्टेशन से चलेगी। यह शाम 6:00 बजे बीना पहुंचेगी और रात 2:00 बजे कोटा स्टेशन पहुंचेगी।
- ✓ ट्रेन नंबर 0803- कोटा-ग्वालियर परीक्षा विशेष ट्रेन 27 नवंबर को रात 9:25 बजे कोटा से रवाना होगी।

आचार्यश्री विद्यासागर अतिथि भवन का लोकार्पण हुआ

## अपने जीवन को परोपकार में लगाए

अतिथि भवन में तो उनका पुण्य मिलेगा, तीर्थ यात्री का स्वागत सम्मान होना चाहिए

सत्ता सुधार ■ बीना (सागर)

महासमाधि धारक प.पू.आचार्य श्री विद्यासागर जी महा मुनिराज से दीक्षित एवं परमपूज्य आचार्य समय सागर महा मुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि विमल सागर महाराज मुनि अनंत सागर महाराज, मुनि धर्म सागर महाराज, मुनि भाव सागर महाराज के सान्निध्य में एवं ब्रह्मचारी अभिषेक भैया शाहाद के निर्देशन में छोटी बजरिया बीना जिला सागर मध्य प्रदेश में आचार्य श्री विद्यासागर अतिथि भवन का लोकार्पण हुआ जिसके अंतर्गत मंगलाचरण चित्र अनावरण शास्त्र अर्पण की मांगलिक क्रियाएं की गई 25 नवंबर को भानगढ़ में मंगल प्रवेश प्रातः 8 बजे होगा, 26 नवंबर को भानगढ़ में प्रातः 8 बजे अभिषेक, शांतिधारा दोपहर में 11 बजे प्रभु की शोभायात्रा निकाली जाएगी, इस अवसर पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि विमल



सागर जी महाराज ने कहा कि इन्होंने पुरुषार्थ किया है इनकी मेहनत रंग लाई, अतिथि वह कहलाते हैं जिनकी आने की तिथि निश्चित नहीं हो, अतिथि देवो भव-कहा है, करोड़ों यात्री रुकेगे इस अतिथि भवन में तो उनका पुण्य मिलेगा, अतिथि दान, आवास दान आया है, साधु संत रुकेगे यहां, आवासदान मुक्ति के कारण है, जिन-जिन लोगों ने सहयोग दिया है सबको पुण्य का अर्जन होगा, परोपकार के लिए सब कुछ होता है, पर के उपकार में अपना भी उपकार हो जाता है, अपने जीवन को परोपकार में लगाए

, जब तक संत प्रेरणा नहीं देते जब तक आप दान नहीं देते हैं, बीना जंक्शन श्री सम्पद शिखर जी का द्वार है, तीर्थ यात्री का स्वागत सम्मान होना चाहिए, अतिथि सत्कार का पुण्य असंख्यत वर्ष तक रहेगा, जल के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, यह अतिथि भवन प्रसिद्धि को प्राप्त होता रहे, दान से दुर्गाति का नाश होता है। यहां एक भोजनशाला 365 दिन चलेगी जिसके माध्यम से बाहर के यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी, लोगों ने एक दिन के भोजन लिए स्वीकृति प्रदान की।

## ग्राम मूडरी, डिमरोली में उन्नत कृषि कैसे की जाए



जीवामृत, घनामृत, पंचपत्ती काढ़ा, दसपत्ती काढ़ा आदि बनाने की विधि

ग्राम मूडरी एवम ग्राम डिमरोली में उन्नत कृषि तकनीक एवं जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन

सत्ता सुधार ■ बीना (सागर)

बीपीसीएल रिफाइनी बीना द्वारा संचालित समृद्धि परियोजना के अंतर्गत जो कि बीएआईएफ सतत आजीविका एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा संचालित है, कृषि विभाग बीना के सहयोग से ग्राम

मूडरी एवम ग्राम डिमरोली में उन्नत कृषि तकनीक एवं जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, प्रशिक्षण में मुख्य रूप से गांव की महिलाएं शामिल हुईं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशिक्षक दीपेश मोघे (कृषि विस्तार अधिकारी बीना), श्याम सिंह रघुवंशी (परियोजना अधिकारी बीना) एवम राज चतुर्वेदी (सीईओ आगासाद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बीना), ब्रजकिशोर दुबे (एआईटी हड़कल) एवं बृदावन जोशी (एआईटी देहरी) द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया

गया। प्रशिक्षक दीपेश मोघे जी ने कृषि की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी दी, जिसमें भूमि की तैयारी, बीजों का चयन, उर्वरकों का प्रयोग आदि शामिल थे। साथ ही जैविक खेती के अंतर्गत जीवामृत, घनामृत, पंचपत्ती काढ़ा, दसपत्ती काढ़ा आदि बनाने की विधि एवं लाभ के बारे में भी समस्त जानकारी दी गई। अंत में किसानों द्वारा कृषि से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रशिक्षण के पश्चात जैविक एवम प्राकृतिक खेती के लिए सभी किसानों को अग्रेषित करने का संदेश दिया गया।

## संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को सहेजकर रखना महत्वपूर्ण

सत्ता सुधार ■ सागर

संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को सहेजकर रखना महत्वपूर्ण, कुशल शासक प्रशासक थे पंडित गोविंद पंत खेर। उक्त विचार सांसद ने जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद जिला द्वारा विश्व धरोहर ससाह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर नवीन ठाकुर, शिवाकांत वाजपेई, सुश्री खुशबू पटेल, मुकेश पटेल, जलज जैन सहित अन्य जन प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे। सांसद डॉ. लता वानखेडे ने कहा कि संस्कृति, सभ्यता, पुरातत्व इतिहास को सहेज कर रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब कोई चीज सही चीज जाती है तब उसका सही महत्व समझ में आता है और महत्व समझ में आ जाए तब उसका मतलब समझ में आता है उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि संस्कृति समाज ही हमें आगे बढ़ने का मोका देती है। सांसद डॉक्टर वानखेडे ने कहा कि मैं आज अभीभूत हूँ कि जिला प्रशासन ने यह पहल की और मुझे आमंत्रित किया इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने कहा कि सागर के अनेक व्यक्तियों को आज भी नहीं मालूम कि सागर की स्थापना किसने की। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो पूरा इतिहास मालूम होता रहेगा। उन्होंने कहा कि गोविंद पंत खेर कुशल शासक



प्रशासक थे और उन्होंने सागर की स्थापना की। 20 दिसंबर को पंडित गोविंद पंत खेर की पुण्यतिथि है पुण्यतिथि पर भी सागर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मराठा कालीन बुदेलखण्ड सागर के संदर्भ में गोविन्द पंत खेर बुदेलला पर केंद्रित संगोष्ठी में गोविन्द पंत खेर बुदेलला का सागर नगर के विकास में राजनैतिक योगदान पर डॉ. बी. के. श्रीवास्तव, प्रोफेसर, आधुनिक इतिहास, डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर ने विस्तार से जानकारी दी। इसी प्रकार गोविन्द पंत खेर बुदेलला का सागर को नगरीय एवं प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित करने में योगदान पर डॉ. अनिरुद्ध सूबेदार, अस्सिस्टेंट प्रोफेसर, गुरुग्राम

विश्वविद्यालय हरियाणा ने अपना व्याख्यान दिया। जबकि गोविन्द पंत खेर बुदेलला का सागर के विकास में आर्थिक एवं सांस्कृतिक योगदान पर डॉ. रजनीश जैन, इतिहासकार ने कहा कि सागर के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विकास में पंडित गोविंद पंत खेर का सबसे बड़ा योगदान है उन्होंने ही सागर शहर की स्थापना में प्रशासनिक इकाई के रूप में गठन किया और यहां की अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर के अन्य राज्यों से जोड़ा। इस समृद्ध मराठी संस्कृति की स्थापना की जिसका फायदा अन्य सभी समुदायों को भी मिला। कार्यक्रम में सागर के पुरातत्व, पर्यटन एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. नागेश दुबे, डॉक्टर बीके श्रीवास्तव,

डॉ. मोहनलाल, डॉ. अनिरुद्ध सूबेदार, डॉक्टर शिवाकांत वाजपेई, डॉक्टर रजनीश जैन, डॉक्टर अहमद कादरी, सुखदेव तिवारी, चतुर्भुज सिंह राजपूत, गोविंद सवैया, डॉक्टर शरद सिंह, डॉक्टर पंकज तिवारी, डॉ. बलवंत सिंह भदोरीया, डॉक्टर आकाश मालवीय, डॉक्टर नीलिमा पिंपलापुरे, डॉक्टर अनिरुद्ध पिंपलापुरे का सम्मान किया गया। अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय ने बताया कि यह कार्यक्रम जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद जिला सागर, रंग के साथी ग्रुप सागर इटेक्स सागर चैटर विरासत मध्य प्रदेश न्यास, सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय सागर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरविंद जैन ने किया।

रैली कलेक्टर ने भर्ती रैली व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिये

## सागर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 5 जनवरी से 10 जिलों के युवा भर्ती रैली में भाग लेंगे

सत्ता सुधार ■ सागर

जिले में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 5 जनवरी से 13 जनवरी तक किया जायेगा। रैली शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में आयोजित की जायेगी। इस सात दिवसीय भर्ती रैली में 10 जिलों सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवार, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, मुर्ना, भिण्ड और ग्वालियर, के लगभग 9 हजार युवा भाग लेंगे।

आयोजन की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर संदीप जी आर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि भर्ती रैली का आयोजन पूरी तरह व्यवस्थित रूप से हो। जिस विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह पूरी मुस्तैदी के साथ उसका पालन करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक



विकास शाहवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक के बी, डी एफ ओ

महेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, अति

रिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा, सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती जूही गर्ग, शासकीय इंदिरा

गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डा अनुराग त्रिवेदी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री हरिशंकर जायसवाल, उप संचालक रोजगार श्रीमती अंगूरी ठाकुर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर संदीप जी आर ने उप संचालक रोजगार श्रीमती अंगूरी ठाकुर को निर्देश दिये कि जिस विभाग से जिस कार्य की अपेक्षा है इस संबंध में उन्हें आवश्यक पत्र भेजे। आयोजन के सिलसिले में विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु किस मद में कितनी राशि का आवश्यकता होगी उस हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिये कि बड़ी संख्या में बाहर के जिलों से युवा सागर आयेगे और जायेगे इसके लिये बसों को अस्थाई परमिट देने और पाकिंग की व्यवस्था करें। कर्नल कमलेश कुमार ने बताया कि भर्ती

रैली में 10 जिलों के लगभग 9 हजार युवा दस दिवसीय रैली में भाग लेंगे। प्रत्येक जिले के लिये अलग-अलग दिन निर्धारित रहेंगे। सेना से भर्ती के लिये 100 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी आ रहे हैं। सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रहने आदि की व्यवस्थाएं की जाना है। पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल ने कहा कि रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल की आवश्यकता भी होगी। जिसको जगह-जगह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण रैली में ड्रोन के माध्यम से एवं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती स्थल पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे जिसमें आने जाने वालों की चेकिंग की जाएगी।

## बीफ न्यूज

अथिया ने राहुल की तरवीर शेर कर कहा वह अभी हार नहीं मानता

**मुंबई।** बल्लेबाज केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी कर फार्म में आने के संकेत दिये हैं। राहुल को इस पारी को देखकर उनकी पत्नी अथिया शेठ्री उत्साहित हैं। अथिया ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर कर पति की प्रशंसा की है। अथिया ने पथ के क्रिकेट मैदान से राहुल की एक तरवीर शेर की और लिखा कि वह जो कभी हार नहीं मानता, कभी पीछे नहीं हटता। राहुल ने 176 गेंदों पर 77 रनों की अच्छी पारी खेली, जिसमें उनकी पारी में पांच चौके शामिल थे। राहुल ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर शुरुआती टेस्ट में पहले विकेट के लिए 201 रनों की रिकॉर्ड-तोड़ साझेदारी बनायी। अथिया और राहुल को पिछले साल जनवरी में शादी हुई थी। राहुल पिछले कुछ समय से लय में नहीं थे जिसके बाद उनपर इस दौर में बेहतर प्रदर्शन का स्वागत था।

**विराट का भारतीय क्रिकेट में अहम योगदान: कपिल**

**मुंबई।** भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अनुभवों बल्लेबाज विराट कोहली की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि खेल में उन्होंने अहम योगदान दिया है इसलिए उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कोहली ने करीब डेढ़ साल बाद पद में शतक लगाकर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। ऑस्ट्रेलिया में कोहली ने अपना सातवां शतक लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के छह टेस्ट शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कपिल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'जिन लोगों को आलोचना करनी है वे करेंगे ही उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई बड़ा खिलाड़ी अगर वापसी करने में काफ़ी समय लेता है तो मीडिया आलोचना करती ही है। उन्होंने कहा, 'हमें उसकी क्षमता और प्रतिभा देखनी चाहिए। वह बहुत बड़े खिलाड़ी है। उन्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मुझे या मीडिया के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। इस इस पूर्व कप्तान ने कहा, 'उसने क्रिकेट के लिए जो किया है वह अद्भुत है और इसके लिए सभी को उसका हौसला बढ़ाना चाहिए।

**कबड्डी खिलाड़ी की गोलियां मारकर हत्या**


**चंडीगढ़।** पंजाब के तरनतारन में एक कबड्डी खिलाड़ी सुखविंदर सिंह की गोलियां मारकर हत्या का मामला सामने आया है। सुखविंदर एक कृषि से जुड़े सामान के स्टोर में बैठ था तभी उस पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। में मौजूद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक खिलाड़ी गैंगस्टर सतनाम सिंह सत्ता का चचेरा भाई बताया जाता है। सतनाम पर रंगदारी सहित कई अन्य आपराधिक मामले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उसी के विरोधियों का हाथ इस वारदात के पीछे हो सकता है। मृतक खिलाड़ी की अभी एक माह पहले ही शादी हुई थी, जिससे इलाके में दुख का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू हो गयी है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के इलाके में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की जांच भी कर रही है।

## सीएसके ने अपने रिलीज किये खिलाड़ियों को ही खरीदा

एजेंसी ■ जेदा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के लिए हुई नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने उन्हें खिलाड़ियों का खरीदा जिन्हें उसने रिलीज कर दिया था। वहीं माना जा रहा था कि सीएसके कुछ नये खिलाड़ियों को अवसर देगी पर ऐसा नहीं हुआ। नीलामी में सीएसके प्रबंधकों की टीम ने केवल अपने खिलाड़ियों को खरीदने में रुचि दिखाई। जब भी सीएसके के किसी खिलाड़ी का नाम लिया जाता तो चेन्नई पहली बोली से ही नीलामी में आगे आ जाती थी। उन्होंने अपने अनुभवों खिलाड़ियों को कम कीमतों में ही अपने से जोड़ लिया।

**सीएसके ने आर अश्विन को सबसे पहले 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा :** अश्विन ने पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की ओर से भी



खेला है पर इस दौरान वह सीएसके टीम की तारीफ करना कभी नहीं भूले। वैसे भी तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी अश्विन ही छाने रहते हैं। ऐसे में अपने खिलाड़ियों की वापसी का पूरा प्रयास सीएसके ने किया।

**रचिन रविंद्र को 4 करोड़ में खरीदा :** रचिन के लिए नीलामी में सीएसके की टक्कर पंजाब के साथ हुई। सीएसके ने 4 करोड़ की बोल लगाने के साथ ही आरटीएम का इस्तेमाल कर लिया जिससे रचिन एक बार फिर से सीएसके के

हो गये। रचिन ने अब तक 10 मुकामलों में 222 रन बनाए हैं।

**राहुल त्रिपाठी - 3.40 करोड़ :** राहुल त्रिपाठी को सीएसके ने 3.40 करोड़ में खरीदा है। त्रिपाठी पिछले तीन सालों से सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल रहे थे। उन्हें पिछली बार सनराइजर्स ने 8.50 करोड़ रुपये दिये थे पर इस बार सीएसके उन्हें अपने साथ जोड़ने में सफल रही है।

**डेवोन कॉनवे - 6.25 करोड़ :** कॉनवे के लिए नीलामी में पंजाब किंग्स ने भी बोली लगायी पर अंत में चेन्नई की बोली सफल रही। कॉनवे चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत करने के साथ ही गेंदबाजी में भी करते हैं। उन्होंने सीएसके की ओर से 23 मैचों में 48 की औसत से 924 रन बनाये हैं।

## लखनऊ सुपरजायंट्स ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाई

**मुंबई।** इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के लिए दो दिवसीय नीलामी हो रही है। इसमें खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये बरस रहे हैं। सभी टीम अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को शामिल करने के प्रयास में लगी है। संयुक्त अरब अमीरात के जेदा में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में एक नया रिकॉर्ड बना है। इस बार लखनऊ सुपरजायंट्स ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाई। लखनऊ ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए की लगाई। इसके साथ ही ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सबसे महंगे खिलाड़ी का श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड तोड़ा। अय्यर पर इससे कुछ समय पहले ही 26.75 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। आईपीएल मेगा नीलामी में 577 खिलाड़ी शामिल हैं। एक टीम अधिकतम 120 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। इसमें रीटेन खिलाड़ियों को दी गई रकम भी शामिल है। खिलाड़ियों को रीटेन करने के बाद 10 फ्रेंचाइजी के पास अब कुल 641.5 करोड़ का शेष है। इन फ्रेंचाइजी के पास कुल 204 स्लॉट खाली हैं। आईपीएल ऑक्शन में पहली बोली अशदीप सिंह पर लगी। पंजाब किंग्स ने 27 टैट का कार्ड का इस्तेमाल किया और अशदीप सिंह को खरीदा।

## भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में 295 रन से हराया

## बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त हासिल की, बुमराह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

एजेंसी ■ पर्थ

भारतीय टीम ने यहां पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम को 295 रनों से हराकर पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में उतरी भारतीय टीम ने इस मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी सहित हर क्षेत्र में कंगारुओं को पीछे छोड़ दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने जीत के लिए 534 रनों का लक्ष्य दिया था जिसका पीछा करते हुए मेजबान टीम चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 238 रनों पर ही आउट हो गयी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 89 रन ट्रेविस हेड ने बनाए। उनके अलावा मिचेल मार्श ने 47 रन बनाये पर अन्य बल्लेबाज असफल रहे। भारत की ओर से बुमराह ने 3 और मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट लिए जबकि वाशिंगटन सुंदर ने दो, हर्षित राणा और नीतिश रेड्डी ने एक-एक विकेट लिया। इस मैच में भारतीय टीम की जीत में यशस्वी जायसवाल 161 और विराट कोहली 100 के अलावा केएल राहुल की 77 रन की अर्धशतकीय पारी की अहम भूमिका रही। इससे भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का विशाल लक्ष्य दिया। जिसके सामने मेजबान टीम दूह गयी। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली



पारी में ऋषभ पंत (37) और नीतिश रेड्डी (41) को बढ़ावा देकर 150 रन बनाए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अच्छी रही और जोश हेजलवुड ने 4 जबकि मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिशेल मार्श ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद जवाब में मेजबान टीम भी 104 पर सिमट गया। इस प्रकार पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 46 रन की बढ़त बनाई। भारत की ओर से बुमराह के 5 विकेट शामिल थे। दूसरी इनिंग में यशस्वी यशस्वी और विराट के शतकों के अलावा केएल राहुल की 77 रन की अर्धशतकीय पारी से भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का विशाल लक्ष्य दिया। जिसके सामने मेजबान टीम दूह गयी। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली

मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने में बेहतर वापसी की। तीसरे दिन के तीसरे सत्र में ही 12 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। चौथे दिन की शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को पंत के हाथ कैच आउट कराकर एक बड़ा झटका दिया। ख्वाजा ने इस पारी में 4 रनों का योगदान दिया। इसके बाद मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने एक साझेदारी बनाने की कोशिश की और दोनों ने टीम का स्कोर 79 तक पहुंचाया। लंच से पहले भारत को एक और बड़ी सफलता तक मिली जब सिराज ने स्मिथ को 17 रनों पर आउट कर दिया। स्टीव स्मिथ ने आउट होने से पहले 60 गेंदों का सामना किया और एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इसी बीच

ट्रेविस हेड के तेज अर्धशतक के चलते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा लेकिन लंच तक उनकी आधी टीम केवल 104 रनों के स्कोर पर ही आउट हो चुकी थी। लंच के बाद हेड ने अपनी पारी को गति के साथ आगे बढ़ाना जारी रखा और कुछ शानदार शॉट्स खेले। हेड को 89 रनों के निजी स्कोर पर बुमराह ने पेवेलियन भेज दिया। हेड ने 101 गेंदों पर 8 चौके लगाए। इसके बाद नीतिश रेड्डी ने मिशेल मार्श को 47 रनों की पारी का अंत कर दिया।

इसके बाद सिर्फ विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ही निचले क्रम पर भारतीय गेंदबाजी का प्रतिरोध कर सके, जबकि दूसरे छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। वाशिंगटन सुंदर ने मिशेल स्टार्क (12) और नाथन लियोन (0) के विकेट हासिल किए। वहीं, हर्षित राणा ने कैरी को बोल्ट करके विजयी विकेट हासिल किया। कैरी ने 58 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली।

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को तीन-तीन विकेट मिले। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को मैच में कुल आठ विकेट लेने के चलते प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। बुमराह ने पहली पारी में भी पांच विकेट लिए थे। इस मैच से पदार्पण करने वाले नीतिश रेड्डी ने भी मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन कर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

## डिविलियर्स ने यशस्वी को भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार बताया



एजेंसी ■ जोहान्सबर्ग

दक्षिण अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर रहे एबी डिविलियर्स ने भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की जमकर प्रशंसा की है। डिविलियर्स ने कहा कि जिस प्रकार से यशस्वी बल्लेबाजी करते हैं वह क्रिकेट का सुपरस्टार है जो भविष्य में विश्व क्रिकेट में धूम मचा देगा। पर्थ टेस्ट मैच में युवा यशस्वी ने पारी की शुरुआत करते हुए दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया। यशस्वी ने 161 रनों की बड़ी पारी खेली। उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अपनी आक्रामक पारी से जायसवाल ने दिखा दिया है कि क्यों उनसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उदते हैं। जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक जमाकर इतिहास रच दिया। यशस्वी का ऑस्ट्रेलिया की भरती पर यह पहला टेस्ट शतक है। डिविलियर्स ने

यशस्वी की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा, मैं यशस्वी को काफी समय से देख रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि वह भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार है। उसने पर्थ टेस्ट मैच में दिखा दिया है कि वह क्या कर सकता है। डिविलियर्स ने जायसवाल को लेकर आगे कहा कि, जायसवाल में भारतीय क्रिकेट का महान बल्लेबाज बनने की काबिलियत है, इसके अंदर काफी प्रतिभा है और इसे आगे ले जाने और निखारने की जरूरत है। साथ ही कहा कि ऐसे क्रिकेटर को बार-बार अवसर देकर भारतीय क्रिकेट अच्छा कर रहा है। मुझे उनकी बल्लेबाजी को देखकर काफी आनंद आता है। वास्तव में जो भारतीय क्रिकेट के लिए ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के लिए भी महान बल्लेबाज बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही कहा कि जायसवाल ने दिखा दिया कि उन्हें लोग भविष्य का सुपरस्टार मानते हैं।

## सोशल मीडिया पर छापी रहीं काव्या



एजेंसी ■ जेदा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 मेगा नीलामी में पहले सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन युवा विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन को 11.25 करोड़ रुपये में खरीदकर बेहद उत्साहित दिखाई। काव्या नीलामी मंच पर खड़ी रहीं और इशान को खरीदने के बाद उनके चेहरे पर अलग ही चमक दिखायी दी। काव्या का ये अंदाज भी सोशल मीडिया पर छाया रहा। सनराइजर्स ने नीलामी में पहले दिन

सात खिलाड़ियों को खरीदा। इनमें इशान किशन, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, अभिनव मनोहर, राहुल चाहर, एडम जांप और अश्विन तायद शामिल हैं। शमी को काव्या 10 करोड़ में जबकि हर्षल को 8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। नीलामी के पहले दिन कुल 72 खिलाड़ियों पर बोली लगी। इन खिलाड़ियों पर कुल 467.95 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। अब आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी के पास कुल 132 स्लॉट खाली हैं। आईपीएल ऑक्शन 2025 की शुरुआत अशदीप सिंह से हुई। कुछ दिन पहले अशदीप सिंह को रिलीज करने वाली पंजाब किंग्स ने उन्हें फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया। पंजाब ने अशदीप सिंह पर 18 करोड़ की बोली लगाई। वहीं पंजाब किंग्स ने ही श्रेयस अय्यर पर 26.75 करोड़ रुपए की बोली लगाई।

## रोहित ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही शुरुकिया अभ्यास

**पर्थ।** भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने यहां पहुंचने के तत्काल बाद से ही अभ्यास शुरू कर दिया। रोहित पर्थ पहुंचने के बाद तुरंत नेट अभ्यास के लिए पहुंचे। रोहित अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पहले टेस्ट से बाहर हैं। उन्हें लंच सत्र के दौरान नेट में बल्लेबाजी की। उन्होंने उन्होंने रिजर्व तेज गेंदबाजों नवदीप सैनी, यश दयाल और मुकेश कुमार की गेंदों का सामना किया। रोहित 30 नवंबर से केनबरा में शुरू होने वाले दो दिवसीय अभ्यास मैच में भी खेलेंगे। इस अभ्यास मैच को प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं है पर यह मैच अहम होगा क्योंकि इससे भारतीय टीम को गुलाबी गेंद से होने वाले दिन-रात्रि के मुकामले के लिए अभ्यास का अवसर मिलेगा। भारतीय टीम छह दिवस से एडिलेड में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। रोहित के भी केनबरा में इस मैच में खेलने की उम्मीद है। इससे उन्हें टेस्ट में उतरने से पहले लय हासिल करने का अवसर मिलेगा।

## आइवरी कोस्ट सात रनों पर आउट हुई सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम बनी



एजेंसी ■ लागोस

आइवरी कोस्ट की टीम अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे कम केवल 7 रन पर आउट होने वाली पहली टीम है। नाइजीरिया के खिलाफ हुए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप सब रीजनल क्रालीफायर मैच में ये शर्मनाक रिकॉर्ड आइवरी कोस्ट के नाम हुआ। आइवरी कोस्ट की टीम नाइजीरिया के खिलाफ सिर्फ सात रन पर आउट हो गई और इस

इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए आइवरी कोस्ट की टीम नाइजीरियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पायी। नाइजीरिया की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर इसहाक दानलाडी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फीटर अहो ने दो और सिल्वेस्टर ओक्पे ने एक विकेट लिया। वहीं आइवरी कोस्ट की ओर से 11 में से 7 बल्लेबाज शून्य पर ही पेवेलियन लौट गये। एक बल्लेबाज ही 4 रन बना सका। बाकी के 3 बल्लेबाज सिर्फ 1-1 रन बना पाये। यह पुरुषों के टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे कम स्कोर है। इस प्रारूप में इससे पहले का सबसे कम स्कोर 10 रन था। इस स्कोर पर दो बार टीम आउट हुई है। इससे पहले मंगोलिया की टीम इस साल सितंबर में सिंगापुर के खिलाफ 10 रनों पर ही सिमट गयी थी।

## आईपीएल-2025 विलियम्सन-शॉ से लेकर शार्दुल-रहाणे तक को नहीं मिला कोई खरीदार

## नीलामी के दूसरे दिन कई दिग्गज खिलाड़ी नहीं बिके

एजेंसी ■ जेदा

आईपीएल 2025 के लिए नीलामी का दूसरा दिन जारी है। तेजतरंग भारतीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को आईपीएल की बड़ी नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को कोई खरीदार नहीं मिला। वहीं, स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वांशिंगटन सुंदर को गुजरात टाइटंस ने सोमवार को आईपीएल मेगा नीलामी के दूसरे दिन 3.20 करोड़ रुपये में खरीदा।

न्यूजीलैंड के स्टेन बल्लेबाज केन विलियम्सन और रॉबन फिलिप्स भी नहीं बिके। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों फाफ डुलेसिस और वेस्टइंडीज के रोवमन पॉवेल को क्रमशः दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो करोड़ रुपये और 1.50



करोड़ रुपये में खरीदा। अनुभवों भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के लिए भी किसी फ्रेंचाइजी से बोली नहीं लगाई। बिना बिके खिलाड़ियों को दिन के अंत में एकसल्लेटेड ऑक्शन के दौरान खरीदार मिल सकते हैं यदि उनके नाम किसी फ्रेंचाइजी द्वारा

दिए जाते हैं। शुरुआती तीन सेट में से 19 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी अनसॉल्ड रहे थे। विलियम्सन और रहाणे के अलावा न्यूजीलैंड ग्लेन फिलिप्स, मयंक अग्रवाल, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, वेस्टइंडीज के शार्दुल ठाकुर, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी और

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत पर कोई बोली नहीं लगी। वहीं, अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर मुजीब उर रहमान और दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बैट्टर डोनोंवन फेरेरा को भी कोई खरीदार नहीं मिला। भारतीय गेंदबाजों पर जमकर पैसे बरसे। इनमें भुवनेश्वर कुमार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु ने 10.75 करोड़ रुपये, मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच कार्ड के जरिये आठ करोड़ रुपये, दीपक चाहर को मुंबई इंडियंस ने 9.25 करोड़ रुपये में और आकाश दीप को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आठ करोड़ रुपये में खरीदा। अफगानिस्तान के युवा स्पिनर अल्लाह गजाजपर को मुंबई इंडियंस ने 4.80 करोड़ रुपये में अपनी टीम से जोड़ा।

## मैकस्वीनी को पहले खेलने का अवसर देकर ख्वाजा ने गलती की: क्लार्क

**पर्थ।** ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान माइकल क्लार्क ने पहले क्रिकेट टेस्ट में मेजबान टीम की शर्मनाक हार पर निराशा जताते हुए कहा कि बड़े स्कोर का पीछा करते हुए नाथन मैकस्वीनी को पहले बल्लेबाजी का अवसर देकर उनमें सलामी जोड़ीदार उस्मान ख्वाजा ने गलती की थी। इस मैच सलामी बल्लेबाज मैकस्वीनी दबाव का सामना नहीं कर पाये और केवल चार गेंद ही खेल पाये। वह बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। वहीं ख्वाजा भी सिराज की गेंद पर आउट हुए। क्लार्क ने कहा, बहुत से लोग पहली गेंद खेलना पसंद नहीं करते, इसलिए सलामी बल्लेबाज रोटेड किये जाते हैं। ख्वाजा ने पहली पारी में पहली गेंद खेली, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने मैकस्वीनी को पहली गेंद खेलने का कहा पर मुझे लगता है कि ख्वाजा को ही दूसरी पारी में पहली गेंद खेलना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था मैं अधिक अनुभवों हूँ मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा करना चाहते हो पर मुझे इसका आनंद उठाने दो। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की दूसरी पारी के दौरान गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण भी अच्छा नहीं था। क्लार्क ने कहा, ऐसा लग रहा था कि हम भारत को फिर से कम समय में हराने की उम्मीद कर रहे थे। वे हमारे सामने थे, पर मैंने हमारे किसी भी गेंदबाज को किसी भी भारतीय बल्लेबाज पर हावी होते नहीं देखा।

**लॉर्ड कृष्णा पब्लिक हाई स्कूल**  
Play group, Nursery, LKG, UKG,  
ADMISSION OPEN  
Up to 10th classes  
LKG makes education easier and better  
संयोजक जजीव लखवी | भाग्यश्री इन्फोकॉन्स  
शिवपुर नगर, मुंबई शहर दायर के पास, सी 10, शिवपुरी (म.प.) Mobile: 9425408667, 8707953472, 7974832538

# गोरखपुर में सुनीं 300 लोगों की समस्याएं, बोले- हर समस्या का कराएंगे समाधान

सीएम योगी का फिर जनता दरबार... बतखों को दाना खिलाते हुए नजर भी आए

**एजेसी ■ गोरखपुर**  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर

पीड़ित व्यक्ति समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं। सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। एक-एक कर और इत्मीनान से सबकी समस्याएं सुनीं। उन्हें आश्वासन दिया कि वह सभी की



समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने

कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश

कूट लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर सीएम योगी ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश भी दिए कि यदि किसी प्रकार में पीड़ित को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है तो इसकी भी जांच कर जवाबदेही तय की जाए। जनता दर्शन में कूट लोग इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी।

गायों को खिलाया गुड़

गोसेवा के दौरान उन्होंने सितंबर माह में आंध्र प्रदेश के येलेधरम स्थित गोशाला से गोरखनाथ मंदिर लाए गए नादिपथि मिनिपचर नस्ल (पुंगनूर नस्ल की नवोन्नत ब्रीड) के दो गौवंश भवानी और भोलू को खूब दुलारा तथा हाथों से उन्हें चारा (बरसोम) खिलाया। सीएम ने अन्य गौवंश को भी खूब दुलारने के बाद उन्हें गुड़ खिलाया और गोशाला के भी कार्यकर्ताओं को देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के दौरान सीएम योगी जब भीम सरोवर पर पहुंचे तो वहां बतखों का समूह विचरण कर रहा था। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चारा खिलाकर बतखों पर भी स्नेह बरसाया।

सीएम योगी ने की गौ-सेवा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। सोमवार प्रातःकाल शिवावतारगुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने, अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर मत्था टेकने के बाद सीएम योगी मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गोशाला में पहुंचे। यहां उन्होंने गौवंश के बीच समय बिताया और गोसेवा की।

बीफ न्यूज

अखिलेश का आरोप, द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बड़े नेता बनने के लिए संभल हिंसा कराई

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के अदालत के आदेश के विरोध में हुई संभल हिंसा के संबंध में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाज रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है। हालांकि, इस एफआईआर को समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव के दौरान वोट लूटने और अपने कुकर्मा को छुपाने के लिए योगी सरकार ने जानबूझ कर ऐसा किया है।

गूगल मैप के सहारे अंधरे प्लाईओवर पर दौड़ा दी कार नदी में गिरने से तीन की मौत

**बरेली।** वर्तमान में यहां फिर कभी भी तकनीक पर विश्वास करना ठीक है, लेकिन अति विश्वास करना ठीक नहीं है। इसी अति विश्वास का शिकार बरेली में तीन लोग हुए। दरअसल बरेली जिले में दुखद घटना घटी, जहां एक अंधरे प्लाईओवर से एक कार गहरी खाई में गिर गई, इसमें तीन लोगों की मौत हुई। यह घटना शनिवार को हुई, जब दो व्यक्ति, विवेक और अमित और अन्य, गुरुग्राम से शादी के लिए बरेली जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि बरेली जिले में तीन लोगों की मौत हुई, जब गूगल मैप पर उनकी कार गलत तरीके से निर्माणधीन पुल पर ले गई और कार नदी में गिर गई। पीड़ितों में से दो की पहचान विवेक और अमित के रूप में हुई, जिन्होंने गुरुग्राम से अपनी यात्रा शुरू की और एक शादी में शामिल होने के लिए बरेली जा रहे थे।

रास्ते में ही पूरा हुआ जिंदगी का सफर, अज्ञात वाहन से कुचलकर दो लोगों की मौत

**फिरोजाबाद।** जिले के पचोखरा इलाके में एटा रोड पर अज्ञात वाहन ने दो राहगीरों को कुचल दिया जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। निधौलीकलां के गांव थ्यूवीपुर निवासी अमन 16 वर्ष पुत्र बिजेंद्र सिंह अपने चाचा के साथ शादी समारोह लौटते समय रास्ते में किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे अमन और चाचा लहलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। घटना स्थल के समीप हरिओम पुत्र राम सिंह का भी शव मिला है जो कहीं से लौट रहा था। पुलिस तीनों को लेकर अस्पताल आई जहां डॉक्टरों ने हरिओम और अमन को मृत घोषित कर दिया है।

आयोजन

बोले-वेदव्यास की परंपरा का हो रहा निर्वहन

## शिवमहापुराण कथा सुनने काशी पहुंचे सीएम योगी

एजेसी ■ वाराणसी

यूपी कॉलेज के निकले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा आरती की। इसके बाद सीएम ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने षोडशोपचार विधि से रुद्राभिषेक किया। इसके बाद गंगा द्वार से कूज में सवार होकर डोमरी के लिए रवाना हुए। कथा स्थल पर पहुंचते ही योगी पर सतुआ बाबा ने सीएम योगी का स्वागत किया। पूरे पंडाल में जयघोष होने लगा। सीएम ने शिवमहापुराण कथा में शामिल होने को लेकर खुशी जाहिर की। सीएम ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के पावन तट पर



शिवमहापुराण की कथा को श्रवण का आनंद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा का आप सभी काशी, प्रदेशवासियों श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। भ्रमण निशते का भक्त और सनातनी होने के नाते मैं

सबका हृदय से अभिनंदन

योगी ने कहा कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है। उसे ठीक पहले काशी की धरती पर इस कथा के माध्यम से कुंभ का दर्शन हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस अनुशासन और श्रद्धा भाव के साथ आप सभी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ।

सकती है। मैंने कहा कि उनकी कथा की तो चर्चा ही इस बात के लिए होती है कि वहां हजार में नहीं लाखों में श्रद्धालुओं की गिनती होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा: सभी श्रद्धालु होते हैं परम भक्त होते हैं और परम भक्त की सबसे बड़ी पहचान

एजेसी ■ गोंडा

यूपी के गोंडा में रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र में एक विवाहिता की बात सुनकर परामर्शदाताओं को यकीन नहीं हुआ तो वह पति के दूसरी शादी करने की बात पूछते रहे। इसके बाद फिर बगल में बैठे पति से बेटी के जन्म सुनकर सभी दंग रह गए। परामर्शदाताओं ने कहा कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना अवैध है। विवाहिता को कोर्ट जाने की सलाह दी है। विवाहिता ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। सुनवाई



पति व ससुर ने घर से भगाया

परामर्शदाता गंगधर शुक्ल, संतोष ओझा और उमिनरीक्षक प्रियंका सिंह ने कहा कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी बिना तलाक किए अवैध माना जाएगा। विवाहिता को कोर्ट जाने की सलाह दी। विवाहिता ने बताया कि दोनों की शादी 11 मई 2017 को हुई थी, लेकिन बेटी को जन्म देने के बाद पति व ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भैरमपुर गांव में एक महिला से शादी कर ली। वह पिता के घर रहकर बेटी का भरण-पोषण कर रही है। हालांकि कोई जोड़े एक साथ रहने के लिए भी राजी हुए।